



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 30—नवम्बर 5, 2010 (कार्तिक 8, 1932)
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 30—NOVEMBER 5, 2010 (KARTIKA 8, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

दिनांक 23 सितम्बर 2010

नई दिल्ली-110069, दिनांक 14 सितम्बर 2010

सं. ए-19014/21/2010-प्रशा. I--कार्मिक एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 06 अगस्त, 2010 के का.ज्ञा.सं. 4/2/2010-सी.एस.-I (घ) के तहत वर्ष, 2010 (भाग) के लिए के.सचि.से. की चयन सूची (उपसचिव) में शामिल किए जाने तथा सं.लो.से.आ. संवर्ग आवंटित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, श्री एस. कनप्पन, भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय, के.सचि.से. (अवर सचिव) के ग्रेड-I अधिकारी को दिनांक 03 सितम्बर, 2010 (अपराह्न) से सं.लो.से.आ. के कार्यालय में 7600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 (15,600--39,100) रु. में के.सचि.से. के चयन ग्रेड (उपसचिव) में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. अधिकारी की उपर्युक्त पदोन्नति सुश्री गरिमा सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में माननीय के.प्रशा.अधि., कोलकाता में लंबित ओ.ए.सं. 1864/2009 के अंतिम आदेश के अधधीन है।

ए. के. अहलवालिया
वरि. प्रशासनिक अधिकारी

सं. ए.-32013/1/2010-प्रशा.-I--का. एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 17.9.2010 की का.ज्ञा.सं. 3/4/2010 सी.एस.-I(घ) के तहत वर्ष 2010 के लिए के.सचि.से. (सी एस एस) के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) की पूरक चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, के.सचि.से. के चयन ग्रेड (उपसचिव) के निम्नलिखित अधिकारी जो वर्तमान में सं.लो.से.आ. में कार्यरत हैं, को दिनांक 22 सितम्बर, 2010 से आगामी आदेशों तक, उनके द्वारा धारित उपसचिव के पद को अपग्रेड करते हुए संयुक्त सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के (निदेशक स्तर) पद पर संशोधित वेतन ढांचे में पी बी-4, 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन सहित (37,400--67,000/- रु.) में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं. सीएसएल सं. अधिकारी का नाम

1	2	3
		सर्वश्री
1.	3796	एस. बी. सरोहा
2.	3638	वी. के. सेखरी

1	2	3
		सर्वश्री
3.	3674	वाई. पी. गुप्ता
4.	3952	पी. पी. हलधर
5.	3723	एन. सी. गौड़
6.	3726	अशोक कुमार

ए. के. अहलूवालिया
वरि. प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक 24 सितम्बर 2010

सं. ए.-19014/25/2010-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 14/15 सितम्बर, 2010 के का.आ.सं. 4/2/2010-सी.एस. 1(घ) के तहत वर्ष 2010 (भाग) के लिए के.सचि.से. की चयन सूची (उपसचिव) में शामिल किए जाने तथा सं.लो.से.आ. संवर्ग आवंटित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, श्री एन. के. शर्मा, योजना आयोग के के.सचि.से. संवर्ग (अवर सचिव) के ग्रेड-I अधिकारी को दिनांक 15 सितम्बर, 2010 से सं.लो.से.आ. के कार्यालय में 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रु.) में के.सचि. से. के चयन ग्रेड (उपसचिव) में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. अधिकारी की उपर्युक्त पदोन्नति सुश्री गरिमा सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में माननीय के.प्रशा.अधि., कोलकाता में लंबित ओ.ए.सं. 1864/2009 के अंतिम आदेश के अध्वधीन है।

ए. के. अहलूवालिया
वरि. प्रशासनिक अधिकारी

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. डीपी/पर्स-1/2010/64/3/14/2005--श्री ओ. पी. गौड़ ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30.09.2010 के अपराह्न से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एम. सचदेव
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स-1/2010/65/3/25/2008--श्री एम. के. कुमार ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30.09.2010 के अपराह्न से पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एम. सचदेव
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स-1/2010/5097/3/5/2007--श्री एम. एस. सुन्दरराजन ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31.08.2010 के अपराह्न से पुलिस अधीक्षक, के. अ. ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एम. सचदेव
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 अक्टूबर 2010

सं. 3/37/2010-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री विक्रम श्रीवास्तव, भा.पु.से. (उ.प्र.-73) को दिनांक 6 अक्टूबर, 2010 अपराह्न से (पार्ष्विक स्थानांतरण आधार पर) वेतनमान रु. 80,000/- (नियत)(वैयक्तिक आधार पर) में सेवानिवृत्ति की अवधि 31.03.2012 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

धनी राम
सहायक निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 19 अक्टूबर 2010

सं. 3/4/2009-प्रशा.--सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के कारण श्री प्रसून मुखर्जी, भा.पु.से. (प.बं. 73) ने दिनांक 30 सितम्बर 2010 अपराह्न से महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

धनी राम
सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 अक्टूबर 2010

सं. ओ.दो. 5400/2010-डी.ए.-4कार्मिक--श्री वी. कार्तिकेयन, उप कमाण्डेंट (इरला-5400) 41 बटालियन, केरिपुबल, का सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 01.10.2010 (पूर्वाह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.10.2010 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

टी. चन्द्रशेखर
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 सितम्बर 2010

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक.1/166--राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायक कमाण्डेंट (लोकल रैंक), निरीक्षक (कार्य) को

रु. 15,600-- 39,100/- (+) ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के वेतनमान में के.ओ.सुब में सहायक कमाण्डेंट (कार्य) के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से उन्हें इस पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	सहायक कमाण्डेंट (कार्य) में पद ग्रहण की तिथि
----------	----------------	----------------------------------	--

1	2	3	4
सर्वश्री			
1.	रामेश्वर प्रसाद सिंह	ओटीएचपीपी, ओबरा	08.02.2010 (पूर्वाह)
2.	आर. सवाईन	एमडीएल, मुम्बई	05.02.2010 (अपराह)
3.	हरि सिंह	बीसीसीएल, धनबाद	08.02.2010 (पूर्वाह)
4.	सी.वी. सेशागिरि राव	एचपीसीएल (वीआर), विजाग	05.02.2010 (पूर्वाह)
5.	के.वी. अब्राहम	एनपीसी, कैगा	05.02.2010 (अपराह)
6.	फौजा सिंह	समूह मुख्यालय, चण्डीगढ़	05.02.2010 (पूर्वाह)
7.	मनोरंजन महन्ता	गुआ और माईन्स झारखण्ड	15.02.2010 (पूर्वाह)
8.	मांगे राम	मुम्बई एयरपोर्ट	05.02.2010 (पूर्वाह)
9.	डी.के. कर	डीवीसी पंचेत, धनबाद	17.02.2010 (पूर्वाह)
10.	एस.के. सिन्हा	आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली	06.02.2010 (पूर्वाह)
11.	के.एम. रमेश	कालीकट एयरपोर्ट	15.02.2010 (पूर्वाह)
12.	एस.के. छिब्बर	कोयम्बटूर एयरपोर्ट	22.02.2010 (पूर्वाह)
13.	ओमबीर सिंह	जीबीएस, नई दिल्ली	06.02.2010 (पूर्वाह)
14.	एस.बी. रशीद	गेल पाय, इटावा	05.02.2010 (पूर्वाह)
15.	ए.ए. अस्थेकर	कोलकाता एयरपोर्ट	05.02.2010 (पूर्वाह)
16.	ओ.पी. शुक्ला	एचईपी, उरी	04.02.2010 (पूर्वाह)
17.	एल. सिमोन	ओपीएस, नूनमाती	05.02.2010 (पूर्वाह)

1	2	3	4
सर्वश्री			
18.	वी.के. गौर	बैंगलूरु एयरपोर्ट	05.02.2010 (पूर्वाह)
19.	यू.सी. भोवल	एफसीआई, दिघाघाट	05.02.2010 (पूर्वाह)
20.	एम.एन. चौहान	केएचडीसी, खण्डवा	05.02.2010 (पूर्वाह)
21.	आर.एस. पंवार	ऑयल, दुलियाजान	05.02.2010 (पूर्वाह)
22.	वी.के. शारदा	खजुराहो एयरपोर्ट	06.02.2010 (पूर्वाह)
23.	बी.आर. पाठक	हैदराबाद एयरपोर्ट	05.02.2010 (पूर्वाह)
24.	ए.एम. प्रसाद	बीएसएल, बोकारो	05.02.2010 (पूर्वाह)
25.	जी.आर. मोरघाडे	आईओसी, पानीपत	05.02.2010 (पूर्वाह)
26.	आर.एस. पाटिल	केएपीएस, काकरापारा	15.02.2010 (पूर्वाह)
27.	भूपिन्दर सिंह	ओएनजीसी, नाजिरा	05.02.2010 (पूर्वाह)
28.	सी.आर. आचार्य	समूह मुख्यालय, कोलकाता	11.03.2010 (पूर्वाह)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

दिनांक 8 अक्टूबर 2010

शुद्धि-पत्र

सं. ई-38015(4)/एएलजे/2009/कार्मिक.1/192--इस महानिदेशालय की दिनांक 23.10.2009 की अधिसूचना संख्या ई-38015(4)/एएलजे/2009/कार्मिक.1/313 के संदर्भ में जिसके तहत श्री अर्जुन लाल जाट, सहायक कमाण्डेंट (परिवीक्षा) का त्याग-पत्र दिनांक 21.07.2009 (अपराह) से स्वीकार किया गया था।

उपरोक्त अधिसूचना का संशोधित रूप निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाए :--

के लिए

“त्याग-पत्र” शब्द को

पढ़ा जाए

“तकनीकी त्याग-पत्र”

उपरोक्त अधिसूचना की अन्य विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेंगी।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

दिनांक 12 अक्टूबर 2010

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक.1/195--सक्षम अधिकारी, के. औ.सु. बल नियमावली, 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए के.औ.सु.ब. के निम्नलिखित निरीक्षक (अनु./स्टेनो) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सहायक कमांडेंट (जे.ए.ओ.) का लोकल रैंक प्रदान करते हैं :--

क्र. अधिकारी का नाम सं.	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	सहायक कमांडेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
-------------------------	----------------------------------	---

सर्वश्री		
1. कमल कृष्णा दास	बल मुख्यालय, नई दिल्ली (कार्मिक शाखा)	13.09.2010 (पूर्वाह)
2. अलोक कुमार घोष	एसएसजी, दिल्ली	13.09.2010 (पूर्वाह)
3. डी.सी. त्यागी	जीबीएस, नई दिल्ली	13.09.2010 (पूर्वाह)
4. रामबृक्ष प्रसाद	बीसीसीएल, धनबाद	05.09.2010 (पूर्वाह)
5. नारायण सिंह	आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली	01.09.2010 (पूर्वाह)
6. के.टी. कृष्णन	उ.खण्ड मुख्यालय, नई दिल्ली	20.09.2010 (पूर्वाह)

ह/- अपठनीय
महानिदेशक/के.औ.सु.ब

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक.1/196--राष्ट्रपति, निम्नलिखित उप कमांडेंट (लोकल रैंक), सहायक कमांडेंट (कार्य/जे.ए.ओ) को रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रुपए 6,600/- के वेतनमान में के.औ.सु.ब में उप कमांडेंट (कार्य) के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से उन्हें इस पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं :--

क्र. अधिकारी का नाम सं.	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	उप कमांडेंट कार्य में पद ग्रहण की तिथि
-------------------------	----------------------------------	--

1	2	3	4
सर्वश्री/श्रीमति			
1. शिप्रा श्रीवास्तव	बीएसपी, विशाखापत्तनम	24.05.2010 (पूर्वाह)	
2. के.एल. गौबा	4वीं रिजर्व बटालियन, जयपुर	28.05.2010 (पूर्वाह)	

1	2	3	4
3. राम गोपाल शर्मा	आरटीसी, भिलाई	24.05.2010 (पूर्वाह)	
4. एस.आर.सी. देसाई	पं.खण्ड मुख्यालय, मुम्बई	24.05.2010 (पूर्वाह)	
5. डी.एस. शुक्ला	बीएसपी, भिलाई	28.06.2010 (पूर्वाह)	
6. आर.पी. कौशिक	केपीटी, काण्डला	24.05.2010 (पूर्वाह)	
7. राज कुमार त्यागी	गेल, लकवा	24.05.2010 (पूर्वाह)	
8. अमृत लाल शर्मा	एनएफएल, नांगल	24.05.2010 (पूर्वाह)	
9. आर.के. शर्मा	केकेएनपीपी, कुदमकुलम	24.05.2010 (पूर्वाह)	
10. हरीश पाण्डेय	पीटीपीएस, पनकी (निसा हैदराबाद फॉर पे परपज़)	23.05.2010 (पूर्वाह)	
11. चाँद सिंह	आईएसपी, नासिक	05.06.2010 (पूर्वाह)	
12. पी. प्रभाकरन	बीआईपी सिक्कोरिटी, दिल्ली	24.05.2010 (पूर्वाह)	
13. कंवलजीत सिंह	आरएसटीपीपी, रिहन्द	23.05.2010 (पूर्वाह)	
14. वी.के. अरोड़ा	बेस वर्कशाप, भिलाई	06.08.2010 (पूर्वाह)	
15. बहादुर सिंह	बीआरपीएल, बोंगईगौव	23.05.2010 (पूर्वाह)	
16. एस.ए. नैनार	त्रिची एयरपोर्ट	24.05.2010 (पूर्वाह)	
17. अशोक नन्दा मून	आईओसी, पानीपत	06.08.2010 (पूर्वाह)	
18. एम.पी. सिंह	आरएसपी, राउरकेला	26.06.2010 (पूर्वाह)	
19. के.एम. सन्त	इसको, बर्नपूर	31.07.2010 (पूर्वाह)	
20. रनजीत सिंह	सीसीएल, कारगली	03.06.2010 (पूर्वाह)	

1	2	3	4
21.	आर. शिवारामा	2वीं रिसर्च बटालियन, 03.05.2010 राँची (पूर्वाह्न)	
22.	राम नवल	केएसटीपीपी, कोरबा 25.05.2010 (पूर्वाह्न)	
23.	ए.के. नसकर	यूसीआईएल, जादूगोडा 29.05.2010 (पूर्वाह्न)	
24.	जे.जे. प्रसाद	जीबीएस, नई दिल्ली 24.05.2010 (पूर्वाह्न)	
25.	बिरसा लाकरा	एनपीएम, जागीरोड 24.05.2010 (पूर्वाह्न)	
26.	एम.एस. इनवटे	बीसीसीएल, धनबाद 25.05.2010 (पूर्वाह्न)	
27.	मंगल लाकरा	केएपीएस, काकरापारा 24.05.2010 (पूर्वाह्न)	
28.	वी.एस. बिरोले	बल मुख्यालय, नई दिल्ली 07.06.2010 (पूर्वाह्न)	
29.	सी.जी. चट्टोपाध्याय	बीआईपी सिक्कोरिटी, दिल्ली 24.05.2010 (पूर्वाह्न)	
30.	रविन्दर रजक	बीसीसीएल, धनबाद 25.05.2010 (पूर्वाह्न)	

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सु.ब

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक.1/197--सक्षम अधिकारी, के. औ.सु. बल नियमावली, 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए के.औ.सु.ब. के निम्नलिखित निरीक्षक (अग्नि) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सहायक कमांडेंट (अग्नि) का लोकल रैंक प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	सहायक कमांडेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
----------	----------------	----------------------------------	---

1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	संजीव कुमार सद्दी	एनटीपीसी/टीटीपीएस, तलचर	26.06.2010 (पूर्वाह्न)
2.	कुलदीप यादव	डीटीपीएस, दुर्गापुर	16.08.2010 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
3.	पी. बांलाकृष्णा	सीटीपीएस, चन्द्रपुरा	23.06.2010 (पूर्वाह्न)
4.	सब्बेल्ला वेंकट रेड्डी	एनएफएल, पानीपत	14.08.2010 (पूर्वाह्न)
5.	रूपिन्दर सिंह बेंस	बीएचईएल, झाँसी	20.06.2010 (पूर्वाह्न)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सु.ब

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक.1/198--सक्षम अधिकारी, के. औ.सु. बल नियमावली, 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए के.औ.सु.ब. के निम्नलिखित निरीक्षक (कार्य) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सहायक कमांडेंट (कार्य) का लोकल रैंक प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	सहायक कमांडेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
----------	----------------	----------------------------------	---

1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	विनोदधन टी.	एसजी, कोयम्बटूर	10.09.2010 (पूर्वाह्न)
2.	संकर्षण बिस्वाल	आईओसी, बरौनी	27.09.2010 (पूर्वाह्न)
3.	एन. सिवारमन	आरजीटीपीपी, हिसार	13.09.2010 (पूर्वाह्न)
4.	टी. सूरना राजू	टीटीपीएस, तलचर	10.09.2010 (पूर्वाह्न)
5.	गौरा शंकर पटेल	एसटीपीपी, सिम्हादरी	20.09.2010 (पूर्वाह्न)
6.	आर.एस. दनदोटिया	आरएपीएस, कोटा	20.09.2010 (पूर्वाह्न)
7.	बसन्त कुमार	आरटीसी, देवली	17.09.2010 (पूर्वाह्न)
8.	मोहिन्दर सिंह	एचडब्ल्यूपी, मनुगुरु	17.09.2010 (पूर्वाह्न)
9.	उमेश चन्द्र भदोला	एसजी, अमृतसर	02.09.2010 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
	सर्वश्री		
10.	राघवेन्द्र प्रताप सिंह	डीएम बटालियन-1, मुन्डाली	20.09.2010 (पूर्वाह्न)
11.	एस.पी. राणा	जेएनपीटी, शेवा	06.09.2010 (पूर्वाह्न)
12.	एस.के. भन्जा	आरटीसी, मुन्डाली	30.08.2010 (पूर्वाह्न)
13.	अशोक कुमार सोलहिया	द. खण्ड मुख्यालय, चैन्नई	13.09.2010 (पूर्वाह्न)
14.	शाम लाल	एसजी, अगरतला	16.09.2010 (पूर्वाह्न)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक.1/199--सक्षम अधिकारी, के. ओ.सु. बल नियमावली, 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए के.ओ.सु.ब. के निम्नलिखित निरीक्षक (कार्य) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सहायक कमांडेंट (कार्य) का लोकल रैंक प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	सहायक कमांडेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
----------	----------------	----------------------------------	---

1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	पी.सी. चक्रवर्ती	जेएनपीटी, शेवा	16.06.2010 (पूर्वाह्न)
2.	सुदाम सीएच दास	आरटीसी-II, देवली (अब एमपीआरटीसी, बेहरोर)	06.07.2010 (पूर्वाह्न)
3.	एस. खगेश्वर राव	आरटीसी, बडवाह	27.08.2010 (पूर्वाह्न)
4.	ए.एस. कदयान	ऑयल दुलियाजान	06.08.2010 (पूर्वाह्न)
5.	ए.एस. सम्याल	चैन्नई एयरपोर्ट	13.07.2010 (पूर्वाह्न)
6.	के.एन. आचार्य	रायपुर एयरपोर्ट	07.06.2010 (पूर्वाह्न)
7.	मो. खुशीद आलम	आरटीसी, बडवाह	16.07.2010 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
	सर्वश्री		
8.	ओ.पी.एस. चौहान	ऑयल दुलियाजान	16.07.2010 (पूर्वाह्न)
9.	जी. जयादेवन	आईएसटीआरएसी लखनऊ	12.07.2010 (पूर्वाह्न)
10.	पी.जे. जोसफ	बीपीसीएल, बोकारो	26.06.2010 (पूर्वाह्न)
11.	एम.एल. सूर्या	जीबीएस, नई दिल्ली	17.06.2010 (पूर्वाह्न)
12.	भगवन्थू	एसएमपीएल, राजकोट	31.08.2010 (पूर्वाह्न)
13.	एस.सी. मिश्रा	जीबीएस, नई दिल्ली	05.07.2010 (पूर्वाह्न)
14.	ए.के. मल्लिक	वीएसटीपीपी, सिंधि	29.12..2009 (पूर्वाह्न)
15.	हरमन टोप्पो	वीएसएससी, धुम्बा	28.01.2010 (पूर्वाह्न)
16.	एम. कन्नैन	केपीटी, काण्डला	15.10.2009 (पूर्वाह्न)
17.	सरबेश्वर दास	एनएफसी, हैदराबाद	17.04.2009 (पूर्वाह्न)
18.	एन.एस. मुरलीधरन	आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली	14.10.2009 (पूर्वाह्न)
19.	मदन पाल	एसजी, हैदराबाद	16.03.2009 (पूर्वाह्न)
20.	गजेन्द्र सिंह	निसा, हैदराबाद	31.03.2009 (पूर्वाह्न)
21.	एन.पी. रेड्डी	डीएमआरसी, दिल्ली	13.08.2010 (पूर्वाह्न)
22.	संजय सिंह	डीवीसी हैडक्वार्टर, कोलकाता	27.03.2009 (पूर्वाह्न)
23.	ए. नारायण स्वामी	बीएसपी, भिलाई	13.09.2010 (पूर्वाह्न)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

सं. ई-38015(4)/4/एसएम/2007/कार्मिक.1/201--राष्ट्रपति, के.औसुब आरटीसी बडवाह के सहायक कमांडेंट श्री संदीप मलिक का त्याग-पत्र दिनांक 12.01.2007 (पूर्वाह्न) से स्वीकार करते हैं।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

दिनांक 18 अक्टूबर 2010

सं. ई-38015(4)/3/बीए/2010/कार्मिक.1/205--सिविल सेवाएं परीक्षा 2009 के आधार पर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा समूह-"क" में नियुक्ति के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री वरुण अहलुवालिया, सहायक कमांडेंट (परिवीक्षा), के.औसुब का तकनीकी त्याग-पत्र दिनांक 26.08.2010 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

सं. ई-16013(1)4/2009/कार्मिक-1/190--राष्ट्रपति, श्री पी.एस. फलनीकर, भा.पु.से. (म.प्र.: 1989) को दिनांक 04.10.2010 के (अपराह्न) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली में उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

रत्नदीप जोशी
सहायक महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 18 अक्टूबर 2010

सं. प्रशा.-I/का.आ.सं.-236--महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) नई दिल्ली, इस कार्यालय की श्रीमती रजनी झा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (कर्मचारी कोड सं. DLNDV 4051406) को लेखापरीक्षा अधिकारी कैडर में रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2, जिसमें रु. 5,400/- का ग्रेड वेतन मान्य है, दिनांक 29.09.2010 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

ह./- अपठनीय
निदेशक (प्रशासन)

सं. प्रशा.-I/का.आ.सं.-237--महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) नई दिल्ली, इस कार्यालय के श्री प्रेम कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (कर्मचारी कोड सं. DLNDV 4051398) को लेखापरीक्षा अधिकारी कैडर में रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2,

जिसमें रु. 5,400/- का ग्रेड वेतन मान्य है, दिनांक 01.10.2010 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

ह./- अपठनीय
निदेशक (प्रशासन)

सं. प्रशा.-I/का.आ.सं.-238--महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) नई दिल्ली, इस कार्यालय के श्री संजीव कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (कर्मचारी कोड सं. DLNDV 4051075) को लेखापरीक्षा अधिकारी कैडर में रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2, जिसमें रु. 5,400/- का ग्रेड वेतन मान्य है, दिनांक 29.09.2010 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

ह./- अपठनीय
निदेशक (प्रशासन)

भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण

संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग

कोलकाता-700016, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. 4-354/2010/स्थापना--निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण सहर्ष श्री अमित सोनी को सहायक कीपर, ग्रुप-बी, (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- (पूर्व संशोधित) के परिशोधित वेतन बैंड पी बी-2 (9,300--34,800/-) के ग्रेड वेतन रु. 4,600/- (संशोधित) के साथ उप क्षेत्रीय केन्द्र, जगदलपुर में दिनांक 22 सितम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

डी. एन. पाण्डेय
कार्यालय अध्यक्ष

परमाणु ऊर्जा विभाग

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

सं. आरआरकेट/2009-प्रशा/आर-805(जे)/1043--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति पर वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-) से वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4 रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,700/-) के रूप में दिनांक 01.07.2010 से राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम
1	2
1.	श्री आर. के. खरे
2.	श्री एस. आर. गर्ग
3.	श्री एन. के. सेठी
4.	डॉ. के. जे. एस. सोखी
5.	श्री प्रमोद राधेश्याम

1	2	1	2
6.	श्री आर. के. बारोटिया	15.	डॉ. एस. गणेशमूर्ति
7.	श्री उमेश काले	16.	श्री पी. गणेश
8.	श्री देवदत्त बक्षी	17.	श्रीमती एस. गंगोपाध्याय
9.	श्री एस. जी. गिलानकर	18.	श्री बी. के. जैन
10.	डॉ. गुरुविन्दरजीत सिंह	19.	डॉ. सी. मुखर्जी
11.	श्री पंकज कुमार	20.	श्री सुब्रतो दास
12.	श्री प्रशान्त पारीक	21.	डॉ. बी. बी. तिवारी
13.	डॉ. कैलाश रुवाली		
14.	श्री भास्कर बिस्वास		

आर. पी. आचार्य
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

सं. निसेसंप्रनि/प्र/2(199)/2010-भर्ती/695---राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अधिकारियों को निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में उनकी पदोन्नति होने पर उनके सामने दर्शाए ग्रेड तथा दिनांक से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति ग्रेड	वेतन बैंड (रु.)	ग्रेड वेतन (रु.)	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री रतन सिंह	वैअ/एफ	रु. 37,400--67,000/-	रु. 8,700/-	01.07.2010 (पूर्वाह)
2.	श्री के. एल. मोदी	वैअ/एफ	रु. 37,400--67,000/-	रु. 8,700/-	01.07.2010 (पूर्वाह)
3.	श्री जी. भगवतीश्वरन	वैअ/एफ	रु. 37,400--67,000/-	रु. 8,700/-	01.07.2010 (पूर्वाह)

जी. एस. मात्यु
प्रशासन अधिकारी-III

सं. निसेसंप्रनि/प्र/3(2139)/2010-भर्ती/699---राष्ट्रपति महोदय, एतद्वारा श्री जी. एस. करवाडे, प्रशासन अधिकारी-II (पीबी-2, रु. 9,300--34,800/- ग्रेड वेतन रु. 5,400/-), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई को इस निदेशालय में दिनांक 01.01.2010 पूर्वाह से अगले आदेश तक (पीबी 3, रु. 15,600--39,100/- ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) में प्रशासन अधिकारी-III के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. एस. मात्यु
प्रशासन अधिकारी-III

सहित वैयक्तिक सचिव (गैर-सचिवालय) के पद पर, अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

ओ. के. सत्यन्
प्रशासन अधिकारी-III

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुंबई-400705, दिनांक 9 अक्टूबर 2010

सं. ब्रिट/9/18/120--मुख्य कार्यकारी, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड की आशुलिपिक ग्रेड-I, श्रीमती पद्मिनी रवीन्द्रन, को दिनांक 21 सितम्बर 2010 के पूर्वाह से रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड तथा रु. 4,600/- के ग्रेड वेतन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय)

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स मोहन सोफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 जून 2010

सं. 560(5)/047725--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स मोहन सोफ्टवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स अक्षय फूड्स एण्ड बेवरेजेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 2 जुलाई 2010

सं. 560(5)/043952--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अक्षय फूड्स एण्ड बेवरेजेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स युनिस्ट्रट कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 जुलाई 2010

सं. 560(5)/035966--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स युनिस्ट्रट कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स अमुक चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 जुलाई 2010

सं. 560(5)/044719--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अमुक चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स आकाश प्लांट्स एण्ड सीड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 जुलाई 2010

सं. 560(5)/044807--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आकाश प्लांट्स एण्ड सीड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स अफ्रीक ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 जुलाई 2010

सं. 560(5)/037525--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अफ्रीक ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स अभिवादन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 जुलाई 2010

सं. 560(5)/037605--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अभिवादन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स फोनिक्स बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 जुलाई 2010

सं. 560(5)/038951--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

सं. 560(5)/029835--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

सं. 560(5)/049260--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स अलमाइटी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स अमोल केमिकल्स लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 जुलाई 2010

सं. 560(5)/044375--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अमोल केमिकल्स लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स अश्वराज लीजिंग एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 जुलाई 2010

सं. 560(5)/047554--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अश्वराज लीजिंग एण्ड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एमेजोन पेकर्स एण्ड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 जुलाई 2010

सं. 560(5)/046333--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एमेजोन पेकर्स एण्ड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स अनुराग कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 3 जुलाई 2010

सं. 560(5)/046516--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

आत्मा शाह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

आत्मा शाह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. स. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

आत्मा शाह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

आत्मा शाह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

आत्मा शाह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

आत्मा शाह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

आत्मा शाह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

आत्मा शाह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

आत्मा शाह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

आत्मा शाह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

आत्मा शाह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

आत्मा शाह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स अंकुर पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 2 अगस्त 2010

सं. 560(5)/052802--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अंकुर पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

आत्मा शाह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स एलायड क्लियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 2 अगस्त 2010

सं. 560(5)/053441--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एलायड क्लियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

आत्मा शाह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स एप्लास चिट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 2 अगस्त 2010

सं. 560(5)/053613--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एप्लास चिट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

आत्मा शाह
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

सं. 560(5)/824/7183--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	699	मैसर्स पानीपत दयाल बाग स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	4992	मैसर्स इन्डो-जर्मन क्लाइमेट कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड
3.	5471	मैसर्स छाबरा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
4.	7741	मैसर्स कुमार माल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	9584	मैसर्स चम्पा टेक्सटाइल एण्ड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
6.	10987	मैसर्स ओबेरॉय बटन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7.	11454	मैसर्स न्यू ऐज एप्लायन्सेस एण्ड प्राइवेट लिमिटेड
8.	11876	मैसर्स सुरेन्द्रा एन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड
9.	13929	मैसर्स नाफाब्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
10.	15139	मैसर्स गुरमीत फाईनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
11.	15835	मैसर्स रोवासा इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
12.	15902	मैसर्स शमा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
13.	16000	मैसर्स प्रोनर चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
14.	16913	मैसर्स लाईव वेल मेडिकोज प्राइवेट लिमिटेड
15.	20325	मैसर्स फ्लोरिशवाल चिट फंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
16.	20652	मैसर्स ट्रीयो गैस गजट्स प्राइवेट लिमिटेड
17.	21117	मैसर्स प्रकाशसंस कंकोस्ट प्राइवेट लिमिटेड
18.	21679	मैसर्स मयूर फुटवीयर्स प्राइवेट लिमिटेड
19.	21948	मैसर्स ए एस के इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
20.	22056	मैसर्स यंग फ्रेन्ड्स चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
21.	22303	मैसर्स जय चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
22.	22681	मैसर्स ट्रायनाल चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
23.	26662	मैसर्स रुद्राक्ष चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
24.	28606	मैसर्स बेनहर डी स्टील प्राइवेट लिमिटेड
25.	29825	मैसर्स ए. पी. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
26.	30374	मैसर्स प्रशान्त बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
27.	30449	मैसर्स अभयकिरम चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
28.	30712	मैसर्स एरॉन पोलीपैक इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
29.	30773	मैसर्स वीनस केबल्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
30.	30783	मैसर्स अंशुमान चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	30795	मैसर्स आदेस चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	30829	मैसर्स ए. के. एस. चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	30848	मैसर्स अरदास चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	30875	मैसर्स अभिलाशा चिट फंड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
35.	30977	मैसर्स ए. एस. जे. एस. चिट्स फंड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
36.	31030	मैसर्स उत्कृष्ट चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड
37.	31066	मैसर्स ए. वी. नेचुरल रेमिडीज़ प्राईवेट लिमिटेड
38.	31068	मैसर्स अमोघ चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	31084	मैसर्स आनप्रिया चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड
40.	31128	मैसर्स आरची चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	31431	मैसर्स अमेच्योर चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	31507	मैसर्स अर्जित चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	31537	मैसर्स आकर्षण चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	31571	मैसर्स अयोध्या चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	31628	मैसर्स एली चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	31636	मैसर्स कर्म भूमि बिल्डर्स लिमिटेड
47.	31687	मैसर्स अभिचेत चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	31832	मैसर्स अमिसी फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
49.	32143	मैसर्स स्वास्तिक पेसिफिक प्राईवेट लिमिटेड
50.	32702	मैसर्स उत्कृष्ट फाईनैशियल सर्विसेस लिमिटेड
51.	32718	मैसर्स हरियाणा फिनवेस्ट लिमिटेड
52.	32933	मैसर्स वैष्णव पेपर्स लिमिटेड
53.	32996	मैसर्स एक्सनियल फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड
54.	33109	मैसर्स एम डी टी कैसटल प्राईवेट लिमिटेड
55.	33214	मैसर्स अलास्का लीज-फिन प्राईवेट लिमिटेड
56.	33244	मैसर्स राकेश स्ट्रिप्स लिमिटेड
57.	33344	मैसर्स पी. के. आर. चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	33527	मैसर्स विटेक एग्रो इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
59.	34352	मैसर्स भवानी माता सेस्टलर सिक्यूरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
60.	34467	मैसर्स साड़ी महल एक्सक्लूसिव प्राईवेट लिमिटेड
61.	34746	मैसर्स मिस्टिक रोज़ चिट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
62.	972	मैसर्स डी आर के एम एंड संस प्राईवेट लिमिटेड
63.	3003	मैसर्स दिल्ली यूनिवर्सल प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	3125	मैसर्स कैपिटल चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड
65.	3142	मैसर्स वेरकर इंडस्ट्रीज़ इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
66.	3174	मैसर्स शान्त फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
67.	3195	मैसर्स शंकर फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
68.	3201	मैसर्स विक्रम फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
69.	3210	मैसर्स जया प्राईवेट लिमिटेड
70.	3216	मैसर्स बिश्नोई फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
71.	3245	मैसर्स सुप्रीम फाईनैशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	3267	मैसर्स ब्रिज स्टोन्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
73.	3628	मैसर्स ऑल इंडिया चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड
74.	3791	मैसर्स ए वन फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
75.	3942	मैसर्स हरक्यूलिस चिट फंड एंड फाईनैस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
76.	3960	मैसर्स इमेन फाईनैस कंपनी चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड
77.	3964	मैसर्स जेमसंस फाईनैस एंड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड
78.	3982	मैसर्स सरताज चिट फंड एंड फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
79.	3990	मैसर्स मल्होत्रा बरोश प्राईवेट लिमिटेड
80.	4010	मैसर्स उशारा इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एंड फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
81.	4012	मैसर्स ताज टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
82.	4025	मैसर्स ब्राइट चिट फंड एंड जनरल फाईनैशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	4028	मैसर्स एम्बेसडर चिट फंड एंड फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
84.	4036	मैसर्स श्री अमृत चिट फंड एंड फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
85.	4037	मैसर्स जगत बेनिफिट चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड
86.	4058	मैसर्स भास्कर फाईनैस एंड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड
87.	4060	मैसर्स एशियन मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
88.	4065	मैसर्स स्माईलिंग किरन चिट फंड एंड फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
89.	4066	मैसर्स स्पार्क चिट फंड एंड फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
90.	4072	मैसर्स ग्रेजुएट ट्रेडर्स फाईनैशियर्स एंड फंड प्राईवेट लिमिटेड
91.	4092	मैसर्स दुग्गल फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
92.	4095	मैसर्स मैसफोल्ड फाईनेशियर्स प्राईवेट लिमिटेड	122.	6598	मैसर्स अपेक्स इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	4105	मैसर्स नवरतन चिट फंड एंड फाईनेस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	123.	6770	मैसर्स हर्षा इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
94.	4120	मैसर्स मीफिन फाईनेशियर्स एंड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	124.	6822	मैसर्स आशियाना केटरर्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	4125	मैसर्स इको फाईनेस एंड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड	125.	7015	मैसर्स एवन केमिकल्स एंड एड्रेसिक्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	4134	मैसर्स पंजाब वायर एंड जनरल इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड	126.	7516	मैसर्स अल्का टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
97.	4141	मैसर्स एक्सक्वेटर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	127.	7522	मैसर्स अपर्ना टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	4150	मैसर्स कोहिनूर लेन्डिड एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	128.	7563	मैसर्स अतुल अर्थमूवर्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	4183	मैसर्स करोलबाग फाईनेशियर्स प्राईवेट लिमिटेड	129.	7688	मैसर्स आशीश प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	4194	मैसर्स स्मेस्को फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड	130.	7727	मैसर्स दीदी मोड्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	4196	मैसर्स मलकानी फाईनेस एंड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड	131.	7783	मैसर्स ऑरोकेम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
102.	4202	मैसर्स इरोज फाईनेस एंड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड	132.	7901	मैसर्स विकास एन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड
103.	4203	मैसर्स मोटर ट्रेडर्स बेनिफिट चिट फंड एंड फाईनेशियर्स प्राईवेट लिमिटेड	133.	8024	मैसर्स अजन्ता रोडवेज़ एंड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	4206	मैसर्स लेटेक्स इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड	134.	8079	मैसर्स अनुपम टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	4212	मैसर्स सोलर फूड इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड	135.	8264	मैसर्स आदर्श मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
106.	4218	मैसर्स गान्धी नगर चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड	136.	8359	मैसर्स सनड्यू केमिकल इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
107.	4264	मैसर्स अग्रवाल इन्स्टॉलमेंट्स एंड चिट फंड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	137.	8576	मैसर्स अल्फा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	4431	मैसर्स पेरामाउन्ट कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	138.	8810	मैसर्स अमनको इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
109.	4451	मैसर्स हाई पोलिमेस प्राईवेट लिमिटेड	139.	8841	मैसर्स अकेडमी ट्रेवल एंड टूरर्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	4465	मैसर्स इंडस्ट्रीयल एंड फाईनेशियल कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	140.	8868	मैसर्स एडवेंचर टूरर्स एंड ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	4479	मैसर्स एयर फोम इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड	141.	8925	मैसर्स अशोका न्यूमेटिक्स फोर्जर्स प्राईवेट लिमिटेड
112.	4506	मैसर्स डीलक्स इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	142.	8981	मैसर्स अनिल मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	4509	मैसर्स राजधानी हाऊसिंग सिंडीकेट्स प्राईवेट लिमिटेड	143.	9421	मैसर्स मैक्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
114.	4568	मैसर्स एनवोयस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	144.	9526	मैसर्स एडवान्स सिस्क्रूटी सर्विसेस एंड मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
115.	4752	मैसर्स अमलगमेटिड मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड	145.	9613	मैसर्स अनामिका चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड
116.	4875	मैसर्स अंगजा प्राईवेट लिमिटेड	146.	9733	मैसर्स अरीबा प्राईवेट लिमिटेड
117.	5785	मैसर्स विमन इंजीनियरिंग्स एंड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	147.	9920	मैसर्स अखण्ड चिट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
118.	6199	मैसर्स डाटा कंवर्शन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	148.	10180	मैसर्स एन्सेलको लिमिटेड
119.	6337	मैसर्स ऑटो कंट्रोल्स प्राईवेट लिमिटेड	149.	10196	मैसर्स आवरण एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
120.	6425	मैसर्स अरुन लैण्ड फाईनेस कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	150.	10228	मैसर्स ऑल स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
121.	6575	मैसर्स अंगोरो स्पिनिंग वीविंग एंड निटिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	151.	10232	मैसर्स एडम्स क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड
			152.	10313	मैसर्स अग्रवाल ऑटो रोड कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
			153.	10320	मैसर्स अनन्त कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
154.	10331	मैसर्स अमन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
155.	10455	मैसर्स अश्विनी कुमार कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
156.	10480	मैसर्स अखिलेश आईस एंड कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
157.	10664	मैसर्स अलर्ट फाईनैस एंड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड
158.	10938	मैसर्स ए. टी. एस. ट्रेवल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
159.	10994	मैसर्स अतुल कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
160.	11041	मैसर्स अविन कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
161.	11045	मैसर्स आलोक पैकेजिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
162.	11126	मैसर्स सुपर टेम्प इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
163.	11226	मैसर्स अवी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
164.	11287	मैसर्स अलाईड इंसुलेटर्स एंड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
165.	11300	मैसर्स मनचंदा प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
166.	11382	मैसर्स अप्सरा एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
167.	11383	मैसर्स अकाल चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड
168.	11488	मैसर्स आर्थर रोड प्राईवेट लिमिटेड
169.	11617	मैसर्स शास्त्री बराक्स एंड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
170.	11690	मैसर्स अकाय फोनेक्स इलेक्ट्रिक प्राईवेट लिमिटेड
171.	11787	मैसर्स अपराजिता आर्किटेक्ट्स एंड एडवर्टाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
172.	11831	मैसर्स नितिन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
173.	11880	मैसर्स अपोलो लैण्ड एंड हाऊसिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
174.	12560	मैसर्स कपूर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
175.	13011	मैसर्स राधु एक्जीबीटर्स प्राईवेट लिमिटेड
176.	14938	मैसर्स एन गुड्स प्राईवेट लिमिटेड
177.	15388	मैसर्स एटिजलीना बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
178.	16992	मैसर्स रैंक लीजिंग एंड फाईनैस लिमिटेड
179.	17094	मैसर्स एसारपी एडवर्टाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड
180.	18245	मैसर्स समाज कमर्शियल एंड फाईनैस लिमिटेड
181.	18304	मैसर्स सोलिंग ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
182.	18328	मैसर्स इंडाना एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
183.	18600	मैसर्स नोवेक्स इंजीनियरिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
184.	18611	मैसर्स सनलाईट बिल्डर्स लिमिटेड

1	2	3
185.	18612	मैसर्स सिल्वरलाईन प्रोपर्टीज लिमिटेड
186.	18682	मैसर्स मधुबन लीजिंग लिमिटेड
187.	19013	मैसर्स शिव ओम हाउस प्राईवेट लिमिटेड
188.	19479	मैसर्स ईस्ट वेस्ट रीप्रेजेंटेटिव्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
189.	20571	मैसर्स हजूरिया फोटोग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
190.	21389	मैसर्स कोनार्क उद्योग लिमिटेड
191.	21795	मैसर्स ओरियन्ट पाईप्स एंड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
192.	23010	मैसर्स एल्को चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
193.	23904	मैसर्स दुआसन्स सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
194.	23906	मैसर्स पीजी मेडिकविप लिमिटेड
195.	23912	मैसर्स ऐडी फार्म्स लिमिटेड
196.	24158	मैसर्स नॉर्दन कॉन्ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
197.	24169	मैसर्स ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी लीजिंग लिमिटेड
198.	24319	मैसर्स केपरी कोस्मेटिक्स लिमिटेड
199.	24682	मैसर्स शक्त फाईनैस लिमिटेड
200.	25129	मैसर्स ओसवाल मेनेजमेंट एंड फाईनैस कंसल्टेंसी लिमिटेड
201.	25136	मैसर्स बी. एम. ओसवाल क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
202.	25144	मैसर्स ट्रेक प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
203.	25605	मैसर्स सूर्या टेक्सटाईल्स मिल्स लिमिटेड
204.	26400	मैसर्स के. एम. एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
205.	26650	मैसर्स बोनियाद क्रेडिट एंड फाईनैस लिमिटेड
206.	27038	मैसर्स बुनियाद फाईनैस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
207.	27051	मैसर्स एस. आर. कपूर एंड संस लिमिटेड
208.	27070	मैसर्स अत्री फाईनैशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
209.	27147	मैसर्स युकोन फ्रेगरेन्सिस प्राईवेट लिमिटेड
210.	27229	मैसर्स एम्बीशन्स फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
211.	27488	मैसर्स ए. डी. केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
212.	27620	मैसर्स आर. बी. फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
213.	27629	मैसर्स आवाज चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
214.	27719	मैसर्स अर्चिन्ता एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
215.	27782	मैसर्स अमृत प्लांटेशन प्राईवेट लिमिटेड
216.	27855	मैसर्स आर्चिक्स पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
217.	27860	मैसर्स ए. के. क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
218.	27948	मैसर्स प्रयाग मेडिकल डायग्नोस्टिक सर्विसेस लिमिटेड	252.	37605	मैसर्स अभिवादन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
219.	28116	मैसर्स आदिनाथ चिट फंड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	253.	37687	मैसर्स कमलो इक्विपमेंट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
220.	28563	मैसर्स एपेक्स डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	254.	38951	मैसर्स फोनिक्स बायोटेक लिमिटेड
221.	28633	मैसर्स एडवेंचर होलिडे रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	255.	39432	मैसर्स निपा टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
222.	29343	मैसर्स मोहन होकी लिमिटेड	256.	40240	मैसर्स त्रिवेनी डिजिटल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
223.	29374	मैसर्स असायर रेन्स हाईजीनिक प्राईवेट लिमिटेड	257.	43264	मैसर्स अफजल चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड
224.	29812	मैसर्स अनुज चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	258.	43428	मैसर्स आगमन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
225.	29835	मैसर्स ए. जे. निर्दिग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	259.	43700	मैसर्स सुशीम ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
226.	29856	मैसर्स मुद्रा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	260.	43834	मैसर्स अमिताभ मनचंदा नोलिज सेन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
227.	29877	मैसर्स ए. एम. आर. एफ. चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	261.	43864	मैसर्स आरम्भ चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
228.	29888	मैसर्स ए. एल. गैसेस प्राईवेट लिमिटेड	262.	43872	मैसर्स एम्बिशियस चिट्स फंड प्राईवेट लिमिटेड
229.	30011	मैसर्स एरोन चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड	263.	43917	मैसर्स जिया इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
230.	30266	मैसर्स एयरफास्ट कार्गो एंड कोरियर प्राईवेट लिमिटेड	264.	43952	मैसर्स अक्षय फूड्स एंड बेवरेजिस प्राईवेट लिमिटेड
231.	30494	मैसर्स एस्टर प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड	265.	44142	मैसर्स अविव फार्मास्यूटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
232.	30568	मैसर्स आल्फा होलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	266.	44288	मैसर्स एआरए वैली गोल्फ एंड कन्द्री क्लब प्राईवेट लिमिटेड
233.	30618	मैसर्स अनुकम्पा चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड	267.	44302	मैसर्स एमको चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड
234.	30713	मैसर्स अभिमन्यू चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	268.	44364	मैसर्स अलमाइटी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
235.	30724	मैसर्स अविद्या मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	269.	44375	मैसर्स अमोल केमिकल्स लेबोरेट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
236.	30738	मैसर्स ए. एस. कॉन्ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	270.	44680	मैसर्स अत्री चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
237.	30971	मैसर्स एलपाइन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	271.	44719	मैसर्स अमुक चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
238.	31239	मैसर्स आरती क्रेडिट्स एंड ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	272.	44727	मैसर्स एवेन्यू इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
239.	31303	मैसर्स अक्षरा चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	273.	44807	मैसर्स आकाश प्लांट्स एंड सीड्स प्राईवेट लिमिटेड
240.	31321	मैसर्स बी. आर. महेश्वरी कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	274.	44837	मैसर्स अखण्ड ज्योति चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
241.	31322	मैसर्स आगा लो कोस्ट हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड	275.	44973	मैसर्स ए. एम. नायर एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
242.	31396	मैसर्स अमर ऑक्साईड एंड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	276.	45007	मैसर्स अलगढ़ चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
243.	31458	मैसर्स ए. जे. एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	277.	45113	मैसर्स शिप्रा ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
244.	31628	मैसर्स ए. ए. ए. लाईफ ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड	278.	45121	मैसर्स आदि ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
245.	31663	मैसर्स आर्चिस केप डिजाइन सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड	279.	45153	मैसर्स एक्युरा चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
246.	33755	मैसर्स आकृति कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	280.	45268	मैसर्स ए. आर. जी. इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
247.	33920	मैसर्स मोहन सीको लिमिटेड	281.	45412	मैसर्स आर. जे. गारमेट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
248.	35966	मैसर्स यूनिस्ट्रट कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	282.	45642	मैसर्स आनंदी मेडिकल सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
249.	36989	मैसर्स एकम्पनी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	283.	45737	मैसर्स आकृति सिने मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
250.	37273	मैसर्स एडवान्सेज मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	284.	45862	मैसर्स आशीर्वाद एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
251.	37525	मैसर्स एफ्रिक ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
285.	45970	मैसर्स एक्विरियस चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
286.	46020	मैसर्स एम्प्रेक ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
287.	46215	मैसर्स अपरना एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
288.	46218	मैसर्स अप्सरा एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
289.	46333	मैसर्स एमेजोन पेकर्स एण्ड मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड
290.	46516	मैसर्स अनुराग कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
291.	46649	मैसर्स अरपेल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
292.	46867	मैसर्स जय माता लीजिंग लिमिटेड
293.	47013	मैसर्स आकम चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
294.	47085	मैसर्स ए. सी. डब्ल्यू. चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड
295.	47467	मैसर्स ए. टू. जेड एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
296.	47554	मैसर्स अश्वराज लीजिंग एंड फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
297.	47583	मैसर्स आदर्श गारमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
298.	47706	मैसर्स एलेक्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
299.	47725	मैसर्स मोहन सोफ्टवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
300.	48130	मैसर्स अदनान टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
301.	48146	मैसर्स एस्ट्राइड्स फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
302.	48454	मैसर्स एनी व्हाइटलाईन एप्लायंसेस प्राईवेट लिमिटेड
303.	49260	मैसर्स एरिस्टोक्रैट डिटेक्टिव एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
304.	49679	मैसर्स ओखला ऑटो प्राईवेट लिमिटेड
305.	49777	मैसर्स ए. आई. खलीज, एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
306.	49808	मैसर्स अमृता हेल्थ सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
307.	50374	मैसर्स एस्टान इन्टरलाइनिंग प्राईवेट लिमिटेड
308.	50385	मैसर्स ए. सी. स्केन हाक प्राईवेट लिमिटेड
309.	50429	मैसर्स अम्बे ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
310.	50578	मैसर्स अन्ट्रो डे हाउसिंग एण्ड जनरल फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड
311.	50655	मैसर्स आर्चिज कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
312.	50698	मैसर्स अभय केरिस प्राईवेट लिमिटेड
313.	51144	मैसर्स वी. एस. डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
314.	51243	मैसर्स अरमान सोफटेक प्राईवेट लिमिटेड
315.	51351	मैसर्स अम्बेसेडर प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
316.	51364	मैसर्स अग्रवाल मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
317.	51395	मैसर्स ए. ए. एस. कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
318.	51664	मैसर्स अवेट्स सिक्यूरिटीज एण्ड फाइनैशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
319.	51828	मैसर्स टोयोटा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
320.	51830	मैसर्स ए. ए. पी. इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
321.	51990	मैसर्स फेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
322.	52020	मैसर्स पेरिवाल सीमेन्ट लिमिटेड
323.	52120	मैसर्स शोर्टाईम इन्टरनेशनल नेटवर्क लिमिटेड
324.	52227	मैसर्स टेरा टेस्ट फूड्स लिमिटेड
325.	52802	मैसर्स अंकुर पोर्टफोलियो प्राईवेट लिमिटेड
326.	53031	मैसर्स आंशिमा चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
327.	53058	मैसर्स ऊषा पेट्रो लिमिटेड
328.	53136	मैसर्स आधारशिला निटक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
329.	53235	मैसर्स आर्ट्स कम्प्यूटर्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
330.	53365	मैसर्स अंजल चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
331.	53374	मैसर्स ए. आर. कम्प्यूटेशन सिस्टम एण्ड सिक्यूरिटी नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
332.	53441	मैसर्स अलायड क्लियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
333.	53613	मैसर्स अपलाज चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
334.	53968	मैसर्स अनानके ई. डी. पी. सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
335.	53992	मैसर्स ए. एस. जी. फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
336.	54343	मैसर्स ए. के. पेरिफेरल्स प्राईवेट लिमिटेड
337.	54348	मैसर्स आरती केलकुलेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
338.	54646	मैसर्स ए. वी. जी. केपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
339.	55002	मैसर्स कनूरी क्लासिक्स लिमिटेड
340.	55098	मैसर्स एम्ब्रोसिया चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
341.	55273	मैसर्स अजीत नाथ चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
342.	55407	मैसर्स अनु शक्ति चिट फण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
343.	55467	मैसर्स वॉयस इन्फोर्मेशन सिस्टम इण्डिया लिमिटेड
344.	55857	मैसर्स ऑल टाईम चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
345.	55868	मैसर्स अनिल दामरा फाइनैशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
346.	56015	मैसर्स एमा इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
347.	56080	मैसर्स ए. वी. एण्ड एस. एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
348.	56140	मैसर्स ऑचल चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
349.	57048	मैसर्स श्री सत्यनारायण फिनलीज लिमिटेड
350.	57132	मैसर्स बोटानिक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
351.	57216	मैसर्स ए. टी. होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
352.	57476	मैसर्स सुभ्रा केम प्राईवेट लिमिटेड
353.	57532	मैसर्स सिंगअप एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
354.	57589	मैसर्स पी ए एम केपिटल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
355.	58663	मैसर्स रेडिन फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
356.	58670	मैसर्स कोलोसियम इन्टरनेशनल लिमिटेड
357.	59700	मैसर्स अग्मा क्रेडिट एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
358.	60115	मैसर्स आर्यमान शेयर रजिस्ट्री लिमिटेड
359.	60252	मैसर्स राकेश वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
360.	60287	मैसर्स सुहाग बैंकवेट प्राईवेट लिमिटेड
361.	61918	मैसर्स अलायड निपोन इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
362.	62244	मैसर्स एसोसिएटेड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
363.	62432	मैसर्स ग्रीनहिल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
364.	62991	मैसर्स सिद्ध क्रेडिट्स एण्ड केपिटल्स लिमिटेड
365.	65041	मैसर्स स्वामी मेटल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
366.	65317	मैसर्स आक्टेगन इन्टरनेशनल लिमिटेड
367.	65389	मैसर्स आक्टेगन फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
368.	66186	मैसर्स इस्टर्न फ्लोरिटेक लिमिटेड
369.	66729	मैसर्स दसोई फाइनेंशियल एण्ड केपिटल सर्विसेस लिमिटेड
370.	67332	मैसर्स गोल्डस्टार इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
371.	67565	मैसर्स कोटेड पेपर्स इंडिया लिमिटेड
372.	67823	मैसर्स ओक्टेगन कोपर लिमिटेड
373.	68004	मैसर्स बी. एम. डब्ल्यू. फिनलीज लिमिटेड
374.	68460	मैसर्स चेलिसया टी प्राईवेट लिमिटेड
375.	68466	मैसर्स आर. एस. सी. फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
376.	68735	मैसर्स वाइकोम फिनकेप लिमिटेड
377.	69164	मैसर्स जेकब हाऊसिंग एण्ड एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
378.	69789	मैसर्स प्राकोन फिनवेस्ट सर्विसेस लिमिटेड
379.	70155	मैसर्स सक्सेस सिक्कूरिटीज एण्ड फिनवेस्ट लिमिटेड
380.	70167	मैसर्स गोल्ड ग्रेन्स एल्कोहल्स लिमिटेड
381.	70352	मैसर्स सी. एम. टी. वी. इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
382.	70484	मैसर्स शाम माठी सिक्कूरिटीज लिमिटेड
383.	70486	मैसर्स बोग फाइनेंशियल्स लिमिटेड
384.	70741	मैसर्स डी. एल. एफ. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
385.	70834	मैसर्स उदित इन्टरनेशनल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
386.	71054	मैसर्स समय फाइनेंशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
387.	71755	मैसर्स एस. आर. वी. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
388.	71986	मैसर्स नाल इण्डिया लिमिटेड
389.	72268	मैसर्स सक्सेस एयरवेज लिमिटेड
390.	72273	मैसर्स सर्वोदय हाइटेक मेडिकेयर लिमिटेड
391.	72346	मैसर्स जे. वी. एस. केपिटल लिमिटेड
392.	72347	मैसर्स वी. पी. केपिटल सर्विसेस लिमिटेड
393.	72465	मैसर्स मक्कर इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
394.	72513	मैसर्स सुएव फिनकेप एण्ड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
395.	72673	मैसर्स सिबली केमिकल्स लिमिटेड
396.	72675	मैसर्स सिबली सेलुलोज लिमिटेड
397.	72676	मैसर्स सिबली फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
398.	72677	मैसर्स सिबली रबर्स लिमिटेड
399.	72678	मैसर्स सिबली मेटल्स एण्ड अलायड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
400.	72679	मैसर्स सिबली सिन्थेटिक्स लिमिटेड
401.	74370	मैसर्स सत्यम शेपर्स पोर्टफोलियो लिमिटेड
402.	74756	मैसर्स नेट प्लेक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
403.	75695	मैसर्स मोरफियस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
404.	76955	मैसर्स सखी ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड
405.	76961	मैसर्स जेमिनी फिनसेक लिमिटेड
406.	76990	मैसर्स मारुति सेल्स एण्ड सर्विस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
407.	77066	मैसर्स एस. आई. चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
408.	78194	मैसर्स इन्टिग्रेटेड टेलिएक प्राईवेट लिमिटेड
409.	78347	मैसर्स फाइबर इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
410.	79178	मैसर्स बुखारी एग्रो फार्म्स लिमिटेड
411.	80233	मैसर्स इन्टिग्रेटेड शेयर सर्विसेस लिमिटेड
412.	80569	मैसर्स इन्टरनेशनल इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
413.	81284	मैसर्स इक्वल चिट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
414.	81661	मैसर्स कोणार्क फाइनेंशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
415.	81722	मैसर्स राजधानी एग्रीकल्चर लिमिटेड
416.	81803	मैसर्स रिक्रास फाइनेंस एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
417.	81872	मैसर्स प्रेस्टिजियस मार्केटिंग लिमिटेड
418.	81949	मैसर्स एफ्लुएन्ट फाइनेंस लिमिटेड
419.	84151	मैसर्स रागी हेल्थकेयर लिमिटेड
420.	84558	मैसर्स हेयरवेल फाइनेंस एण्ड लीजिंग लिमिटेड
421.	85021	मैसर्स दीक्षित प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
422.	85374	मैसर्स ए. के. डी. इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
423.	87230	मैसर्स प्रिमरोज कन्सल्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड
424.	87621	मैसर्स रेम्ब फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
425.	88260	मैसर्स कृष्णा सन्स बियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
426.	88341	मैसर्स जे. के. सोफ्टवेयर एण्ड सोल्यूशन्स लिमिटेड
427.	88552	मैसर्स महामाया ऑटोमोबाइल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
428.	88990	मैसर्स रेडियन्ट कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
429.	89162	मैसर्स इन्डस स्पाइसेज एण्ड हर्ब्स लिमिटेड
430.	89481	मैसर्स बुहर्मान सिंह क्रिएटिव लर्निंग (एशिया पेसिफिक) प्राईवेट लिमिटेड
431.	89557	मैसर्स रामा चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
432.	89599	मैसर्स रोड सिक्यूरिटी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
433.	89826	मैसर्स डी. एस. कारपेट आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
434.	90976	मैसर्स प्राइम्स मर्केन्डायज़ प्राईवेट लिमिटेड
435.	91091	मैसर्स पोलिप्लास्टिक्स एशिया पेसिफिक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
436.	91875	मैसर्स एन. जी. पावर सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
437.	92064	मैसर्स ल्यूब्रिकेशन इंजीनियर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
438.	93310	मैसर्स पंवार चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
439.	93312	मैसर्स पीपल काम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
440.	93328	मैसर्स ब्लूम इन्फोटेक लिमिटेड
441.	94162	मैसर्स लेक्सिकोन इवेन्ट्स एण्ड प्रमोशन्स लिमिटेड
442.	94527	मैसर्स डेविड बेलेमी एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
443.	94814	मैसर्स आर्को एनर्जी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
444.	94878	मैसर्स एस. पी. एन. इम्पेक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
445.	95132	मैसर्स मेडस्टोन इन्टरनेशनल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
446.	95693	मैसर्स उषा टेलनेट प्राईवेट लिमिटेड
447.	96228	मैसर्स नागेन्द्र ब्रदर्स बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
448.	96405	मैसर्स कुलदीप फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
449.	98983	मैसर्स शानी एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
450.	99354	मैसर्स सी. डी. जी. पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
451.	99356	मैसर्स ओ. एन. एम. फिनलीज लिमिटेड
452.	100924	मैसर्स सी. डी. जी. मल्टीमीडिया प्रोडक्शंस प्राईवेट लिमिटेड
453.	101731	मैसर्स लाल कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
454.	102122	मैसर्स ट्राउट कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
455.	102701	मैसर्स गेट स्मार्ट सिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
456.	103023	मैसर्स आरोप्रोब लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
457.	103347	मैसर्स आई. टी. आई. एल. ऑनलाईन प्राईवेट लिमिटेड
458.	103735	मैसर्स सागर कौट्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
459.	104523	मैसर्स दिल्ली इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन प्राईवेट लिमिटेड
460.	104641	मैसर्स बीन सिक्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
461.	105508	मैसर्स एमको कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
462.	106175	मैसर्स इरिस लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
463.	106328	मैसर्स कनेक्ट इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
464.	106691	मैसर्स साबा डिजाइनर कलेक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
465.	107475	मैसर्स चिराग दिल्ली ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
466.	107572	मैसर्स फ्लैग नेटवर्क इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
467.	108033	मैसर्स जे कास्ट नेटवर्क्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
468.	108100	मैसर्स हॉल्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
469.	108546	मैसर्स विकास पुरी क्लब लिमिटेड
470.	108615	मैसर्स ओम जेवर पैलेस प्राईवेट लिमिटेड
471.	108728	मैसर्स अपना मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड
472.	108955	मैसर्स डी. सी. जी. कन्सल्टेन्स प्राईवेट लिमिटेड
473.	109643	मैसर्स ओपन ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
474.	109677	मैसर्स प्राइम्स इण्डिया इन्टरनेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
475.	110292	मैसर्स सॉफ्टेलाइसेज इन्फोर्टेक प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
476.	110595	मैसर्स पाला कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
477.	110704	मैसर्स टेलडैम सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
478.	111389	मैसर्स ए बी एक्स डाईग्नोस्टिक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
479.	111663	मैसर्स ए ए ए सिन्थेटिक लैडर लाईन प्राईवेट लिमिटेड
480.	111965	मैसर्स सक्सेस टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
481.	112726	मैसर्स सी.एस.आर. वर्ल्ड कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
482.	112852	मैसर्स ए. जी. इश्योरेंस सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
483.	113056	मैसर्स एराइजिंग होरीजन्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
484.	113108	मैसर्स एमरो टी कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
485.	113165	मैसर्स एडीक्यूट नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
486.	113183	मैसर्स अंकित टेलीफिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
487.	113338	मैसर्स आपका हेल्थ गार्ड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
488.	113410	मैसर्स बाबा-ली क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
489.	113470	मैसर्स एजेने होटल्स रिसोर्ट्स एण्ड पैलेसिस प्राईवेट लिमिटेड
490.	113485	मैसर्स फाईव स्टार एक्ज़िम प्राईवेट लिमिटेड
491.	113522	मैसर्स प्रसाद स्टेशनर्स प्राईवेट लिमिटेड
492.	113864	मैसर्स एस्ट्रो वास्तु सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
493.	113909	मैसर्स तेरालिक ऑप्टिकल फाईबर लिमिटेड
494.	113992	मैसर्स लिंक टू लिंक नेटवर्किंग प्राईवेट लिमिटेड
495.	114184	मैसर्स त्रिकुटा फैंक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
496.	114862	मैसर्स एच. आर. नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
497.	114983	मैसर्स एवियन टव्याज़ प्राईवेट लिमिटेड
498.	114988	मैसर्स एडिक्वेट आनलाईन शॉपर्स प्राईवेट लिमिटेड
499.	115131	मैसर्स एसथैटिक एडवरटाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड
500.	115191	मैसर्स ए टू ज़ेड मल्टीमार्क प्राईवेट लिमिटेड
501.	115232	मैसर्स ए. बी. आर. टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
502.	115254	मैसर्स ऐस आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
503.	115335	मैसर्स टेक्सपेयर्स क्लब्स सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
504.	115354	मैसर्स एडवांटेज फॉरएवर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
505.	115477	मैसर्स आरवो हर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
506.	115512	मैसर्स ए. आर. एस. ब्रासको प्राईवेट लिमिटेड
507.	115569	मैसर्स अरडैण्ट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
508.	115615	मैसर्स फिडिलिटी सपोर्ट सर्विसिस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
509.	115616	मैसर्स फिडिलिटी इंटरनेशनल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
510.	115617	मैसर्स फिडिलिटी इंटरनेशनल रिसोर्सिस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
511.	115637	मैसर्स एक्रूमेन्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
512.	115638	मैसर्स एमेक्स शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड
513.	115646	मैसर्स ऐनी-अंजली एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
514.	115745	मैसर्स इमेज सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
515.	115758	मैसर्स सोल एनरीचिंग सेमिनार्स प्राईवेट लिमिटेड
516.	115782	मैसर्स ऐडी टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
517.	115870	मैसर्स एड-टेक एडवरटाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड
518.	115919	मैसर्स एओन एजीज़ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
519.	115956	मैसर्स ए. के. बी. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
520.	116518	मैसर्स एलकेम्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
521.	116545	मैसर्स अम्बा सिक्योरिटी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
522.	116616	मैसर्स अयूरवेक्स हर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
523.	116833	मैसर्स ओरम सिक्योरिटीज़ेशन सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
524.	116840	मैसर्स ए फोर यू टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
525.	116861	मैसर्स आचार्य कान्स्ट्रक्ट्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
526.	116877	मैसर्स अलवी बुड क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
527.	117837	मैसर्स एम. डाटा कॉम सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
528.	118383	मैसर्स सृष्टि बिल्डइंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
529.	119117	मैसर्स अनशो इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
530.	119205	मैसर्स टेलीप्वाइंट डिस्ट्रिब्यूशन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
531.	119589	मैसर्स जी. एस. एस. बी. एंटरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
532.	119752	मैसर्स एफ. एम. सी. जी. हैल्थकेयर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
533.	120107	मैसर्स मेलसन एण्ड मेलसन फार्मूलेशंस लिमिटेड
534.	120324	मैसर्स चीरोन कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
535.	120469	मैसर्स प्रमोद फर्निशिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
536.	120724	मैसर्स प्रारम्भा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
537.	121443	मैसर्स आरशिम ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
538.	121553	मैसर्स एनएक्स एस्टेट्स एण्ड कोरीडोर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
539.	121674	मैसर्स एरीअन क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
540.	121877	मैसर्स ए.एन.टी. मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
541.	121879	मैसर्स एऑन फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
542.	121977	मैसर्स ए. टी. प्रॉफटेक प्राईवेट लिमिटेड
543.	121983	मैसर्स अब्बास ब्रदर्स डाय सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
544.	122094	मैसर्स ए.के.एस. एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
545.	122156	मैसर्स अन्नूश्री एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
546.	122181	मैसर्स आयूष मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड
547.	122226	मैसर्स अनु नम्बरस्पीक एनॉलिटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
548.	122280	मैसर्स अमीर रोड लाईस प्राईवेट लिमिटेड
549.	122322	मैसर्स अनीता सोफटेक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
550.	122357	मैसर्स एक्विटी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
551.	122477	मैसर्स ए. आर. टी. इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
552.	122529	मैसर्स एसॉर्ट इंश्योरेंस एजेंसीस प्राईवेट लिमिटेड
553.	122658	मैसर्स आनदा एनवीरो कंसोल प्राईवेट लिमिटेड
554.	122694	मैसर्स एकमे हाऊसकीपिंग प्राईवेट लिमिटेड
555.	122701	मैसर्स अमूल्य मल्टी ट्रेडलिक प्राईवेट लिमिटेड
556.	122702	मैसर्स औरोग्रोव रिसर्च इंस्टीट्यूट
557.	122731	मैसर्स ऐरो प्रोटेक्शन एण्ड डिटेक्टिव प्राईवेट लिमिटेड
558.	122763	मैसर्स ए. जी. इन्फो ट्रस्ट कंसल्टेंसिंग सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
559.	122851	मैसर्स सती माता एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
560.	122961	मैसर्स एबसोल्यूट मेटल रिकवरी इक्विप्मेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
561.	122971	मैसर्स मल्टी डाईमेंशनल रिसॉसिस सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
562.	123120	मैसर्स एडवर्टल कापरेट सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
563.	123294	मैसर्स एरिश फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
564.	123306	मैसर्स ए.डी.डी. लैब इंस्ट्रूमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
565.	123338	मैसर्स अक्वत ब्लोसूम प्राईवेट लिमिटेड
566.	123535	मैसर्स अनीता मेडीक्योर हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड
567.	123705	मैसर्स अम्बे एग्रीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड
568.	124063	मैसर्स अंकुर कोरियर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
569.	124219	मैसर्स आदित्य नेटकॉम प्राईवेट लिमिटेड
570.	124268	मैसर्स केरियर कॉन्सेप्ट्स लर्निंग सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
571.	124305	मैसर्स मल्होत्रा एजुकेशन प्वाइंट प्राईवेट लिमिटेड
572.	124790	मैसर्स पोर्टेबल एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
573.	124807	मैसर्स साहिब्स रेस्टोरेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
574.	124823	मैसर्स एक्सलेंट ह्यूमन रिसॉसिस प्राईवेट लिमिटेड
575.	124824	मैसर्स ब्रिलिएन्ट ह्यूमन रिसॉसिस प्राईवेट लिमिटेड
576.	125313	मैसर्स एस. एस. आर. के. एजेंसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
577.	125640	मैसर्स अंकुश वर्मा ट्रेडिंग एण्ड मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
578.	126141	मैसर्स मिंडवेब्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
579.	126834	मैसर्स निओ क्रिएशन वियर्स प्राईवेट लिमिटेड
580.	127081	मैसर्स एमी डिज़ाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
581.	127168	मैसर्स ए. डी. एक्स. कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
582.	127696	मैसर्स फ्लोरा बिल्डवैल प्राईवेट लिमिटेड
583.	127738	मैसर्स मॉलिक्यूलर इमेजिंग एसोसिएट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
584.	128301	मैसर्स आस्था एक्जिम एण्ड प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
585.	128482	मैसर्स अशानित क्रिएशंस प्राईवेट लिमिटेड
586.	128558	मैसर्स ए. सी. सी. ई. एल. आउटसोर्सिंग प्राईवेट लिमिटेड
587.	128644	मैसर्स एडेप्टेक कापरेट सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
588.	128685	मैसर्स ए. बी. एम. पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
589.	128890	मैसर्स मगध डिस्ट्रिब्यूटर्स एण्ड सी.एन.एफ. एजेंट प्राईवेट लिमिटेड
590.	129008	मैसर्स एरोहेड इन्फो सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
591.	129009	मैसर्स एरियन गार्मेट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
592.	129073	मैसर्स एमसॉफ्ट टेलीकॉम सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
593.	129101	मैसर्स गुरुग्रंथ सॉफ्टवेयर रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड
594.	129133	मैसर्स एक्टिव ऑनलाइन एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
595.	129255	मैसर्स अस्टोनिया इम्पेक्स ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
596.	129598	मैसर्स डेटरोइट क्लीनिकस प्राईवेट लिमिटेड
597.	130608	मैसर्स ए. एम. एस. कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
598.	130694	मैसर्स ऐरिस एनर्जी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
599.	130745	मैसर्स ट्विनमॉस टेक्नोलॉजिस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
600. 130824	मैसर्स आवरा आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
601. 130958	मैसर्स एल्पस कम्पोजिट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	
602. 130964	मैसर्स ए. आर. एस. रीयल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	
603. 131462	मैसर्स वाई. एम. टी. आर. ऑटोटेक इण्डिया लिमिटेड	
604. 132443	मैसर्स ऐश एण्ड शुभ एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड	
605. 132488	मैसर्स आस्क सॉफ्ट सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	
606. 132622	मैसर्स ऐशवर्या कान्ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	
607. 132693	मैसर्स मैक्स मरचेन्डाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड	
608. 034073	मैसर्स शिव प्रिय चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	
609. 107902	मैसर्स ऑलइण्डियालिंक्स नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	
610. 110134	मैसर्स के. टी. आई. मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड	
611. 116106	मैसर्स एडवान्स प्रोटेक्शन एण्ड इन्वेस्टीगेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	
612. 116126	मैसर्स एपेक्स सिसकॉम प्राईवेट लिमिटेड	
613. 116144	मैसर्स अर्चना होलोग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड	
614. 116190	मैसर्स ए. आर. कम्प्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड	
615. 116196	मैसर्स समन्वय डिजाईन प्राईवेट लिमिटेड	
616. 116241	मैसर्स एक्सीलाईफ कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	
617. 122441	मैसर्स अबरी फॉरमुलेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	
618. 132855	मैसर्स ए. के. जी. बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड	
619. 132893	मैसर्स एक्कोलेड इवेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
620. 133009	मैसर्स ए. डी. एफ. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	
621. 133016	मैसर्स अम्बाजी बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड	
622. 133122	मैसर्स एड-वान्टेज पब्लिसिटी प्राईवेट लिमिटेड	
623. 133191	मैसर्स अमृत सिक्कुरिटी एण्ड अलाइड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	
624. 133263	मैसर्स इनरस इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	
625. 133337	मैसर्स एनटेयर्स माइन्स प्राईवेट लिमिटेड	
626. 133345	मैसर्स ऐलेस्को मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	
627. 133353	मैसर्स बोपाराय ड्रिलिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	
628. 133379	मैसर्स ए. पी. एस. डी. एस. ए. सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	
629. 133459	मैसर्स अचिवर ड्रीमसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	

1	2	3
630. 133670	मैसर्स अलकोरे सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड	
631. 134177	मैसर्स अवध रोड कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड	
632. 134279	मैसर्स अल खलिज टूर्स एण्ड ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड	
633. 134356	मैसर्स अंकित एजुकेशनल प्राईवेट लिमिटेड	
634. 134400	मैसर्स अनमोल फैशनस प्राईवेट लिमिटेड	
635. 134433	मैसर्स एम आईटी एण्ड मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	
636. 134591	मैसर्स साईबरएज इन्फोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	
637. 005750	मैसर्स अपोलो बैट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	
638. 006202	मैसर्स अतुल इस्पात इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	
639. 064857	मैसर्स हिमाचल टूरिस्ट लिमिटेड	
640. 064889	मैसर्स मंगलम स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	
641. 065805	मैसर्स प्रियाल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	
642. 065857	मैसर्स महाबीर वनस्पती लिमिटेड	
643. 142144	मैसर्स अनुप्रिया कंटेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
644. 135367	मैसर्स अरिनो डेन्सो इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	
645. 134726	मैसर्स अतुल बिल्डवैल प्राईवेट लिमिटेड	
646. 134930	मैसर्स अन्तरेस ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	
647. 135247	मैसर्स एम्बीयन्स क्रियेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	
648. 136570	मैसर्स अव्य एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड	
649. 135942	मैसर्स लाईफ स्टाईल मैडीकल इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	
650. 143116	मैसर्स एम एस एग्रो प्राईवेट लिमिटेड	
651. 141986	मैसर्स ए ए ए सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	
652. 142146	मैसर्स ए ए ए मेटल एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड	
653. 142117	मैसर्स अमाफहा सोफ्टेक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	
654. 143691	मैसर्स एनयू वैम्बले पेन्ट्स लिमिटेड	
655. 139203	मैसर्स ए वी आई कारपोरेट सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	
656. 142273	मैसर्स ए ए टेलकॉल प्राईवेट लिमिटेड	
657. 142244	मैसर्स अलियन्ट कम्पयुटर सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड	
658. 141865	मैसर्स अविस एडवरटाईजिंग एण्ड मिडिया प्राईवेट लिमिटेड	
659. 137146	मैसर्स अरोमा बिल्डवैल प्राईवेट लिमिटेड	
660. 138979	मैसर्स अभिनव ऑटो पार्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	

1	2	3
661.	136423	मैसर्स आयूष बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड
662.	137312	मैसर्स अक्सेलरेटीड कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
663.	140002	मैसर्स इन्फोरमेशन गेटवेस आई टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड (100% एफ.एस.के.)
664.	137432	मैसर्स ए. के. जी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
665.	137787	मैसर्स ए. एस. पी. मैडीसिन सोपी प्राईवेट लिमिटेड
666.	134716	मैसर्स डिलाईट कम्प्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी प्राईवेट लिमिटेड
667.	137439	मैसर्स ए. एम. आर. इलैक्ट्रीकल प्राईवेट लिमिटेड
668.	137426	मैसर्स ए. एस. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
669.	137401	मैसर्स अनुज कम्प्यूटर एजुकेशन सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
670.	137399	मैसर्स एक्सओम फैशनस प्राईवेट लिमिटेड
671.	136719	मैसर्स अजयदीप रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
672.	137748	मैसर्स आधुनिक बिल्डवैल प्राईवेट लिमिटेड
673.	137603	मैसर्स सेठी फ्लोरीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड
674.	134962	मैसर्स साईबरऐड्ज इन्फोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
675.	136516	मैसर्स एमिथेस्ट इंफोकैम प्राईवेट लिमिटेड
676.	136469	मैसर्स अल्फा सोफ्टनेट प्राईवेट लिमिटेड
677.	140845	मैसर्स गोल्डन टर्टल एजुकेशन एण्ड कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
678.	140853	मैसर्स फिडिलिया सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
679.	140215	मैसर्स शिमानु कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
680.	136274	मैसर्स आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
681.	140062	मैसर्स पी. जी. डी. रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
682.	137161	मैसर्स आर्म टेल-टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
683.	137185	मैसर्स अंशाराह ट्रेवल एण्ड टूर्स प्राईवेट लिमिटेड
684.	136328	मैसर्स सृष्टि अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
685.	138665	मैसर्स एमेथेस्ट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
686.	138603	मैसर्स एरियल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
687.	136838	मैसर्स अनयका इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
688.	138189	मैसर्स एण्डसन्स इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
689.	137559	मैसर्स अलस्टर फार्मा प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
690.	137589	मैसर्स क्राइसेंस इन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
691.	140299	मैसर्स ट्रिवल टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
692.	134815	मैसर्स अनिल गुप्ता चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
693.	135919	मैसर्स ए. एम. डायमेटिक्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
694.	135481	मैसर्स गणेश डाटा सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
695.	134821	मैसर्स आदेश बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
696.	135141	मैसर्स अवि अलोयेज प्राईवेट लिमिटेड
697.	139184	मैसर्स ए. जी. एन. इमीग्रेशंस प्राईवेट लिमिटेड
698.	139128	मैसर्स एडवेट इलैक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
699.	139041	मैसर्स ए. वी. जे. फैशनस प्राईवेट लिमिटेड
700.	136687	मैसर्स फोर्च्युनेट मेडिकेयर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
701.	139069	मैसर्स मिशेला जे. डेविस एक्जिम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
702.	139077	मैसर्स एन. यू. जीकॉम इन्फोसोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
703.	139058	मैसर्स आर्यमा मल्टी ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
704.	138599	मैसर्स आदिवरूण मेटलप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
705.	136192	मैसर्स वावि कॉम्बेट सिक्युरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
706.	138318	मैसर्स ए. ए. पी. इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
707.	147308	मैसर्स डब्ल्यू. एन. एन. मार्केटिंग कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
708.	141903	मैसर्स हिलटोप डेव्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड
709.	142895	मैसर्स सबनेटवर्क बी. पी. ओ. प्राईवेट लिमिटेड
710.	143109	मैसर्स एम. आर. वी. म्यूजिक्स प्राईवेट लिमिटेड
711.	144198	मैसर्स तुहीना रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
712.	145614	मैसर्स एमबी. कलाथसलाईन प्राईवेट लिमिटेड
713.	146223	मैसर्स जागृत कंसलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
714.	146925	मैसर्स ट्रिडेन्ट इन्टरनेशनल एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
715.	147062	मैसर्स क्यूएसजीआई टेक्नोलोजी सोल्युशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
716.	002120	मैसर्स आनन्द ट्रेडर्स (एजेन्ट्स एण्ड शिपर्स) प्राईवेट लिमिटेड
717.	002170	मैसर्स ए. आर. पलित एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
718.	011185	मैसर्स अदिनीर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
719.	138523	मैसर्स ट्रिओम टेक्स एण्ड ट्रिम्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
720.	140179	मैसर्स जी. एस. बी. सी. मेगा प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	751.	158087	मैसर्स दियान्था बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
721.	140504	मैसर्स ब्रह्म दत्त एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	752.	158209	मैसर्स बी. थी. एस. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
722.	148922	मैसर्स आध्यात्मिक डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	753.	158480	मैसर्स पोटोमैक मार्वनिंग रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड
723.	147767	मैसर्स नॉलेज ग्राफ इंफोर्लिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	754.	158505	मैसर्स मिजू बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
724.	147567	मैसर्स अदालिया बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	755.	159709	मैसर्स पैलेस डेवलपर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
725.	149956	मैसर्स एम. पी. पोलिप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड	756.	160387	मैसर्स इन्टीग्रेटेड इन्फ्रा लोग प्राईवेट लिमिटेड
726.	150070	मैसर्स वैनको (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	757.	160483	मैसर्स रवजीत डेवलपर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
727.	150450	मैसर्स इन्फाइनैट होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	758.	160484	मैसर्स स्काईलाइन डेवलपर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
728.	150642	मैसर्स पैसेफिक डिजिटल मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड	759.	161628	मैसर्स टाइम्स बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
729.	151326	मैसर्स लिपजिंग बियरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	760.	161629	मैसर्स इलहाना बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
730.	151979	मैसर्स नेटाक्वेला टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड	761.	162171	मैसर्स अधोरा बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
731.	152261	मैसर्स ओरिएण्ट पैट्रो ट्रान्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	762.	162304	मैसर्स कुम्भारी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
732.	152327	मैसर्स कास्टल स्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	763.	163069	मैसर्स हनीफाह बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
733.	152736	मैसर्स जी. पी. पैकटेक प्राईवेट लिमिटेड	764.	163167	मैसर्स सी. सी. आर. पिरामिड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
734.	153877	मैसर्स क्रोक्स ऑनलाईन शॉपिंग प्राईवेट लिमिटेड	765.	163285	मैसर्स याहावी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
735.	154254	मैसर्स इन्फाइनैट सॉफ्टप्रो प्राईवेट लिमिटेड	766.	164849	मैसर्स बीटा कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
736.	154529	मैसर्स नेटाक्वेला हेल्थकेयर इन्फोरमेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	767.	164873	मैसर्स सिगमा इन्फ्राबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
737.	155139	मैसर्स मौबी मीडिया प्रोडक्शन प्राईवेट लिमिटेड	768.	164918	मैसर्स जिंग कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
738.	155334	मैसर्स उश रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	769.	165416	मैसर्स बोसली बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
739.	155388	मैसर्स नेहाल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	770.	165448	मैसर्स स्टाईल गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
740.	155400	मैसर्स विहान रिएल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	771.	165460	मैसर्स सिम्फोनी ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
741.	155402	मैसर्स रेवती एग्रीएस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	772.	165461	मैसर्स टैम्पो गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
742.	155425	मैसर्स रोमा इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड	773.	165464	मैसर्स विगोरेस पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
743.	156635	मैसर्स अमीर चन्द डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	774.	165468	मैसर्स जियोन इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
744.	156696	मैसर्स फुल मून अपेयरल्स प्राईवेट लिमिटेड	775.	165470	मैसर्स हॉट शॉट गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
745.	156803	मैसर्स एपेक्स इन्फोपार्क प्राईवेट लिमिटेड	776.	165471	मैसर्स जीटा इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
746.	156813	मैसर्स ब्राउनबुड सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	777.	165476	मैसर्स सेवर फूड प्राईवेट लिमिटेड
747.	157088	मैसर्स ए. सी. स्केनडिनाविया सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	778.	037109	मैसर्स डी. एल. एफ. द्वारका कन्वेंशन सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
748.	157809	मैसर्स ईस्ट वेस्ट कॉमटेल प्राईवेट लिमिटेड	779.	037128	मैसर्स डी. एल. एफ. रोहिणी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
749.	158009	मैसर्स डोरोन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	780.	037147	मैसर्स डी. एल. एफ. एक्सोहिका होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
750.	158053	मैसर्स ली शॉपिंग बैग प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
781. 168456	मैसर्स अन्जाना भागवत डिजाइन्स प्राईवेट लिमिटेड	
782. 169141	मैसर्स डी. एल. एफ. माईनर रेस्टोरेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
783. 169682	मैसर्स टीयेस ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	
784. 171753	मैसर्स बी. एस. ब्राडकॉस्ट एण्ड कम्युनिकेशन कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
785. 171949	मैसर्स डी. एल. एफ. लिमिटेडस रीयल इस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	
786. 175241	मैसर्स बजट बिल्डकॉन होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	
787. 175243	मैसर्स बजट इन्फ्राकॉन होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	
788. 175299	मैसर्स बजट निर्माण होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	
789. 038145	मैसर्स कॉन्टेक इन्फोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	
790. 182379	मैसर्स एच. सी. एल. टेक्नोलोजीज (हैदराबाद) लिमिटेड	
791. 182381	मैसर्स एच. सी. एल. टेक्नोलोजीज (बैंगलोर) लिमिटेड	
792. 182382	मैसर्स एच. सी. एल. टेक्नोलोजीज (नोएडा) लिमिटेड	
793. 182383	मैसर्स एच. सी. एल. टेक्नोलोजीज (कोलकाता) लिमिटेड	
794. 182888	मैसर्स एच. सी. एल. टेक्नोलोजीज (नागपुर) लिमिटेड	
795. 162169	मैसर्स कुशाधारा बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	
796. 169405	मैसर्स समारितन सिक्योर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	
797. 185425	मैसर्स मैसर्स एच. सी. एल. टेक्नोलोजीज (चैन्नई) लिमिटेड	
798. 075210	मैसर्स रघु ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	
799. 060344	मैसर्स निरकॉम मैट्रेस एण्ड कुशन लिमिटेड	
800. 188154	मैसर्स सीसिस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	
801. 082738	मैसर्स ईजी स्टिच प्राईवेट लिमिटेड	
802. 022501	मैसर्स जय टेक प्राईवेट लिमिटेड	
803. 066319	मैसर्स जम्बो रिइश्योरेस लिमिटेड	
804. 080246	मैसर्स चेतना कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
805. 107975	मैसर्स ए. ए. रिसोर्स डेवलपमेंट स्पोर्ट सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड	
806. 137282	मैसर्स ए. वी. एनर्जेटिक प्राईवेट लिमिटेड	
807. 134715	मैसर्स आशा बिल्डको प्राईवेट लिमिटेड	
808. 146745	मैसर्स स्पाईन नेटकॉम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	
809. 135878	मैसर्स माव इन्फोमेशन टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड	

1	2	3
810. 142035	मैसर्स आस्था आईटी सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	
811. 115799	मैसर्स वस्त्रास ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड	
812. 059287	मैसर्स जेएसबी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	
813. 142280	मैसर्स एपिक फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड	
814. 131404	मैसर्स सारोह क्लीन इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	
815. 118594	मैसर्स मनचन्दा ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड	
816. 046902	मैसर्स एस. ए. इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	
817. 041093	मैसर्स मृगनैनी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	
818. 112697	मैसर्स आऊटसोर्स मैथैड्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	
819. 128816	मैसर्स आर. एन. टी. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	
820. 133799	मैसर्स आईना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	
821. 124822	मैसर्स परफैक्ट ह्यूमन रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड	
822. 133160	मैसर्स ट्रीपोइन्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स सर्विसेस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	
823. 122890	मैसर्स एरिना इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	
824. 020750	मैसर्स टिमसी चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड	

आत्मा साह

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आरटीसी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 15 सितम्बर 2010

सं. 560(5)एमसीए/आरओसी/दिल्ली/(सीजीओ)/सेक-560/एसईओ/2010/00032--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आरटीसी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

अशोक कुमार बहल

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मुनिच इन्फोमेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 सितम्बर 2010

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली/(सीजीओ)/सेक 560/2010/00182--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3)

के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मुनिच इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एच. आर. टेक्नोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

सं. 560(3)133397 एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)/सेक 560/2010/00164--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एच. आर. टेक्नोप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

संजय सूद
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स वीनस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)/सेक 560/2010/00212--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वीनस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विनय कुमार गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हमार परिवार फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पटना, दिनांक 30 सितम्बर 2010

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(3)/5029--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हमार परिवार फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण

दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एण्ड झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पटना, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(3)/इएस-10--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन दिन के उपरान्त निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	07526	मैसर्स मायागिरी होटल प्राईवेट लिमिटेड
2.	11414	मैसर्स ओमाद कन्सलटेन्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	01699	मैसर्स गोविन्दा फाईनेन्स एण्ड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
4.	10504	मैसर्स हट एण्ड हिल कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
5.	07075	मैसर्स ल्यो सिक्युरिटी गार्ड एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
6.	02410	मैसर्स एस. एम. री रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	09985	मैसर्स मनहटन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	10166	मैसर्स प्लाज्मा मेरीन इडू सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
9.	09176	मैसर्स बिहार नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
10.	06619	मैसर्स घराना कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	10495	मैसर्स जैन कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
12.	10906	मैसर्स फेमिका बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	12896	मैसर्स पैराडाइस क्लासेज प्राईवेट लिमिटेड
14.	07518	मैसर्स ए. के. निर्माण प्राईवेट लिमिटेड
15.	06552	मैसर्स रेसकॉन फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
16.	03328	मैसर्स प्रान्स केमिकल्स लिमिटेड
17.	05976	मैसर्स महेश प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	12509	मैसर्स एबर्ट लैबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
19.	08227	मैसर्स अनीस ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	02487	मैसर्स नाथ कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
21.	02261	मैसर्स मनोज इजिकॉन्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	02332	मैसर्स सर्वोत्तम सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	03094	मैसर्स श्री टायर रिट्रीड्स एण्ड रिपेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	09435	मैसर्स ज्योटेक हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
25.	12107	मैसर्स समयुग कंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	06396	मैसर्स गीतांजली प्लांटेशन इण्डिया लिमिटेड
27.	02700	मैसर्स हरिनारायण ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	10795	मैसर्स इस्थिवा सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
29.	06659	मैसर्स जमशेदपुर स्टील प्राईवेट लिमिटेड
30.	03087	मैसर्स स्वर्णरेखा गोल्डलाईन फ्लोर एण्ड फीड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	03738	मैसर्स शरणम् इजिकॉन्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	11194	मैसर्स यूनिकेयर एण्ड क्योर फार्मा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
33.	08109	मैसर्स अनुभव स्टील प्राईवेट लिमिटेड
34.	05901	मैसर्स दक्षायण कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	02857	मैसर्स रूक्मिणी वितरक प्राईवेट लिमिटेड
36.	04240	मैसर्स ट्रीडस्प्रीन रिट्रीडर्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	04646	मैसर्स आश्रय टेक्नोक्रेट्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	07251	मैसर्स पारसमणि ज्योति फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	07229	मैसर्स सुन्दरवन एग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	11234	मैसर्स समयक मेडिकेयर प्राईवेट लिमिटेड
41.	06968	मैसर्स सुक्रीत इन्वेस्टमेन्ट इंडिया लिमिटेड
42.	05011	मैसर्स सॉफ्टकार्प कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	10040	मैसर्स आनन्द इन्फोविजन प्राईवेट लिमिटेड
44.	10509	मैसर्स अस्थमा क्योर एण्ड क्योर फार्मसी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
45.	12659	मैसर्स वी. के. रेसीडेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
46.	06622	मैसर्स आर्या इंजीकॉन्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	06787	मैसर्स शाकम्भरी सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
48.	09386	मैसर्स विनायका परफ्यूमरी प्राईवेट लिमिटेड
49.	03464	मैसर्स इन्जैक फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	12763	मैसर्स वासवी सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
51.	06905	मैसर्स पारसमनी प्लांटेशन एण्ड कल्टीवेशन लिमिटेड
52.	12762	मैसर्स राज्यवर्धन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
53.	07220	मैसर्स मारुति डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	12118	मैसर्स रत्नगर्भा मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	12117	मैसर्स रत्नप्रिया मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	13477	मैसर्स हाईटेक मल्टीकॉन प्राईवेट लिमिटेड
57.	12999	मैसर्स अग्रणी इन्वेस्टमेंट कन्सलटैन्ट प्राईवेट लिमिटेड
58.	06474	मैसर्स दाताश्री इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्स इंडिया लिमिटेड
59.	02301	मैसर्स श्री बालाजी साल्ट आयोडाइजेशन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
60.	11082	मैसर्स आर्या इनगोड्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	00666	मैसर्स प्रोग्रेसिव मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	11284	मैसर्स मिलानो कम्प्यूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
63.	04255	मैसर्स एम. एस. माधव शर्मा कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	12602	मैसर्स वेस्ट सर्किल पटना केबल कॉम प्राईवेट लिमिटेड
65.	05473	मैसर्स जीवनाधार इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
66.	11193	मैसर्स डोलीकल्टीवेशन प्राईवेट लिमिटेड
67.	06160	मैसर्स पॉलीएक्टिव प्लांटेशन एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड
68.	05416	मैसर्स पॉलीएक्टिव इलैक्ट्रीकल एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	12977	मैसर्स लाउरेज डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
70.	01962	मैसर्स शारदा री-रोलिंग मिल (नालन्दा) प्राईवेट लिमिटेड	97.	04513	मैस ग्रीन पार्क इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	05723	मैसर्स सरवन इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	98.	05883	मैसर्स गैम्बिक कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	06021	मैसर्स याक सेविंग एण्ड लीजिंग इंडिया लिमिटेड	99.	11135	मैसर्स आर्यन एग्रो डेयरी फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड
73.	11289	मैसर्स दिनेश नारायण ऑडियो एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	100.	08509	मैसर्स शेकल चेन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
74.	08145	मैसर्स सन्नी पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड	101.	09392	मैसर्स बैद्यनाथ गेस्पवाईट बोर्डलिंग प्राईवेट लिमिटेड
75.	07353	मैसर्स लैपटून डायग्नोस्टिक प्राईवेट लिमिटेड	102.	02925	मैसर्स सुरिची रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	03354	मैसर्स फ्यूजन एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड	103.	08165	मैसर्स आधार एक्वा एग्रो लिमिटेड
77.	03513	मैसर्स यशोदा कोक इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	104.	13181	मैसर्स अरसेनल कन्ज्यूमर एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
78.	04328	मैसर्स बिहार टेनरी प्राईवेट लिमिटेड	105.	09694	मैसर्स सामिन्द बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
79.	05263	मैसर्स ग्लेयर इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड	106.	07854	मैसर्स इन्ड्स इन्टरनेशनल इंडिया कंपनी लिमिटेड
80.	08098	मैसर्स ग्रीनरी प्लांटेशन्स (इंडिया) लिमिटेड	107.	09556	मैसर्स राईम्स डिस्ट्रीब्यूटर प्राईवेट लिमिटेड
81.	09766	मैसर्स फाउंडेशन इश्योरेन्स कन्सलटेन्सी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड	108.	11225	मैसर्स बरुन कुमार सिंह कैरियर प्राईवेट लिमिटेड
82.	09686	मैसर्स अब्बसुन फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	109.	02393	मैसर्स आशियाना लैंड डेवलपमेंट्स एण्ड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	11258	मैसर्स टुटलेग टेक्नोलॉजिकल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	110.	02563	मैसर्स सरकेम फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	04287	मैसर्स हाजीपुर कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	111.	08381	मैसर्स आशियाना गृह निर्माण प्राईवेट लिमिटेड
85.	13468	मैसर्स मिल्लो सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	112.	07107	मैसर्स टायट नगर सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
86.	09365	मैसर्स प्रसाद कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	113.	01816	मैसर्स क्वालिटी फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	08110	मैसर्स विनय एग्रो फोरेस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड	114.	12133	मैसर्स शंकरम हैल्थ केयर एण्ड रिसर्च (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
88.	12145	मैसर्स न्यु ज्योति बिल्डर्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	115.	06234	मैसर्स केजरीवाल इन्फोमेशन एण्ड कम्प्यूटर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	09713	मैसर्स जयंती ओरल कैंसर रिसर्च इंस्टीच्यूट प्राईवेट लिमिटेड	116.	08072	मैसर्स तोहफा फार्मिंग लिमिटेड
90.	08653	मैसर्स आवास गृह कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	117.	06376	मैसर्स जगत प्लांटेशन (इंडिया) लिमिटेड
91.	10650	मैसर्स झारखण्ड रजरप्पा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	118.	05570	मैसर्स दरबारी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
92.	10003	मैसर्स उरवी होम्स प्राईवेट लिमिटेड	119.	03652	मैसर्स आवास कोलोनाईजर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	09778	मैसर्स होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट प्राईवेट लिमिटेड	120.	06795	मैसर्स ऋतुराज होम्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	09828	मैसर्स ओरिजनल अयूर ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड	121.	05155	मैसर्स ऋतुराज प्लान्ट सर्विसिस लिमिटेड
95.	07083	मैसर्स परमार्थ एग्रो फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड	122.	10170	मैसर्स अनिल डेकोरेटर्स एण्ड कैटरर्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	12061	मैसर्स मानवी सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	123.	05957	मैसर्स ऋतुराज सेविंग्स एण्ड फाईनेन्स वेलफेयर लिमिटेड

1	2	3
124.	07129	मैसर्स एयर व्यू कॉमर्शियल फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
125.	04538	मैसर्स जनवेस्ट फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड
126.	10351	मैसर्स रेनू एग्रीको कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
127.	06477	मैसर्स सुधा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
128.	05373	मैसर्स झाबर इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
129.	09579	मैसर्स माँ शकम्बरी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
130.	06286	मैसर्स द ग्रेट बिहार फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
131.	10576	मैसर्स बारीरा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
132.	08791	मैसर्स गायत्री आर्किटेक्ट एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
133.	10120	मैसर्स भुवनेश्वरी होम्स प्राईवेट लिमिटेड
134.	09539	मैसर्स लिनेट हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड
135.	12435	मैसर्स संतोष कुमार चौबे इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
136.	09525	मैसर्स कम्प्यू जोन टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
137.	06733	मैसर्स सनवे इंडिया फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
138.	08692	मैसर्स अनुराग ग्रेन प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
139.	05134	मैसर्स डी. जे. स्टील प्रोसेसर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
140.	10535	मैसर्स कावेरी एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
141.	07178	मैसर्स कोबरा इन्टेलिजेन्स सिक््योरिटी फोर्स प्राईवेट लिमिटेड
142.	06869	मैसर्स लारवी कॉम्प्युट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
143.	08888	मैसर्स सीटो एण्ड प्रीमो केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड
144.	09598	मैसर्स पारटेक एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
145.	08765	मैसर्स माँ जानकी फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
146.	01566	मैसर्स पॉयनीयर प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
147.	01399	मैसर्स आशियाना इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
148.	11329	मैसर्स त्रिप्ती कैरियर गाईडेन्स प्राईवेट लिमिटेड
149.	07221	मैसर्स नवयुग मैटल्स प्राईवेट लिमिटेड
150.	08800	मैसर्स श्रमिक इन्टरप्राईसिस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
151.	05601	मैसर्स पोद्दार टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
152.	09981	मैसर्स ए. बी. एन. इन्स्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
153.	12083	मैसर्स दोराब्जी ऑटो प्राईवेट लिमिटेड
154.	05198	मैसर्स द जनवेस्ट प्लांटेशन प्राईवेट लिमिटेड
155.	10247	मैसर्स यूरेका नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
156.	05327	मैसर्स ज्योति रिट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड
157.	01485	मैसर्स गुडग्रीप टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
158.	10394	मैसर्स भारती एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
159.	07358	मैसर्स विरासत फिल्म्स एण्ड टेलीविजन प्राईवेट लिमिटेड
160.	05947	मैसर्स संतुष्टि सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
161.	10481	मैसर्स गोरी मोटर्स एण्ड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
162.	10323	मैसर्स रिलाइएबल स्पेयर पार्ट्स मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
163.	10397	मैसर्स ओम श्री दुर्गा ऑटो सेंटर एण्ड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
164.	07689	मैसर्स केसरी प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
165.	08937	मैसर्स हेमलता एजेन्सिस प्राईवेट लिमिटेड
166.	03016	मैसर्स युटीलिटी सेल्स एण्ड सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
167.	10324	मैसर्स वरटेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
168.	05535	मैसर्स लोमास प्लांटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
169.	10348	मैसर्स अन्नपूर्णा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
170.	06758	मैसर्स विभ्रा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
171.	07011	मैसर्स हताशति फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
172.	05203	मैसर्स एनन लीजिंग एण्ड फाईनेन्स सर्विसिस लिमिटेड
173.	10628	मैसर्स त्रिप्ती मैकलाईफ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
174.	10553	मैसर्स गंगोत्री एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
175.	07122	मैसर्स सिद्धार्थ लिजिंग एण्ड फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
176.	10423	मैसर्स अमन ऑटो सेंटर एण्ड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
177.	10745	मैसर्स मधु गोरे कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
178.	07703	मैसर्स जतिन एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार एवं झारखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एम्पायर रिक्रीएशन्स लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./26435/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एम्पायर रिक्रिएशन्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बरखा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./26455/एस.टी.ए./560/2010---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बरखा सॉफ्टवेयर लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वनश्री प्लांटेशन्स लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./26458/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वनश्री प्लांटेशन्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

વી. એસ. હજારે
સહાયક કમ્પની રજિસ્ટ્રાર
ગુજરાત, દાદરા એવં નગર હવેલી

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स माताश्री फूड एण्ड एग्रो
एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧૧ અક્તૂબર ૨૦૧૦

सं. आर.ओ.सी./26459/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स माताश्री फूड एण्ड एगो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स माताश्री फाईनेन्स एण्ड कैपिटल लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सो./26460/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स माताश्री फाईनेन्स एण्ड कैपिटल लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स यूनिवर्सल पिक्चर्स एण्ड मीडिया लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./26463/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स यूनिवर्सल पिक्चर्स एण्ड मीडिया लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स योगी हॉस्पिटल्स ट्रस्टमेंट सेंटर्स लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 11 અક્તૂબર 2010

सं. आर.ओ.सी./26465/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स योगी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सेंटर्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

सं. आर.ओ.सी/26583/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना
दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जेट फिनलीज़

सं. आर.ओ.सी/26645/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना

दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पेब्ल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स कानन दलाल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/26649/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कानन दलाल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स भगवती ट्रांसपोर्ट (अहमदाबाद) लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/26676/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स भगवती ट्रांसपोर्ट (अहमदाबाद) लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स एलप्रो फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/26685/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एलप्रो

फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स प्रमुख फाईनांशियल सर्विसेज़ एण्ड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/26689/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रमुख फाईनांशियल सर्विसेज़ एण्ड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स पारस स्टॉकेन लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/26707/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पारस स्टॉकेन लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स गुजरात एथलेटिक्स रेसिंग क्लब लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/26722/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गुजरात एथलेटिक्स रेसिंग क्लब लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आर.ओ.सी/26868/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना

दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रिचमोर फिनस्टॉक लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स स्पर्श पोलीमर्स लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/26882/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्पर्श पोलीमर्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स निसर्ग सिक्वोरिटीज़ लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/26884/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स निसर्ग सिक्वोरिटीज़ लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स समीर विंड पॉवर लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/26895/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स समीर विंड पॉवर लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स प्योर स्पाईसेज़ लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/26908/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्योर स्पाईसेज़ लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स गनेश विनायका इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/35066/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गनेश विनायका इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

राजेश कुमार डालमिया
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कोलकाता, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/प.बं./आईपीसी/560(एस.एम.)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनियों के नाम
1	2	3
1.	024723	मैसर्स श्री बालकृष्णा विट्ठलनाथ प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2.	051140	मैसर्स नाईटएंगेल फिस्कल प्राईवेट लिमिटेड
3.	039361	मैसर्स सिलोनी इंजीनियर्स प्राईवेट
4.	019388	मैसर्स लियोनार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स फैक्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
5.	084444	मैसर्स पुनीत एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
6.	017574	मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न मैकेनिकल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	025843	मैसर्स जिवनानी इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	121075	मैसर्स फर्स्ट स्टेप्स इंश्योरेंस एडवाइजरी एण्ड ब्रोकिंग प्राईवेट लिमिटेड
9.	095097	मैसर्स सी. सी. ए. कमर्शियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
10.	063588	मैसर्स गंगा किरन एजेंसीज (बम्बई) प्राईवेट लिमिटेड
11.	104017	मैसर्स एमिनेंट सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
12.	071094	मैसर्स ट्रैक एण्ड ट्रेकरी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
13.	114867	मैसर्स फैंसिल एडवाइजरी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
14.	072485	मैसर्स कोर डीलकोम प्राईवेट लिमिटेड
15.	050140	मैसर्स श्याम फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
16.	100200	मैसर्स बालाजी पोटेरी पलेक्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	106181	मैसर्स सोहोम कंटेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	039541	मैसर्स मर्कटाईल ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
19.	057193	मैसर्स मोशाल डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड
20.	070892	मैसर्स रॉकलैण्ड विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
21.	088201	मैसर्स मर्करी ग्रेवीयोर प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	103453	मैसर्स पीएस हाई-राईज प्राईवेट लिमिटेड
23.	108372	मैसर्स एसक्वायर लैडर एसैसरीज प्राईवेट लिमिटेड
24.	062930	मैसर्स एच. कैलाश ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
25.	038710	मैसर्स ट्रांसमिशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
26.	109812	मैसर्स न्यू डेकोर एडवाइजरी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
27.	018003	मैसर्स यूनिवर्सल इण्डिया ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
28.	031734	मैसर्स सुपीरियर इंक एण्ड वार्निश कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
29.	031734	मैसर्स नेट केयर इंश्योरेंस एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड
30.	019495	मैसर्स बी. एन. पाचाल एण्ड सन्सज प्राईवेट लिमिटेड
31.	108008	मैसर्स लाईफस्टाईल हाऊसिंग प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	108511	मैसर्स ब्ल्यू चिप हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड
33.	077630	मैसर्स जी. पी. प्लास्टीविज़न इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
34.	104770	मैसर्स एफएमसी हेल्थकेयर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
35.	092742	मैसर्स मेगा हर्ट एंटरप्राइसेज प्राईवेट लिमिटेड
36.	115118	मैसर्स शुभम आईटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
37.	094222	मैसर्स सक्सेस ज्वाइंट एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
38.	112026	मैसर्स एसएसआर कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड
39.	102727	मैसर्स न्योस्टीवा केयर प्राईवेट लिमिटेड
40.	022320	मैसर्स मोहनलाल गौतम प्राईवेट लिमिटेड
41.	110766	मैसर्स पीकॉन स्काईपॉवर प्राईवेट लिमिटेड
42.	046307	मैसर्स भालोटिया एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	058558	मैसर्स भालोटिया एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	059263	मैसर्स नमस्ते होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	027325	मैसर्स यूनीक मेटल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
46.	107157	मैसर्स क्वांट लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
47.	088362	मैसर्स बीपीएन लोकनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	091839	मैसर्स एस. डी. देब एंटरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड
49.	090349	मैसर्स ओबेरॉन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
सहायक कम्पनीज रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753001, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

सं. आरओसी/560/ईईएस-2010/4106--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनियों के नाम
1	2	3
1.	1084	मैसर्स बद्रीनाथ प्रोसेसज प्राईवेट लिमिटेड
2.	5977	मैसर्स प्रतिष्ठा सिन्थोरियो सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
3.	930	मैसर्स कोहिनूर रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	6164	मैसर्स ओरिओले एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
5.	7956	मैसर्स मौसूमी एंटरप्राइसेज प्राईवेट लिमिटेड
6.	6157	मैसर्स ई-कॉम नेटवर्क सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
7.	394	मैसर्स ओडीसा बोर्ड मिल्स लिमिटेड
8.	1915	मैसर्स रॉकवेल्स ट्रांसपोर्ट सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
9.	1635	मैसर्स खुशाना एग्रो इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
10.	5903	मैसर्स वैदिका बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	3914	मैसर्स पोलाकी एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
12.	6922	मैसर्स एसपेरल बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
13.	396	मैसर्स मोडर्न इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
14.	5986	मैसर्स मैफेयर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
15.	8974	मैसर्स राधिका माईन्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	2295	मैसर्स गौरी शंकर राईस मिल प्राईवेट लिमिटेड
17.	5914	मैसर्स विजया रियलकॉन प्राईवेट लिमिटेड
18.	6195	मैसर्स आरैन आई-टेक प्राईवेट लिमिटेड
19.	6848	मैसर्स ट्रांस औशिएन इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
20.	8915	मैसर्स आद्या ऑर्गेनिक लिमिटेड
21.	8778	मैसर्स बोनाई मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	9699	मैसर्स सीआईएमएम (इंडिया) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड
23.	8305	मैसर्स होटल स्टील रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	8764	मैसर्स कैंडुस सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
25.	7316	मैसर्स कर्लिंगा सिग्नल्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	8587	मैसर्स श्री एयर प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड
27.	1032	मैसर्स एस. एन. कापेरेशन लिमिटेड
28.	5228	मैसर्स पायल गार्मेट्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	787	मैसर्स बसंती होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	8600	मैसर्स नारायणी पोल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
31.	4100	मैसर्स माँ दुर्गा एग्रो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	5009	मैसर्स जेम्स टेक्नो प्राईवेट लिमिटेड
33.	9752	मैसर्स ओम साई रिसोर्सिज प्राईवेट लिमिटेड
34.	7684	मैसर्स ब्राह्मनी कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	8382	मैसर्स सुंदरेश्वर पोल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
36.	8057	मैसर्स हर्बेज (इण्डिया) मार्केटिंग लिमिटेड
37.	791	मैसर्स बेलारानी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
38.	6171	मैसर्स एलाईट अकेडेमी ऑफ प्रोफेशनल स्टडी एण्ड रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड
39.	6945	मैसर्स अर्थग्रेन्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	9189	मैसर्स एवर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
41.	5618	मैसर्स सत्य नारायण ऑयरन वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	8068	मैसर्स रानी सारदा फूड प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड
43.	8617	मैसर्स इंटरनेट-एन-सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
44.	8616	मैसर्स कर्लिंगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
45.	3378	मैसर्स कर्लिंगा सेवा प्रकल्प इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
46.	7284	मैसर्स अभ्युद्धा सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
47.	3921	मैसर्स ब्रेन-वाईज मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
48.	2815	मैसर्स गजपति सिक्वोरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
49.	6268	मैसर्स श्री वासुदेव सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
50.	6782	मैसर्स नवनिर्माण प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	9393	मैसर्स इंटेग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
52.	9537	मैसर्स पुर्बी भारत रेयर अर्थ लिमिटेड
53.	9163	मैसर्स न्यू इरगो कॉन्सेप्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
54.	3111	मैसर्स सिधा भैरवी वायर्स एण्ड नैल्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	9036	मैसर्स डीएम ट्यूबोरियल्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	5362	मैसर्स पातिदार अलॉय वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	4595	मैसर्स वेली ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	7129	मैसर्स एमएल मार्केटिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
59.	3293	मैसर्स आईडीकॉल पार्किंग एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड
60.	3975	मैसर्स सेवियर हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
61.	9147	मैसर्स ओएमएम मराई एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	8743	मैसर्स आर्शावाद रिसोर्सिज प्राईवेट लिमिटेड
63.	6434	मैसर्स स्नेहाश्री प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
64.	8744	मैसर्स पॉवरसोल टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
65.	7833	मैसर्स शांति एश्योरेंस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
66.	972	मैसर्स एम. पी. एस. एंटरप्राइसेज प्राईवेट लिमिटेड
67.	1193	मैसर्स श्री बजरंग इंजीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड

बी. मोहनन्ती
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 14th September, 2010

No. A-19014/21/2010-Admn.I—Consequent upon his inclusion in the Select List of Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) for the year 2010 (Part) and allocation to the cadre of UPSC vide Department of Personnel & Training Office Order No. 4/2/2010-CS.I(D) dated 06.08.2010, the President is pleased to appoint Shri S. Kannappan, a Grade I officer of CSS (Under Secretary) borne on the strength of Office of the Registrar General of India, Ministry of Home Affairs to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) in the office of Union Public Service Commission in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 7,600/- on regular basis w.e.f. 3rd September, 2010 (AN).

2. The above promotion of the officer is subject to final orders of Hon'ble CAT in OA No. 1864/2009 pending before the Hon'ble CAT, Kolkata in the matter relating to Ms. Garima Singh Vs UOI & others.

A.K. AHLUWALIA
Sr. Administrative Officer

The 23rd September, 2010

No. A-32013/1/2010-Admn.I—Consequent upon their inclusion in the Senior Selection Grade (Director) of the Central Secretariat Service (CSS) Supplementary Select List for the year 2010 vide DoPTrg. Order No. 3/4/2010-CS-I(D) dated 17th September, 2010, the President is pleased to appoint the following Selection Grade (Deputy Secretary) Officers of CSS, presently working in UPSC, as Joint Secretary, UPSC (Director's Grade) in the revised pay structure in PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 8,700/- w.e.f. 22nd September, 2010 until further orders by upgrading the post of Deputy Secretary held by them:—

Sl. No.	CSL No.	Name of the officer
1.	3796	Sh. S.B. Saroha
2.	3638	Sh. V.K. Sekhri
3.	3674	Sh. Y.P. Gupta
4.	3952	Sh. P.P. Halder
5.	3723	Sh. N.C. Gaur
6.	3726	Sh. Ashok Kumar

A.K. AHLUWALIA,
Sr. Admn. Officer

The 24th September, 2010

No. A-19014/25/2010-Admn.I—Consequent upon his inclusion in the Select List of Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) for the year 2010 (Part) and allocation to the cadre of UPSC vide Department of Personnel & Training Office

Order No. 4/2/2010-CS.I(D) dated 14/15th.09.2010, the President is pleased to appoint Shri N.K. Sharma, a Grade I officer of CSS (Under Secretary) borne on the cadre of Planning Commission, to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) in the office of Union Public Service Commission of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 7,600/- on regular basis w.e.f. 15th September, 2010.

2. The above promotion of the officer is subject to final orders of Hon'ble CAT in OA No. 1864/2009 pending before the Hon'ble CAT, Kolkata in the matter relating to Ms. Garima Singh Vs UOI & others.

A.K. AHLUWALIA
Sr. Administrative Officer

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 11th October, 2010

No. DP/PERS.I/2010/64/3/14/2005—Shri O.P. Gaur relinquished charge of the post of Sr. Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30.09.2010.

M. SACHDEV
Admn. Officer (Pers.)

No. DP/PERS.I/2010/65/3/25/2008—Shri M.K. Kumaran relinquished charge of the post of Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30.09.2010.

M. SACHDEV
Admn. Officer (Pers.)

No. DP/PERS.I/2010/5097/3/5/2007—Shri M. S. Sundarajan relinquished charge of the post of Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.08.2010.

M. SACHDEV
Admn. Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT)

New Delhi-110003, the 15th October 2010

No. 3/37/2010-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Vikram Srivastava, IPS (UP : 73) as Director General, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi on lateral shift basis in the scale of pay of Rs. 80,000/- (fixed) (on personal basis) with effect from the afternoon of 6th October, 2010 till his superannuation on 31.03.2012 or until further orders, whichever event takes place earlier.

DHANI RAM
Asstt. Director (Admn.)

The 19th October 2010

No. 3/4/2009-Admn.—Consequent upon his retirement on superannuation from Government Service, Shri Prasun Mukherjee, IPS (WB : 73) has relinquished the charge of the office of the Director General, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi with effect from the afternoon of 30th September, 2010.

DHANI RAM
Asstt. Director (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 8th October 2010

No. O-II-5400/2010-DA-4-Pers.—Consequent on acceptance of his notice of Voluntary Retirement from Government Service by the competent authority, Shri V. Karthikeyan, Dy. Commandant (IRLA-5400) of 41Bn has relinquished his post on 01.10.2010 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 01.10.2010 (FN).

T. CHANDRASEKHARAN
DIGP (Pers.)

DIRECTOR GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 24th September 2010

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers. I/166—The President is pleased to promote the following Asstt. Commandant (Local Rank), Inspector/Exe on regular promotion to the rank of Asstt. Commandant (Exe), in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- on regular basis in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officers	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption as AC/Exe Rank
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	Rameshwar Prasad Singh	Othpp Obra	08.02.2010(FN)
2.	R. Sawaiyan	MDL, Mumbai	05.02.2010(AN)
3.	Hari Singh	BCCL, Dhanbad	08.02.2010(FN)
4.	C. V. Seshagiri Rao	HPCL(VR), Vizag	05.02.2010(FN)
5.	K. V. Abraham	NPC, Kaiga	05.02.2010(AN)
6.	Fauja Singh	GP, Hqr Chandigarh	05.02.2010(FN)
7.	Manoranjana Mahanta	GUO OR Mines Jhkd.	15.02.2010(FN)
8.	Mangey Ram	Mumbai Airport	05.02.2010(FN)
9.	D. K. Kar	DAV Panchet (Dhanbad)	17.02.2010(FN)

1	2	3	4
10.	S. K. Sinha	IGI Airport, New Delhi	06.02.2010(FN)
11.	K. M. Ramesh	Calicut Airport	15.02.2010(FN)
12.	S. K. Chhibbar	Coimbatore Airport	22.02.2010(FN)
13.	Ombir Singh	GBS, New Delhi	06.02.2010(FN)
14.	S. B. Rashid	Gail Pata, Etawah	05.02.2010(FN)
15.	A. A. Asthekar	Kolkata Airport	05.02.2010(FN)
16.	O. P. Shukla	HEP, Uri	04.02.2010(FN)
17.	L. Simon	OPS, Noonmati	05.02.2010(FN)
18.	V. K. Gaur	Bengalluru Airport	05.02.2010(FN)
19.	U. C. Bhowal	FCI, Dighaghat	05.02.2010(FN)
20.	M. N. Chauhan	KHDC, Khandwa	05.02.2010(FN)
21.	R. S. Panwar	Oil Duliajan	05.02.2010(FN)
22.	V. K. Sharda	Khajuraho Airport	06.02.2010(FN)
23.	B. R. Pathak	Hyderabad Airport	05.02.2010(FN)
24.	A. M. Prasad	BSL, Bokaro	05.02.2010(FN)
25.	G. R. Morghade	IOC, Panipat	05.02.2010(FN)
26.	R. S. Patil	KAPS, Kakrapara	15.02.2010(FN)
27.	Bhupinder Singh	ONGC, Nazira	05.02.2010(FN)
28.	C. R. Acharya	GP Hqr., Kolkata	11.03.2010(FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

The 8th October 2010

CORRIGENDUM

No. E-38015(4)/ALJ/2009/Pers.I/192—Reference this Directorate Notification No. E-38015(4)/ALJ/2009/Pers.I/313 dated 23.10.2009 regarding acceptance of resignation of Shri Arjun Lal Jat, Assistant Commandant (Prob) wef 21.07.2009 (AN).

The above Notification may be amended to read as under :—

FOR

The word "RESIGNATION"

READ

"TECHNICAL RESIGNATION"

Other contents of the above referred notification shall remain changed.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 12th October 2010

No. E-16015(2)/32/2009/Pers.I/195—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the competent authority

has conferred the local rank of Assistant Commandant (JAO) to the following Inspectors (Min/Steno) of CISF, with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption as AC (Local Rank)
1.	Sh. Kamal Krishna Das	Hqrs. New Delhi (Pers. Branch)	13.09.2010 (FN)
2.	Sh. Alok Kumar Ghosh	SSG Delhi	13.09.2010 (FN)
3.	Sh. D. C. Tyagi	GBS New Delhi	13.09.2010 (FN)
4.	Sh. Rambriksh Prasad	BCCL Dhanbad	05.09.2010 (FN)
5.	Sh. Narayan Singh	IGI Airport New Delhi	01.09.2010 (FN)
6.	Sh. K. T. Krishnan	North Sector Hqr. New Delhi	20.09.2010 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015(2)/32/2009/Pers.I/196—The President is pleased to promote the following Dy. Commandant (Local Rank), Assistant Commandants (Exe/JAO) on regular promotion to the rank of Deputy Commandant (Exe), in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- on regular basis in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as DC (Exe) on regular basis
1	2	3	4
	Smt./Shri		
1.	Shipra Srivastava	VSP Visakhapatnam	24.05.2010 (FN)
2.	K. I. Gauba	4th Res. Bn. Jaipur	28.05.2010 (FN)
3.	Ram Gopal Sharma	RTC Bhilai	24.05.2010 (FN)
4.	S. R. C. Desai	WS Hqrs. Mumbai	24.05.2010 (FN)
5.	D. S. Shukla	BSP Bhilai	28.06.2010 (FN)
6.	R. P. Kaushik	KPT Kandla	24.05.2010 (FN)
7.	Raj Kumar Tyagi	Gail Lakwa	24.05.2010 (FN)
8.	Amrit Lal Sharma	NFL Nangal	24.05.2010 (FN)
9.	R. K. Sharma	KKNPP Kudamkulam	24.05.2010 (FN)
10.	Harish Pandey	PTPS Paki (NISA Hyderabad for Pay Purpose)	23.05.2010 (FN)
11.	Chand Singh	ISP Nasik	05.06.2010 (FN)
12.	P. Prabhakaran	VIP Security, Delhi	24.05.2010 (FN)
13.	Kanwaljit Singh	RSTPP Rihand	23.05.2010 (FN)

1	2	3	4
14.	V. K. Arora	Base Workshop Bhilai	06.08.2010 (FN)
15.	Bahadur Singh	BRPL Bongaigaon	23.05.2010 (FN)
16.	S. A. Nainar	Trichy Airport	24.05.2010 (FN)
17.	Ashok Nanda Moon	IOC Panipat	06.08.2010 (FN)
18.	M. P. Singh	RSP Rourkela	26.06.2010 (FN)
19.	K. M. Sant	IISCO Burnpur	31.07.2010 (FN)
20.	Ranjit Singh	CCI Kargali	03.06.2010 (FN)
21.	R. Siva Rama	2nd Res. Bn. Ranchi	03.05.2010 (FN)
22.	Ram Nawal	KSTPP Korba	25.05.2010 (FN)
23.	A. K. Naskar	UCIL Jaduguda	29.05.2010 (FN)
24.	J. J. Prasad	GBS New Delhi	24.05.2010 (FN)
25.	Birsa Lakra	NPM Jagiroad	24.05.2010 (FN)
26.	M. S. Inwale	BCCL Dhanbad	25.05.2010 (FN)
27.	Mangal Lakra	KAPS Kakrapara	24.05.2010 (FN)
28.	V. S. Birole	F Hqrs. New Delhi	07.06.2010 (FN)
29.	C. G. Chattopadhyay	VIP Security, Delhi	24.05.2010 (FN)
30.	Rabindra Rajak	BCCL Dhanbad	25.05.2010 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015(2)/32/2009/Pers.I/197—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the competent authority has conferred the local rank of Assistant Commandant (Fire) to the following Inspectors (Fire) of CISF, with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption as AC (Local Rank)
1.	Sh. Sanjeev Kumar Saddi	NTPC/TTPS Talcher	26.06.2010 (FN)
2.	Sh. Kuldeep Yadav	DTPS Durgapur	16.08.2010 (FN)
3.	Sh. P. Balakrishna	CTPS Chandrapura	23.06.2010 (FN)
4.	Sh. Sabbella Venkata Reddy	NFL Panipat	14.08.2010 (FN)
5.	Sh. Rupinder Singh Bains	BHEL Jhansi	20.06.2010 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015(2)/32/2009/Pers.I/198—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the competent authority

has conferred the local rank of Assistant commandant (Exe) to the following Inspectors (Exe) of CISF, with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption as AC (Local Rank)
	Shri		
1.	Vinodhan T.	ASG Coimbatore	10.09.2010 (FN)
2.	Sankarsan Biswal	IOC Barauni	27.09.2010 (FN)
3.	N. Sivaraman	RGTPP Hissar	13.09.2010 (FN)
4.	T. Suvarana Raju	TTPS Talcher	10.09.2010 (FN)
5.	Goura Shankar Patel	STPP Simhadri	20.09.2010 (FN)
6.	R. S. Dandotia	RAPS Kota	20.09.2010 (FN)
7.	Basant Kumar	RTC Deoli	17.09.2010 (FN)
8.	Mohinder Singh	HWP Manuguru	17.09.2010 (FN)
9.	Umesh Chandra Bhadola	ASG Amritsar	02.09.2010 (FN)
10.	Raghendra Pratap Singh	DM BN-1 Mundali	20.09.2010 (FN)
11.	S. P. Rana	JNPT Sheva	06.09.2010 (FN)
12.	S. K. Bhanja	RTC Mundali	30.08.2010 (FN)
13.	Ashok Kumar Solahiya	SS Hqrs Chennai	13.09.2010 (FN)
14.	Sham Lal	ASG Agartala	16.09.2010 (FN)

SD/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers.I/199—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the competent authority has conferred the local rank of Assistant commandant (Exe) to the following Inspectors (Exe) of CISF, with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption as AC (Local Rank)
	Shri		
1.	P. C. Chakrabarthi	JNPT Sheva	27.08.2010 (FN)
2.	Sudam Ch. Das	RTC-II Deoli (Now MPRTC Behror)	06.07.2010 (FN)
3.	S. Khageswar Rao	RTC Barwaha	27.08.2010 (FN)
4.	A. S. Kadyan	Oil Duliajan	06.08.2010 (FN)
5.	A. S. Samyal	Chennai Airport	13.07.2010 (FN)
6.	K. N. Acharya	Rai Pur Airport	07.06.2010 (FN)
7.	Md. Khurshid Alam	RTC Barwaha	16.07.2010 (FN)

1	2	3	4
8.	OPS Chouhan	Oil Duliajan	16.07.2010 (FN)
9.	G. Jayadevan	ISRAC Lucknow	12.07.2010 (FN)
10.	P. J. Joseph	BPCL Bokaro	26.06.2010 (FN)
11.	M. L. Surya	GBS New Delhi	17.06.2010 (FN)
12.	Bhagavanthu	SMPL Rajkot	31.08.2010 (FN)
13.	S. C. Mishra	GBS New Delhi	05.07.2010 (FN)
14.	A. K. Mallick	VSTPP Sidhi	29.12.2010 (FN)
15.	Herman Toppo	VSSC Thumba	28.01.2010 (FN)
16.	M. Kannaian	KPT Kandla	15.10.2010 (FN)
17.	Sarabeshwar Dash	NFC Hyderabad	17.04.2010 (FN)
18.	N. S. Muraleedharan	IGI Airport New Delhi	14.10.2010 (FN)
19.	Madan Pal	ASG Hyderabad	16.03.2010 (FN)
20.	Gajendra Singh	Nisa Hyderabad	31.03.2010 (FN)
21.	N. P. Reddy	DMRC New Delhi	13.08.2010 (FN)
22.	Sanjay Singh	DVC Hqr Kolkata	27.03.2010 (FN)
23.	A. Narayaswamy	BSP Bhilai	13.09.2010 (FN)

SD/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-38015/(4)/4/SM/2007/Pers.I/201—The President is pleased to accept the resignation of Shri Sundeep Malik, Assistant Commandant of CISF RTC Barwaha with effect from 12.01.2007 (FN).

SD/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 18th October 2010

No. E-38015/(4)/3/VA/2010/Pers.I/205—Consequent upon appointment in Indian Audit & Accounts Services Group-"A" on the basis of Civil Services Examination 2009, the President is pleased to accept the technical resignation of Shri Varun Ahluwalia, Assistant Commandant (Prob), CISF with effect from 26.08.2010 (AN).

SD/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 7th October 2010

No. E-16013/(1)/4/2009/Pers.I/190—The President is pleased to appoint Shri P. S. Phalnikar, IPS (MP : 1989) as Deputy Inspector General, Central Industrial Security Force, New Delhi with effect from the afternoon of 04.10.2010.

RATNADEEP JOSHI
Asstt. Inspector General (Pers.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT)

(CENTRAL EXPENDITURE)

New Delhi-110002, the 18th October 2010

No. Admn./O.O. No.-236—Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi hereby appoints Smt. Rajni Jha, Assistant Audit Officer (Emp Code DLNDV4051406) of this office to officiate as Audit Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- carrying Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 29.09.2010 (F/N) until further orders.

SD/- ILLEGIBLE
Director (Admn.)

No. Admn./O.O. No.-237—Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi hereby appoints Shri Prem Kumar Singh, Assistant Audit Officer (Emp Code DLNDV4051398) of this office to officiate as Audit Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- carrying Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 01.10.2010 (F/N) until further orders.

SD/- ILLEGIBL
Director (Admn.)

No. Admn./O.O. No.-238—Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi hereby appoints Sh. Sanjeev Kumar, Assistant Audit Officer (Emp Code DLNDV4051075) of this office to officiate as Audit Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- carrying Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 22.09.2010 (F/N) until further orders.

SD/- ILLEGIBL
Director (Admn.)

MINISTRY OF CULTURE

(DEPARTMENT OF CULTURE)

ANTHROPOLOGY SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 11th October 2010

No. 4-354/2010/Estt.—The director, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Shri Amit Soni, to the post of Assistant Keeper, Group-B (Gazetted) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- (pre-revised) corresponding pay Band PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,600/- (revised) at the Sub Regional Centre, Jagdalpur with effect from the forenoon of 22nd September, 2010, until further orders.

D. N. PANDEY
Head of Office

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED
TECHNOLOGY)

Indore, the 6th October 2010

No. RRCAT/Admn-2009/R-805(J)/1043—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers(E) (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/-) to the Grade of Scientific Officer/Engineer (F) (PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/-) w.e.f. 01.07.2010 in the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore :—

Sl. Name
No.

1. Shri R. K. Khare
2. Shri S. R. Garg
3. Shri N. K. Sethi
4. Dr. K. J. S. Sokhey
5. Shri Pramod Radheshyam
6. Shri R. K. Barothiya
7. Shri Umesh Kale
8. Shri Deodatta Baxy
9. Shri S. G. Gilankar
10. Dr. Gurvinderjit Singh
11. Shri Pankaj Kumar
12. Shri Prashant Pareek
13. Dr. Kailash Ruwali
14. Shri Bhaskar Biswas
15. Dr. S. Ganesa Moorthy
16. Shri P. Ganesh
17. Smt. S. Gangopadhyay
18. Shri V. K. Jain
19. Dr. C. Mukherjee
20. Shri Subrata Das
21. Shri V. B. Tiwari

R. P. ACHARYA
Chief Administrative Officer

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND
ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400094, the 7th October 2010

No. DCSEM/A/2(199)/2010-Rectt./695—The President is pleased to appoint the following Officer in the Directorate of Construction, Services and Estate Management,

Department of Atomic Energy on their promotion to the grade and date mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Grade on Promotion	Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)	Date of assumption of charge
1.	Shri Ratan Singh	SO/F	Rs. 37,400—67,000	Rs. 8,700/-	01.07.2010 (FN)
2.	Shri K. L. Modi	SO/F	Rs. 37,400—67,000	Rs. 8,700/-	01.07.2010 (FN)
3.	Shri G. Bhagawa-theeswaran	SO/F	Rs. 37,400—67,000	Rs. 8,700/-	01.07.2010 (FN)

G. S. MATHEW
Administrative Officer-III

No. DCSEM/A/3(2139)/2010-Rectt./699—The President is pleased to appoint Shri G. S. Karwade, Administrative Officer-II (PB-2 Rs. 9,300—34,800/- Grade Pay Rs. 5,400/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai as Administrative Officer-III (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- Grade Pay Rs. 6,600/-) in this Directorate from the forenoon of 01.10.2010 until further orders.

G. S. MATHEW
Administrative Officer-III

BOARD OF RADIATION & ISOTOPE TECHNOLOGY

Navi Mumbai-400705, the 9th October 2010

No. BRIT/9/18/120—Chief Executive, BRIT appoints Smt. Padmini Raveendran, Stenographer Grade-I of Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Private Secretary (Non-Secretariat) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with grade Pay Rs. 4,600/- on regular basis w.e.f. the forenoon of September 21, 2010 until further orders.

O. K. SATHIAN
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS OFFICER OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mohan Softwares Private Limited

New Delhi-110019, the 16th June 2010

No. 560(5)/047725—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mohan Softwares Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Akshay Foods and Beverages Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd July 2010

No. 560(5)/043952—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Akshay Foods and Beverages Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Unistrut Contraction Engineers Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/035966—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Unistrut Contraction Engineers Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amuk Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/044719—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amuk Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Akash Plants and Seeds Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/044807—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Akash Plants and Seeds Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Afrik Travels Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/037525—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Afrik Travels Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alex Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/047706—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alex Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Abhivadan Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/037605—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Abhivadan Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Adarsh Garment Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/047583—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Adarsh Garment Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Phonix Biotech Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/038951—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Phonix Biotech Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. A to Z Advertising Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/047437—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A to Z Advertising Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Camlow Equipment (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/037687—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Camlow Equipment (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Akam Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/047013—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Akam Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prakashsons Concost Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/021117—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prakashsons Concost Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arpel Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/046649—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arpel Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. A. J. Knitting Mills Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/029835—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. J. Knitting Mills Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Graduate Traders Financiers and Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/004072—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Graduate Traders Financiers and Fund Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Meefin Financiers and Traders Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/004120—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Meefin Financiers and Traders Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sartaj Chit Fund and Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/003982—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sartaj Chit Fund and Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Adnan Textiles Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/048130—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Adnan Textiles Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Asteroids Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/048146—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Asteroids Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Annie Whiteline Appliances Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/048454—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Annie Whiteline Appliances Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aviv Pharmaceuticals Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/044142—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aviv Pharmaceuticals Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aristorcrate Detective Agency Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/049260—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aristorcrate Detective Agency Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Almighty Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/044364—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Almighty Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Airfast Cargo and Courier Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/030266—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Airfast Cargo and Courier Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amol Chemicals Laboratories Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/044375—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amol Chemicals Laboratories Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Advantage Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/037273—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Advantage Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashvraj Leasing and Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/047554—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ashvraj Leasing and Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amazon Packers and Movers Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/046333—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amazon Packers and Movers Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Young Friends Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/022056—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Young Friends Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anurag Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/046516—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anurag Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jai Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/022303—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jai Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Avenue Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/044727—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Avenue Impex Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Atri Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/044680—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Atri Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Akhand Jyoti Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/044837—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Akhand Jyoti Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Taj Tourist Transport Co. Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/004012—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Taj Tourist Transport Co. Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Archis Cape Design Centre Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/031663—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Archis Cape Design Centre Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aquireous Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/045970—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aquireous Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Apsara Estates Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/046218—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Apsara Estates Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ashirwad Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/045862—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ashirwad Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amtrek Traders Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/046020—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amtrek Traders Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aakriti Cine Media Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/045737—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aakriti Cine Media Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aparna Estates Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/046215—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aparna Estates Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anandee Medical Centre Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/045642—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anandee Medical Centre Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Acura Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/045153—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Acura Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fibre International Private Limited

New Delhi-110019, the 23rd July 2010

No. 560(5)/078347—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fibre International Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Allgarh Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/045007—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Allgarh Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. All Time Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 26th July 2010

No. 560(5)/055857—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. All Time Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aadi Trade and Investment Private Limited

New Delhi-110019, the 3rd July 2010

No. 560(5)/045121—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aadi Trade and Investment Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Archives Publishers Private Limited

New Delhi-110019, the 26th July 2010

No. 560(5)/027855—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Archives Publishers Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. ASG Pharma Private Limited

New Delhi-110019, the 23rd July 2010

No. 560(5)/053992—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. ASG Pharma Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Adinath Chit Fund Co. Private Limited

New Delhi-110019, the 26th July 2010

No. 560(5)/028116—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Adinath Chit Fund Co. Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amrit Plantation Private Limited

New Delhi-110019, the 26th July 2010

No. 560(5)/027782—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amrit Plantation Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. A. K. Credits Private Limited

New Delhi-110019, the 26th July 2010

No. 560(5)/027860—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. K. Credits Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Adventure Holiday Resorts Private Limited

New Delhi-110019, the 26th July 2010

No. 560(5)/028633—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of Adventure Holiday Resorts Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Voice Information System India Limited

New Delhi-110019, the 26th July 2010

No. 560(5)/055467—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. Voice Information System India Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Annex Estates and Corridor Private Limited

New Delhi-110019, the 31st July 2010

No. 560(5)/121553—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Annex Estates and Corridor Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Okhla Auto Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd August 2010

No. 560(5)/049679—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Okhla Auto Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mohan Hokke Limited

New Delhi-110019, the 2nd August 2010

No. 560(5)/029343—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mohan Hokke Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Asair Rains Hygenic Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd August 2010

No. 560(5)/029374—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Asair Rains Hygenic Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. A. I. Khaleej Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd August 2010

No. 560(5)/049777—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. I. Khaleej Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Abhay Carriers Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd August 2010

No. 560(5)/050698—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Abhay Carriers Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aagman Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd August 2010

No. 560(5)/043428—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aagman Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arambh Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd August 2010

No. 560(5)/043864—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arambh Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Archies Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd August 2010

No. 560(5)/050655—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Archies Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ambitions Foods Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd August 2010

No. 560(5)/027229—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ambitions Foods Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aema Investments Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd August 2010

No. 560(5)/056015—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aema Investments Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aarman Softech Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd August 2010

No. 560(5)/051243—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aarman Softech Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ankur Portfolio Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd August 2010

No. 560(5)/052802—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ankur Portfolio Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Allied Clearing Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd August 2010

No. 560(5)/053441—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Allied Clearing Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Applause Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 2nd August 2010

No. 560(5)/053613—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Applause Chits Private Limited has this day been struck off the register and the said Company is dissolved.

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of
the following Companies

New Delhi-110019, the 5th October 2010

No. RoC/Delhi/560(5)/824/7183—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies has this day been struck off from the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Company Name
1	2	3
1.	699	M/s. Panipat Dayal Bagh Stores Private Limited
2.	4992	M/s. Indo-German Climate Control Private Limited
3.	5471	M/s. Chhabra Chit Fund Private Limited
4.	7741	M/s. Kumar Melts Private Limited
5.	9584	M/s. Champa Textile and Engineering Private Limited
6.	10987	M/s. Uberoi Button India Private Limited
7.	11454	M/s. New Age Appliances and Private Limited
8.	11876	M/s. Surendra Enterprises Private Limited
9.	13929	M/s. Nafabs (India) Private Limited
10.	15139	M/s. Gurmeet Finance Private Limited
11.	15835	M/s. Rewasa Investment and Finance Private Limited
12.	15902	M/s. Shama Holdings Private Limited
13.	16000	M/s. Gronar Chit Fund Private Limited
14.	16913	M/s. Live Well Medicos Private Limited
15.	20325	M/s. Flourishwall Chit Fund Co. Private Limited
16.	20652	M/s. Trio Gas Gadgets Private Limited
17.	21117	M/s. Prakashsons Concost Private Limited
18.	21679	M/s. Mayur Footwears Private Limited
19.	21948	M/s. Ask Electronics Private Limited
20.	22056	M/s. Young Friends Chits Private Limited
21.	22303	M/s. Jai Chits Private Limited
22.	22681	M/s. Triangle Chits Private Limited
23.	26662	M/s. Rudraksh Chit Fund Private Limited
24.	28606	M/s. Benhar Di Steel Private Limited

1	2	3	1	2	3
25.	29825	M/s. A. P. Chits Private Limited			Limited
26.	30374	M/s. Prashant Book Distributors Private Limited	59.	34352	M/s. Bhawani Mata Srestler Security Services Private Limited
27.	30449	M/s. Abheykiram Chit Fund Private Limited	60.	34467	M/s. Saree Mahal Exclusive Private Limited
28.	30712	M/s. Aeron Polypack Industries Private Limited	61.	34746	M/s. Mystic Rose Chits Private Limited
29.	30773	M/s. Venus Cables Private Limited	62.	972	M/s. D. R. K. M. and Sons Private Limited
30.	30783	M/s. Anshuman Chits Private Limited	63.	3003	M/s. Delhi Universal Plastics Private Limited
31.	30795	M/s. Aades Chits Private Limited	64.	3125	M/s. Capital Chit Fund Private Limited
32.	30829	M/s. A. K. S. Chits Private Limited	65.	3142	M/s. Verker Industries India Private Limited
33.	30848	M/s. Ardas Chits Private Limited	66.	3174	M/s. Shant Finance Private Limited
34.	30875	M/s. Abhilasha Chit Fund Company Private Limited	67.	3195	M/s. Shankar Finance Private Limited
35.	30977	M/s. A. S. J. S. Chits Fund Company Private Limited	68.	3201	M/s. Vikram Finance Private Limited
36.	31030	M/s. Utkrish Chit Fund Private Limited	69.	3210	M/s. Jaya Private Limited
37.	31066	M/s. A. V. Natural Remedies Private Limited	70.	3216	M/s. Bishnoi Finance Private Limited
38.	31068	M/s. Amogh Chits Private Limited	71.	3245	M/s. Supreme Financiers Private Limited
39.	31084	M/s. Aanpriya Chit Fund Private Limited	72.	3267	M/s. Bridge Stones Co. Private Limited
40.	31128	M/s. Archie Chits Private Limited	73.	3628	M/s. All India Chit Fund Private Limited
41.	31431	M/s. Amateure Chits Private Limited	74.	3791	M/s. A One Finance Private Limited
42.	31507	M/s. Arjit Chits Private Limited	75.	3942	M/s. Hercules Chit Fund and Finance Company Private Limited
43.	31537	M/s. Akarshan Chits Private Limited	76.	3960	M/s. Emen Finance Company Chit Fund Private Limited
44.	31571	M/s. Ayodhya Chits Private Limited	77.	3964	M/s. Gemsons Finance and Chit Fund Private Limited
45.	31628	M/s. Ally Chits Private Limited	78.	3982	M/s. Sartaj Chit Fund and Finance Private Limited
46.	31636	M/s. Karam Bhoomi Builders Limited	79.	3990	M/s. Malhotra Bros Private Limited
47.	31687	M/s. Abhichet Chits Private Limited	80.	4010	M/s. Ushara Imports Exports and Finance Private Limited
48.	31832	M/s. Amici Finance Private Limited	81.	4012	M/s. Taj Tourist Transport Co. Private Limited
49.	32143	M/s. Swastika Pacific Private Limited	82.	4025	M/s. Brite Chit Fund and General Financiers Private Limited
50.	32702	M/s. Utkrist Financial Services Limited	83.	4028	M/s. Ambassador Chit Fund and Finance Private Limited
51.	32718	M/s. Haryana Finvest Limited	84.	4036	M/s. Shri Amrit Chit Fund and Finance Private Limited
52.	32933	M/s. Vaishnav Papers Limited	85.	4037	M/s. Jagat Benefit Chit Fund Private Limited
53.	32996	M/s. Xenial Pharmaceuticals Limited			
54.	33109	M/s. M. D. Tea Castle Private Limited			
55.	33214	M/s. Alaska Lease-Fin Private Limited			
56.	33244	M/s. Rakesh Strips Limited			
57.	33344	M/s. PKR Chits Private Limited			
58.	33527	M/s. Vtek Agro Industries Private			

1	2	3	1	2	3
86.	4058	M/s. Bhaskar Finance and Chit Fund Private Limited	111.	4479	M/s. Air Foam Industries Private Limited
87.	4060	M/s. Asian Manufacturing Company Private Limited	112.	4506	M/s. Deluxe International Private Limited
88.	4065	M/s. Smiling Kiran Chit Fund and Finance Private Limited	113.	4509	M/s. Rajdhani Housing Syndicates Private Limited
89.	4066	M/s. Spark Chit Fund and Finance Private Limited	114.	4568	M/s. Envoys (India) Private Limited
90.	4072	M/s. Graduate Traders Financiers and Fund Private Limited	115.	4752	M/s. Amalgamated Machines Private Limited
91.	4092	M/s. Duggal Finance Private Limited	116.	4875	M/s. Angja Private Limited
92.	4095	M/s. Mensfield Financiers Private Limited	117.	5785	M/s. Viman Engineerings and Co. Private Limited
93.	4105	M/s. Navrattan Chit Fund and Finance Company Private Limited	118.	6199	M/s. Data Conversion Systems Private Limited
94.	4120	M/s. Meefin Financiers and Traders Private Limited	119.	6337	M/s. Auto Controls Private Limited
95.	4125	M/s. Ekco Finance and Chit Fund Private Limited	120.	6425	M/s. Arun Land Finance Company Private Limited
96.	4134	M/s. Punjab Wire and General Industries Private Limited	121.	6575	M/s. Angoro Spinning Weaving and Knitting Mills Private Limited
97.	4141	M/s. Excavators (India) Private Limited	122.	6598	M/s. Apex Investments Private Limited
98.	4150	M/s. Koh-I-Noor Landed Estates Private Limited	123.	6770	M/s. Harsha Industries Private Limited
99.	4183	M/s. Karolbagh Financiers Private Limited	124.	6822	M/s. Ashiana Caterers Private Limited
100.	4194	M/s. Smaxco Finance Private Limited	125.	7015	M/s. Avon Chemicals and Adhesives Private Limited
101.	4196	M/s. Malkani Finance and Chit Fund Private Limited	126.	7516	M/s. Alka Textile Private Limited
102.	4202	M/s. Eros Finance and Chit Fund Private Limited	127.	7522	M/s. Aparna Textiles Private Limited
103.	4203	M/s. Motor Traders Benefit Chit Fund and Financiers Private Limited	128.	7563	M/s. Atul Earthmovers Private Limited
104.	4206	M/s. Latex Industries Private Limited	129.	7688	M/s. Ashish Plastics Private Limited
105.	4212	M/s. Solar Food Industries Private Limited	130.	7727	M/s. Didi Modes Private Limited
106.	4218	M/s. Gandhi Nagar Chit Fund Private Limited	131.	7783	M/s. Aurochem (India) Private Limited
107.	4264	M/s. Aggarwal Instalments and Chit Fund Company Private Limited	132.	7901	M/s. Vikash Enterprises Private Limited
108.	4431	M/s. Paramount Construction Private Limited	133.	8024	M/s. Ajanta Roadways and Traders Private Limited
109.	4451	M/s. High Polymers Private Limited	134.	8079	M/s. Anupam Textiles Private Limited
110.	4465	M/s. Industrial and Financial Consultants Private Limited	135.	8264	M/s. Adarsh Marketing Private Limited
			136.	8359	M/s. Sundew Chemical Industries Private Limited
			137.	8576	M/s. Alfa Impex Private Limited
			138.	8810	M/s. Amnco Engineers Private Limited
			139.	8841	M/s. Academy Travel and Tours Private Limited
			140.	8868	M/s. Adventure Tours and Travels Private Limited

1	2	3	1	2	3
141.	8925	M/s. Asoka Pneumatics Forgers Private Limited	170.	11690	M/s. Akay Fanex Electric Private Limited
142.	8981	M/s. Anil Machine Tools Private Limited	171.	11787	M/s. Aprajita Architects and Advertisers Private Limited
143.	9421	M/s. Mexx Exports Private Limited	172.	11831	M/s. Nitin Builders Private Limited
144.	9526	M/s. Advance Security Services and Management Private Limited	173.	11880	M/s. Apollo Land and Housing Co. Private Limited
145.	9613	M/s. Anamika Chit Fund Private Limited	174.	12560	M/s. Kapur Trading Private Limited
146.	9733	M/s. Ariba Private Limited	175.	13011	M/s. Radhu Exhibitors Private Limited
147.	9920	M/s. Akhand Chit Savings and Investments Private Limited	176.	14938	M/s. AN Goods Private Limited
148.	10180	M/s. Ancelco Limited	177.	15388	M/s. Atiglina Builders Private Limited
149.	10196	M/s. Avaran Exports Private Limited	178.	16992	M/s. Rank Leasing and Finance Limited
150.	10228	M/s. All Steels Private Limited	179.	17094	M/s. Esaarpee Advertising Private Limited
151.	10232	M/s. Adams Creations Private Limited	180.	18245	M/s. Samaj Commercial and Finance Limited
152.	10313	M/s. Agarwals Auto Road Carriers Private Limited	181.	18304	M/s. Sollins Overseas Private Limited
153.	10320	M/s. Anant Construction Private Limited	182.	18328	M/s. Indana Exports Limited
154.	10331	M/s. Aman Properties Private Limited	183.	18600	M/s. Novex Engineering Company Private Limited
155.	10455	M/s. Ashwini Kumar Consultants Private Limited	184.	18611	M/s. Sunlight Builders Limited
156.	10480	M/s. Akhilesh Ice and Cold Storage Private Limited	185.	18612	M/s. Silverline Properties Limited
157.	10664	M/s. Alert Finance and Chit Fund Private Limited	186.	18682	M/s. Madhuban Leasing Limited
158.	10938	M/s. ATS Travel Services Private Limited	187.	19013	M/s. Shiv Om House Private Limited
159.	10994	M/s. Atul Consultants Private Limited	188.	19479	M/s. East West Representatives Company Private Limited
160.	11041	M/s. Avin Consultants Private Limited	189.	20571	M/s. Hazuria Photographics Private Limited
161.	11045	M/s. Aalok Packaging Industries Private Limited	190.	21389	M/s. Konark Udyog Limited
162.	11126	M/s. Super Temp Engineers Private Limited	191.	21795	M/s. Orient Pipes and Tubes Private Limited
163.	11226	M/s. Avee Exports Private Limited	192.	23010	M/s. Elko Chits Private Limited
164.	11287	M/s. Allied Insulators and Engineers Private Limited	193.	23904	M/s. Duasons Sales Private Limited
165.	11300	M/s. Manchanda Properties Private Limited	194.	23906	M/s. PG Mediquip Limited
166.	11382	M/s. Apsara Exports (India) Private Limited	195.	23912	M/s. Addi Farms Limited
167.	11383	M/s. Akal Chit Fund Private Limited	196.	24158	M/s. Northern Contractors Private Limited
168.	11488	M/s. Arthur Reid Private Limited	197.	24169	M/s. 21st Century Leasing Limited
169.	11617	M/s. Shastri Barax and Chemicals Private Limited	198.	24319	M/s. Capri Cosmetics Limited
			199.	24682	M/s. Shakt Finance Limited
			200.	25129	M/s. Oswal Management and Finance Consultancy Limited

1	2	3	1	2	3
201.	25136	M/s. B. M. Oswal Krafts Private Limited	234.	30713	M/s. Abhimanyu Chits Private Limited
202.	25144	M/s. Trak Properties Private Limited	235.	30724	M/s. Avia Marketing Private Limited
203.	25605	M/s. Surya Textiles Mills Limited	236.	30738	M/s. A. S. Contractors Private Limited
204.	26400	M/s. K. M. Agencies Private Limited	237.	30971	M/s. Alpine Chits Private Limited
205.	26650	M/s. Boniyaad Credit and Finance Limited	238.	31239	M/s. Arti Credits and Transport Private Limited
206.	27038	M/s. Buniyad Finance and Investment Limited	239.	31303	M/s. Akshra Chits Private Limited
207.	27051	M/s. S. R. Kapur and Sons Limited	240.	31321	M/s. B. R. Maheswari Consultants Private Limited
208.	27070	M/s. Atri Financiers Private Limited	241.	31322	M/s. AGA Low Cost Housing Private Limited
209.	27147	M/s. Yukon Fragrances Private Limited	242.	31396	M/s. Amar Oxide and Chemicals Private Limited
210.	27229	M/s. Ambitions Foods Private Limited	243.	31458	M/s. A J Associates Private Limited
211.	27488	M/s. A. D. Chemicals Private Limited	244.	31628	M/s. AAA Life Drugs Private Limited
212.	27620	M/s. R. B. Fabrics Private Limited	245.	31663	M/s. Archis Cape Design Centre Private Limited
213.	27629	M/s. Aawaz Chits Private Limited	246.	33755	M/s. Aakriti Communications Limited
214.	27719	M/s. Archinta Associates Private Limited	247.	33920	M/s. Mohan Seko Limited
215.	27782	M/s. Amrit Plantation Private Limited	248.	35966	M/s. Unistrut Construction Engineers Private Limited
216.	27855	M/s. Archives Publishers Private Limited	249.	36989	M/s. Accompany Chits Private Limited
217.	27860	M/s. A. K. Credits Private Limited	250.	37273	M/s. Advantage Marketing Private Limited
218.	27948	M/s. Prayag Medical Diagnostics Services Limited	251.	37525	M/s. Afrik Travels Private Limited
219.	28116	M/s. Adinath Chit Fund Co. Private Limited	252.	37605	M/s. Abhivadan Chits Private Limited
220.	28563	M/s. Apex Design and Engineering Services Private Limited	253.	37687	M/s. Camlow Equipment (India) Private Limited
221.	28633	M/s. Adventure Holiday Resorts Private Limited	254.	38951	M/s. Phoenix Biotech Limited
222.	29343	M/s. Mohan Hokke Limited	255.	39432	M/s. Nipa Tools Private Limited
223.	29374	M/s. Asair Rains Hygenic Private Limited	256.	40240	M/s. Triveni Digital Systems Private Limited
224.	29812	M/s. Anuj Chits Private Limited	257.	43264	M/s. Afzal Chit Fund Private Limited
225.	29835	M/s. A. J. Knitting Mills Private Limited	258.	43428	M/s. Aagman Chits Private Limited
226.	29856	M/s. Mudra Marketing Private Limited	259.	43700	M/s. Sushim Traders Private Limited
227.	29877	M/s. A. M. R. F. Chits Private Limited	260.	43834	M/s. Amitabh Manchanda Knowledge Centres Private Limited
228.	29888	M/s. A. L. Gases Private Limited	261.	43864	M/s. Arambh Chits Private Limited
229.	30011	M/s. Arron Chit Fund Private Limited	262.	43872	M/s. Ambitious Chits Fund Private Limited
230.	30266	M/s. Airfast Cargo and Courier Private Limited	263.	43917	M/s. Zia Impex Private Limited
231.	30494	M/s. Aster Properties Private Limited			
232.	30568	M/s. Alfa Holdings Private Limited			
233.	30618	M/s. Ankuampa Chit Fund Private Limited			

1	2	3	1	2	3
264.	43952	M/s. Akshay Foods and Beverages Private Limited	295.	47467	M/s. A to Z Advertising Private Limited
265.	44142	M/s. Aviv Pharmaceuticals Private Limited	296.	47554	M/s. Ashvraj Leasing and Finance Private Limited
266.	44288	M/s. ARA Valley Golf and Country Club Private Limited	297.	47583	M/s. Adarsh Garment Private Limited
267.	44302	M/s. Amco Chit Fund Private Limited	298.	47706	M/s. Alex Exports Private Limited
268.	44364	M/s. Almighty Chits Private Limited	299.	47725	M/s. Mohan Softwares Private Limited
269.	44375	M/s. Amol Chemicals Laboratories Private Limited	300.	48130	M/s. Adnan Textiles Private Limited
270.	44680	M/s. Atri Chits Private Limited	301.	48146	M/s. Asteroids Finance Private Limited
271.	44719	M/s. Amuka Chits Private Limited	302.	48454	M/s. Annie Whiteline Appliances Private Limited
272.	44727	M/s. Avenue Impex Private Limited	303.	49260	M/s. Aristocrate Detective Agency Private Limited
273.	44807	M/s. Akash Plants and Seeds Private Limited	304.	49679	M/s. Okhla Auto Private Limited
274.	44837	M/s. Akhand Jyoti Chits Private Limited	305.	49777	M/s. A I Khaleej Exports Private Limited
275.	44973	M/s. A. M. Nayar and Associates Private Limited	306.	49808	M/s. Amrita Health Services Private Limited
276.	45007	M/s. Allgarh Chits Private Limited	307.	50374	M/s. Aston Interlining Private Limited
277.	45113	M/s. Shipra Overseas Private Limited	308.	50385	M/s. A C Scan Hawk Private Limited
278.	45121	M/s. Aadi Trade and Investment Private Limited	309.	50429	M/s. Ambe Oil Mill Private Limited
279.	45153	M/s. Acura Chits Private Limited	310.	50578	M/s. Antro-Day Housing and General Finance Private Limited
280.	45268	M/s. ARG Investments Private Limited	311.	50655	M/s. Archies Consultants Private Limited
281.	45412	M/s. R. J. Garment Exports Private Limited	312.	50698	M/s. Abhay Carriers Private Limited
282.	45642	M/s. Anandee Medical Centre Private Limited	313.	51144	M/s. V. S. Distributors Private Limited
283.	45737	M/s. Aakriti Cine Media Private Limited	314.	51243	M/s. Aarman Softech Private Limited
284.	45862	M/s. Ashirwad Exports Private Limited	315.	51351	M/s. Ambassador Properties Private Limited
285.	45970	M/s. Aquireous Chits Private Limited	316.	51364	M/s. Agarwal Media Private Limited
286.	46020	M/s. Amtrek Traders Private Limited	317.	51395	M/s. A. E. S. Consultants Private Limited
287.	46215	M/s. Aparna Estates Private Limited	318.	51664	M/s. Achates Securities and Financial Services Private Limited
288.	46218	M/s. Apsara Estates Private Limited	319.	51828	M/s. Toyota Exports Limited
289.	46333	M/s. Amazon Packers and Movers Private Limited	320.	51830	M/s. A. A. P. Electricals Private Limited
290.	46516	M/s. Anurag Consultants Private Limited	321.	51990	M/s. Fair Exports Limited
291.	46649	M/s. Arpel Exports Private Limited	322.	52020	M/s. Periwal Cement Limited
292.	46867	M/s. Jai Mata Leasing Limited	323.	52120	M/s. Showtime International Network Limited
293.	47013	M/s. Akam Chits Private Limited	324.	52227	M/s. Tera Taste Foods Limited
294.	47085	M/s. ACW Chit Fund Private Limited	325.	52802	M/s. Ankur Portfolio Private Limited
			326.	53031	M/s. Aashima Chits Private Limited

1	2	3	1	2	3
327.	53058	M/s. Usha Petro Limited	358.	60115	M/s. Aryaman Share Registry Limited
328.	53136	M/s. Adharshila Knitcrafts Private Limited	359.	60252	M/s. Rakesh Wares Private Limited
329.	53235	M/s. Arts Computers (India) Private Limited	360.	60287	M/s. Suhaag Banquet Private Limited
330.	53365	M/s. Anjal Chits Private Limited	361.	61918	M/s. Allied Nippon Engineering Private Limited
331.	53374	M/s. AR Communication System & Security Network Private Limited	362.	62244	M/s. Associated Exports Limited
332.	53441	M/s. Allied Clearing Private Limited	363.	62432	M/s. Greenhill Exports Limited
333.	53613	M/s. Applause Chits Private Limited	364.	62991	M/s. Sidh Credits & Capitals Limited
334.	53968	M/s. Ananke EDP Services Private Limited	365.	65041	M/s. Swami Metal Company Private Limited
335.	53992	M/s. ASG Pharma Private Limited	366.	65317	M/s. Octagon International Limited
336.	54343	M/s. A. K. Peripherals Private Limited	367.	65389	M/s. Octagon Financial Services Limited
337.	54348	M/s. Aarti Calculators Private Limited	368.	66186	M/s. Eastern Floritech Limited
338.	54646	M/s. AVG Capital Services Private Limited	369.	66729	M/s. Dsoi Financial and Capital Services Limited
339.	55002	M/s. Country Classics Limited	370.	67332	M/s. Goldstar Engineers Private Limited
340.	55098	M/s. Ambrosia Chits Private Limited	371.	67565	M/s. Coated Papers India Limited
341.	55273	M/s. Ajit Nath Chit Fund Private Limited	372.	67823	M/s. Octagon Copper Limited
342.	55407	M/s. Annu Shakti Chit Fund Company Private Limited	373.	68004	M/s. BMW Finlease Limited
343.	55467	M/s. Voice Information System India Limited	374.	68460	M/s. Chelsea Tea Private Limited
344.	55857	M/s. All Time Chits Private Limited	375.	68466	M/s. RSC Financial Services Limited
345.	55868	M/s. Anil Damara Financial Services Private Limited	376.	68735	M/s. Vicom Fincap Limited
346.	56015	M/s. Aema Investments Private Limited	377.	69164	M/s. Jacob Housing and Estates Private Limited
347.	56080	M/s. A. V. and H. Advertising and Marketing Private Limited	378.	69789	M/s. Procon Finvest Services Limited
348.	56140	M/s. Anchal Chit Fund Private Limited	379.	70155	M/s. Success Securities and Finvest Limited
349.	57048	M/s. Sri Satnarayan Finlease Limited	380.	70167	M/s. Gold Grain Alcohols Limited
350.	57132	M/s. Botanix-India Private Limited	381.	70352	M/s. CMTV India Private Limited
351.	57216	M/s. A. T. Holdings Private Limited	382.	70484	M/s. Sham Bhavi Securites Limited
352.	57476	M/s. Subhra Chem Private Limited	383.	70486	M/s. Vogue Financial Limited
353.	57532	M/s. Singup Associates Private Limited	384.	70741	M/s. DLF Infrastructure Limited
354.	57589	M/s. P. A. M. Capital Services Private Limited	385.	70834	M/s. Udichi International Industries Limited
355.	58663	M/s. Radin Financial Services Limited	386.	71054	M/s. Sabhaya Financial Services Private Limited
356.	58670	M/s. Colosseum International Limited	387.	71755	M/s. SRV Exports Private Limited
357.	59700	M/s. Agma Credit & Leasing Private Limited	388.	71986	M/s. NAL India Limited

1	2	3	1	2	3
389.	72268	M/s. Suceess Airways Limited	421.	85021	M/s. Dixit Properties Private Limited
390.	72273	M/s. Sarvodaya Hightech Medicare Limited	422.	85374	M/s. AKD Investments Private Limited
391.	72346	M/s. JVS Capital Limited	423.	87230	M/s. Primrose Consultants Private Limited
392.	72347	M/s. Vee Pee Capital Services Limited	424.	87621	M/s. Ramb Finance and Investment Company Private Limited
393.	72465	M/s. Makker Engineers Private Limited	425.	88260	M/s. Krishna Sons Bearing Private Limited
394.	72513	M/s. Suave Fincap and Industries Private Limited	426.	88341	M/s. J. K. Software and Solutions Limited
395.	72673	M/s. Sybly Chemicals Limited	427.	88552	M/s. Mahamaya Automobiles India Private Limited
396.	72675	M/s. Sybly Cellulose Limited	428.	88990	M/s. Radiant Consultancy Services Private Limited
397.	72676	M/s. Sybly Pharmaceuticals Limited	429.	89162	M/s. Indus Spice and Herbs Limited
398.	72677	M/s. Sybly Rubbers Limited	430.	89481	M/s. Buhrmann Singh Creative Learning (Asia Pacific) Private Limited
399.	72678	M/s. Sybly Metals & Allied Industries Limited	431.	89557	M/s. Rama Chits Private Limited
400.	72679	M/s. Sybly Synthetics Limited	432.	89599	M/s. Road Security India Private Limited
401.	74370	M/s. Satyam Shares Portfolio Limited	433.	89826	M/s. D. S. Carpet Arts Private Limited
402.	74756	M/s. Net Plex (India) Private Limited	434.	90976	M/s. Primus Mercantiles Private Limited
403.	75695	M/s. Morpheus Infotech Private Limited	435.	91091	M/s. Polyplastics Asia Pacific (India) Private Limited
404.	76955	M/s. Sakhi Jewellers Private Limited	436.	91875	M/s. N. G. Power System Private Limited
405.	76961	M/s. Gemini Finsec Limited	437.	92064	M/s. Lubrication Engineers India Private Limited
406.	76990	M/s. Maruti Sales and Services (India) Private Limited	438.	93310	M/s. Panwar Chit Fund Private Limited
407.	77066	M/s. S. I. Chits Private Limited	439.	93312	M/s. People Com India Private Limited
408.	78194	M/s. Integrated Teleacc Private Limited	440.	93328	M/s. Bloom Infotech Limited
409.	78347	M/s. Fibre International Private Limited	441.	94162	M/s. Lexicon Events and Promotions Limited
410.	79178	M/s. Bukhari Agro Farms Limited	442.	94527	M/s. David Bellamy and Associates Private Limited
411.	80233	M/s. Integrated Share Services Limited	443.	94814	M/s. Arco Energy India Private Limited
412.	80569	M/s. International Industrial Development Consultants Private Limited	444.	94878	M/s. SPN Impex (India) Private Limited
413.	81284	M/s. Equal Chits Private Limited	445.	95132	M/s. Medstone International India Private Limited
414.	81661	M/s. Konark Financial Services Private Limited	446.	95693	M/s. Usha Telenet Private Limited
415.	81722	M/s. Rajdhani Agriculture Limited	447.	96228	M/s. Nagender Bros. Builders Private Limited
416.	81803	M/s. Recross Finance & Leasing Private Limited	448.	96405	M/s. Kuldeep Farms Private Limited
417.	81872	M/s. Prestigious Marketing Limited	449.	98983	M/s. Shany Estates Private Limited
418.	81949	M/s. Affluent Finance Limited			
419.	84151	M/s. Ragi Health Care Private Limited			
420.	84558	M/s. Hearwell Finance and Leasing Limited			

1	2	3	1	2	3
450.	99354	M/s. CDG Publications Private Limited	480.	111965	M/s. Success Technologies Private Limited
451.	99356	M/s. On M Finlease Limited	481.	112726	M/s. CSR world Consulting Private Limited
452.	100924	M/s. CDG Multimedia Production Private Limited	482.	112852	M/s. A. G. Insurance Services Private Limited
453.	101731	M/s. Lal Consulting Private Limited	483.	113056	M/s. Arising Horizons Marketing Private Limited
454.	102122	M/s. Trout Consulting Private Limited	484.	113108	M/s. Amero Tea Company Private Limited
455.	102701	M/s. Get Smart Systems (India) Private Limited	485.	113165	M/s. Adequate Network Private Limited
456.	103023	M/s. Auroprobe Laboratories Private Limited	486.	113183	M/s. Ankit Telefilms Private Limited
457.	103347	M/s. Itil Online Private Limited	487.	113338	M/s. Aapka Health Guard Services Private Limited
458.	103735	M/s. Sagar Coats India Private Limited	488.	113410	M/s. Baba Le-Crafts Private Limited
459.	104523	M/s. Delhi Institute of Medical Transcription Private Limited	489.	113470	M/s. Ajeney Hotels Resorts and Palaces Private Limited
460.	104641	M/s. Been Securities Private Limited	490.	113485	M/s. Five Star Exim Private Limited
461.	105508	M/s. Amco Consultancy Private Limited	491.	113522	M/s. Prasad Stationers Private Limited
462.	106175	M/s. Iris Laboratories Private Limited	492.	113864	M/s. Astro Vastu Soultions Private Limited
463.	106328	M/s. Connect Information Technology Private Limited	493.	113909	M/s. Teralink Opticals Fiber Limited
464.	106691	M/s. Saba Designer Collections Private Limited	494.	113992	M/s. Link to Link Networking Private Limited
465.	107475	M/s. Chirag Delhi Traders Private Limited	495.	114184	M/s. Trikuta Factors Private Limited
466.	107572	M/s. Flag Network India Private Limited	496.	114862	M/s. H R Network Private Limited
467.	108033	M/s. J Cast Networks (India) Private Limited	497.	114983	M/s. Avion Toys Private Limited
468.	108100	M/s. Hals Impex Private Limited	498.	114988	M/s. Adequate Online Shoppers Private Limited
469.	108546	M/s. Vikas Puri Club Limited	499.	115131	M/s. Aesthetic Advertising Private Limited
470.	108615	M/s. Om Zevar Palace Private Limited	500.	115191	M/s. A2Z Multimark Private Limited
471.	108728	M/s. Apna Motels Private Limited	501.	115232	M/s. A V R Technologies Private Limited
472.	108955	M/s. DCG Consultants Private Limited	502.	115254	M/s. ACE Arts Private Limited
473.	109643	M/s. Open Transcription Services India Limited	503.	115335	M/s. Taxpayers Clubs Services Private Limited
474.	109677	M/s. Primus India Internet Services Private Limited	504.	115354	M/s. Advantage 4Ever Marketing Private Limited
475.	110292	M/s. Softalysis Infotech Private Limited	505.	115477	M/s. Arvo Herbals Private Limited
476.	110595	M/s. Pala Computers Private Limited	506.	115512	M/s. ARS Brassco Private Limited
477.	110704	M/s. Deldam Software Private Limited	507.	115569	M/s. Ardent Solutions Private Limited
478.	111389	M/s. ABX Diagnostics India Private Limited	508.	115615	M/s. Fidelity Support Services India Private Limited
479.	111663	M/s. A A A Synthetic Leather Line Private Limited			

1	2	3	1	2	3
509.	115616	M/s. Fidelity International Services Private Limited	535.	120469	M/s. Pramod Furnishings Private Limited
510.	115617	M/s. Fidelity International Resources India Private Limited	536.	120724	M/s. Paramba Marketing Private Limited
511.	115637	M/s. Accrument Marketing Private Limited	537.	121443	M/s. Aarshim Trading Private Limited
512.	115638	M/s. Amex Shipping Private Limited	538.	121553	M/s. Annex Estates and Corridor Private Limited
513.	115646	M/s. Annie-Anjali Exports Private Limited	539.	121674	M/s. Ariane Kraft Private Limited
514.	115745	M/s. Amaze Solutions Private Limited	540.	121877	M/s. ATN Multi Network Marketing Private Limited
515.	115758	M/s. Soul Enriching Seminars Private Limited	541.	121879	M/s. Aeon Pharma Private Limited
516.	115782	M/s. Adi Technologies Private Limited	542.	121977	M/s. A. T. Graphtech Private Limited
517.	115870	M/s. Ad-Tech Advertising Private Limited	543.	121983	M/s. Abbas Brothers Data Solutions Private Limited
518.	115919	M/s. Aeon Aegis Marketing Private Limited	544.	122094	M/s. A.K.S. Exim Private Limited
519.	115956	M/s. A K V Marketing Private Limited	545.	122156	M/s. Anushree Exim Private Limited
520.	116518	M/s. Alchems Systems Private Limited	546.	122181	M/s. Ayush Machines Private Limited
521.	116545	M/s. Amba Security Services Private Limited	547.	122226	M/s. Anu Numberspeak Analytics Private Limited
522.	116616	M/s. Aayurwaves Herbals Private Limited	548.	122280	M/s. Amir Road Lines Private Limited
523.	116833	M/s. Aurum Securitisation Services Private Limited	549.	122322	M/s. Anita Softech Marketing Private Limited
524.	116840	M/s. A4U Technologies Private Limited	550.	122357	M/s. Accrete Foods Private Limited
525.	116861	M/s. Acharya Contractors and Engineers Private Limited	551.	122477	M/s. Art Immigration Consultancy Services Private Limited
526.	116877	M/s. Alvi Wood Crafts Private Limited	552.	122529	M/s. Assort Insurance Agencies Private Limited
527.	117837	M/s. AM Datacom Systems Private Limited	553.	122658	M/s. Aanda Enviro Consol Private Limited
528.	118383	M/s. Srishti Buildengineers Private Limited	554.	122694	M/s. Acme House-Keeping Private Limited
529.	119117	M/s. Ansho India Private Limited TRS Form Mah To Delhi	555.	122701	M/s. Amulya Multi Trade Link Private Limited
530.	119205	M/s. Telepoint Distribution (India) Private Limited	556.	122702	M/s. Auroprobe Research Institute Private Limited
531.	119589	M/s. GSSB Enterprises Private Limited	557.	122731	M/s. Arrow Protection and Detective Private Limited
532.	119752	M/s. FMCG Healthcare (India) Private Limited	558.	122763	M/s. A.G. Info Trust Consulting Services Private Limited
533.	120107	M/s. Melson and Melson Formulations Limited	559.	122851	M/s. Sati Mata Agro Private Limited
534.	120324	M/s. Chiron Consultants Private Limited	560.	122961	M/s. Absolute Metal Recovery Equipments Private Limited
			561.	122971	M/s. Multi Dimentional Resource Solutions Private Limited
			562.	123120	M/s. Advertal Corporate Solutions Private Limited
			563.	123294	M/s. Arish Pharmaceuticals Private Limited

1	2	3	1	2	3
564.	123306	M/s. A.D.D. Lab Instruments Private Limited	592.	129073	M/s. Amsoft Telecom Systems Private Limited
565.	123338	M/s. Akshat Blossoms Private Limited	593.	129101	M/s. Gurugranth Software Research Private Limited
566.	123535	M/s. Anita Medicare Hospitals Private Limited	594.	129133	M/s. Active Online Education Private Limited
567.	123705	M/s. Ambey Agriculture Private Limited	595.	129255	M/s. Astonia Impex Overseas Private Limited
568.	124063	M/s. Ankul Courier Private Limited	596.	129598	M/s. Detroit Clinics Private Limited
569.	124219	M/s. Aditya Netcom Private Limited	597.	130608	M/s. AMS Couriers Private Limited
570.	124268	M/s. Career Concepts Learning Centre Private Limited	598.	130694	M/s. Aries Energy Systems Private Limited
571.	124305	M/s. Malhotra Education Point Private Limited	599.	130745	M/s. Twinmos Technologies (India) Private Limited
572.	124790	M/s. Portdex Exim Private Limited	600.	130824	M/s. Awra Arts Private Limited
573.	124807	M/s. Sahibs Restaurants Private Limited	601.	130958	M/s. Alps Composite Services Private Limited
574.	124823	M/s. Excellent Human Resources Private Limited	602.	130964	M/s. A.R.S. Real Estates Private Limited
575.	124824	M/s. Brilliant Human Resources Private Limited	603.	131462	M/s. YMTR Autotech India Private Limited
576.	125313	M/s. S. S. R. K. Agencies Private Limited	604.	132443	M/s. Ash and Subh Exim Private Limited
577.	125640	M/s. Ankush Verma Trading and Marketing Company Private Limited	605.	132488	M/s. ASK Soft Solutions Private Limited
578.	126141	M/s. Mindwaves Infotech Private Limited	606.	132622	M/s. Aishwarya Contractors Private Limited
579.	126834	M/s. Neo-Creation Wears Private Limited	607.	132693	M/s. Max Merchandising Private Limited
580.	127081	M/s. AME Designs Private Limited	608.	034073	M/s. Shiv Priya Chits Private Limited
581.	127168	M/s. ADX Couriers Private Limited	609.	107902	M/s. All India Links Network Private Limited
582.	127696	M/s. Flora Buildwell Private Limited	610.	110134	M/s. KTI Manufacturing Limited
583.	127738	M/s. Molecular Imaging Associates India Private Limited	611.	116106	M/s. Advance Protection and Investigations Private Limited
584.	128301	M/s. Astha Exi and Promoters Private Limited	612.	116126	M/s. Apex Syscom Private Limited
585.	128482	M/s. Ashnit Creations Private Limited	613.	116144	M/s. Archana Holographics Private Limited
586.	128558	M/s. Accel Outsourcing Private Limited	614.	116190	M/s. A. R. Communication Private Limited
587.	128644	M/s. Adeptech Corporate Solutions Private Limited	615.	116196	M/s. Samanvay Design Private Limited
588.	128685	M/s. ABM Packaging Private Limited	616.	116241	M/s. Excelife Communications Private Limited
589.	128890	M/s. Magadh Distributors and CNF Agent Private Limited	617.	122441	M/s. Abri Formulations Private Limited
590.	129008	M/s. Arrowhead Info Solutions Private Limited	618.	132855	M/s. AKG Buildcon Private Limited
591.	129009	M/s. Arian Garment Exports Private Limited	619.	132893	M/s. Accolade Events Private Limited
			620.	133009	M/s. ADF Marketing Private Limited
			621.	133016	M/s. Ambaji Buildcon Private Limited
			622.	133122	M/s. Ad-Vantage Publicity Private Limited

1	2	3
623.	133191	M/s. Amrit Security and Allied Services Private Limited
624.	133263	M/s. Inrus Impex Private Limited
625.	133337	M/s. Antares Mines Private Limited
626.	133345	M/s. Alesco Marketing Private Limited
627.	133353	M/s. Boparai Drilling and Constructions Private Limited
628.	133379	M/s. APS DSA Solutions Private Limited
629.	133459	M/s. Achiever Dreamsoft Private Limited
630.	133670	M/s. Alcore Softech Private Limited
631.	134177	M/s. Awadh Road Carriers Private Limited
632.	134279	M/s. Al-Khaleej Tours and Travels Private Limited
633.	134356	M/s. Ankit Educational Private Limited
634.	134400	M/s. Anmol Fashions Private Limited
635.	134433	M/s. AIM IT and Management Services Private Limited
636.	134591	M/s. Cyberedge Infosystems Private Limited
637.	005750	M/s. Apollo Batteries Private Limited
638.	006202	M/s. Atul Ispat Industries Private Limited
639.	064857	M/s. Himachal Tourist Limited
640.	064889	M/s. Manglam Steels Private Limited
641.	065805	M/s. Priyal Exports Limited
642.	065857	M/s. Mahabir Vanaspati Limited
643.	142144	M/s. Anupriya Contracts Private Limited
644.	135367	M/s. Arino Denso Electricals Private Limited
645.	134726	M/s. Atul Buildwell Private Limited
646.	134930	M/s. Antares Trades Private Limited
647.	135247	M/s. Aambience Creations Private Limited
648.	136570	M/s. Avyai Exim Private Limited
649.	135942	M/s. Lifestyle Medical Equipments Private Limited
650.	143116	M/s. MMS Agro Private Limited
651.	141986	M/s. AAA Sales Private Limited
652.	142146	M/s. AAA Metal and Minerals Private Limited
653.	142117	M/s. Amafhha Softech Systems Private Limited

1	2	3
654.	143691	M/s. Nu Wembley Paints Limited
655.	139203	M/s. AVI Corporate Solutions Private Limited
656.	142273	M/s. AA Telecall Private Limited
657.	142244	M/s. Alliant Computer System Private Limited
658.	141865	M/s. Avis Advertising and Media Private Limited
659.	137146	M/s. Aroma Buildwell Private Limited
660.	138979	M/s. Abhinav Auto Parts Private Limited
661.	136423	M/s. Ayush Buildtech Private Limited
662.	137312	M/s. Accelerated Consulting Engineers Private Limited
663.	140002	M/s. Information Gateways IT Services Private Limited (100% F.S. Co.)
664.	137432	M/s. AKG Infrastructure Private Limited
665.	137787	M/s. ASP Medicine Shoppee Private Limited
666.	134716	M/s. Delite Computerised Embroidery Private Limited
667.	137439	M/s. AMR Electricals Private Limited
668.	137426	M/s. A. S. Infotech Private Limited
669.	137401	M/s. Anuj Computer Education System Private Limited
670.	137399	M/s. Axiom Fashions Private Limited
671.	136719	M/s. Ajay Deep Realtors Private Limited
672.	137748	M/s. Aadhunik Buildwell Private Limited
673.	137603	M/s. Sethi Floriculture Private Limited
674.	134962	M/s. Cyberedge Inforsystems Private Limited
675.	136516	M/s. Amethest Inforcom Private Limited
676.	136469	M/s. Alfa Softnet Private Limited
677.	140845	M/s. Golden Turtle Education and Carriers Private Limited
678.	140853	M/s. Fidelia Software Private Limited
679.	140215	M/s. Shimanu Consultants Private Limited
680.	136274	M/s. Adhunik Infrastructure Private Limited
681.	140062	M/s. PGD Realtors Private Limited
682.	137161	M/s. ARM Tel-Technologies Private Limited

1	2	3	1	2	3
683.	137185	M/s. Ansharah Travel and Tours Private Limited	712.	145614	M/s. Embee Clothesline Private Limited
684.	136328	M/s. Shristi Urban Infrastructure Private Limited	713.	146223	M/s. Jagrut Consultant Private Limited
685.	138665	M/s. Amethyst Developers Private Limited	714.	146925	M/s. Trident International Exim Private Limited
686.	138603	M/s. Aerial Builders Private Limited	715.	147062	M/s. QSGI Technology Solutions India Private Limited
687.	136838	M/s. Anaica Infotech Private Limited	716.	002120	M/s. Anand Traders (Agents and Shippers) Private Limited
688.	138189	M/s. Andsons Engineers Private Limited	717.	002170	M/s. A. R. Palit and Company Private Limited
689.	137559	M/s. Alster Pharma Private Limited	718.	011185	M/s. Adini Marketing Private Limited
690.	137589	M/s. Croissance Entertainment Private Limited	719.	138523	M/s. Triom Tex and Trims Private Limited
691.	140299	M/s. Twill Textiles Private Limited	720.	140179	M/s. GSBC Mega Projects Private Limited
692.	134815	M/s. Alik Gupta Chits Private Limited	721.	140504	M/s. Brahm Datt Estate Private Limited
693.	135919	M/s. A.M. Datamatics Services Private Limited	722.	148922	M/s. Adhyatmik Developers Private Limited
694.	135481	M/s. Ganesh Data Systems Private Limited	723.	147767	M/s. Knowledge Graph Infolinks Private Limited
695.	134821	M/s. Adesh Builders Private Limited	724.	147567	M/s. Adalia Builders and Developers Private Limited
696.	135141	M/s. AWI Alloys Private Limited	725.	149956	M/s. M. P. Polyplast Private Limited
697.	139184	M/s. AGN Immigrations Private Limited	726.	150070	M/s. Vanco (India) Private Limited
698.	139128	M/s. Advait Electronics Private Limited	727.	150450	M/s. Infinite Hotels Private Limited
699.	139041	M/s. A.V.J. Fashions Private Limited	728.	150642	M/s. Pacific Digital Machines Private Limited
700.	136687	M/s. Fortunette Medicare (India) Private Limited	729.	151326	M/s. Leipzig Bearings Private Limited
701.	139069	M/s. Machaela J. Davies Exim India Private Limited	730.	151979	M/s. Netaquila Technologies Private Limited
702.	139077	M/s. Nu Gecom Info Solutions Private Limited	731.	152261	M/s. Orient Petro Trans Services Private Limited
703.	139058	M/s. Aryama Multi Traders Private Limited	732.	152327	M/s. Castle Structure Private Limited
704.	138599	M/s. Adivarun Metplast Private Limited	733.	152736	M/s. GP Packtech Private Limited
705.	136192	M/s. Vavi Combat Security Services Private Limited	734.	153877	M/s. Kreevs Online Shopping Private Limited
706.	138318	M/s. A. A. P. Engineering Private Limited	735.	154254	M/s. Infinite Softpro Private Limited
707.	147308	M/s. WNN Marketing Communications Private Limited	736.	154529	M/s. Netaquila Healthcare Information Services Private Limited
708.	141903	M/s. Hilltop Debt Management Private Limited	737.	155139	M/s. Moby Media Production Private Limited
709.	142895	M/s. Subnetwork BPO Private Limited	738.	155334	M/s. USH Resorts Private Limited
710.	143109	M/s. MRV Musics Private Limited	739.	155388	M/s. Nehal Builders Private Limited
711.	144198	M/s. Tuhina Real Estate Developers Private Limited			

1	2	3
740.	155400	M/s. Vihaan Realtors Private Limited
741.	155402	M/s. Revati Agri Estates Private Limited
742.	155425	M/s. Roma Infratech Private Limited
743.	156635	M/s. Amir Chand Developers Private Limited
744.	156696	M/s. Full Moon Apparels Private Limited
745.	156803	M/s. Apex Info Park Private Limited
746.	156813	M/s. Brownwood Softwares Private Limited
747.	157088	M/s. AC Scandinavia Services Private Limited
748.	157809	M/s. East West Comtel Private Limited
749.	158009	M/s. Doron Builders & Developers Private Limited
750.	158053	M/s. LE Shopping Bag Private Limited
751.	158087	M/s. Diantha Builders & Developers Private Limited
752.	158209	M/s. V 3S Marketing Private Limited
753.	158480	M/s. Potomac Mining Resources Private Limited
754.	158505	M/s. Mizu Builders & Constructions Private Limited
755.	159709	M/s. Payless Developers & Infrastructure Private Limited
756.	160387	M/s. Integrated Infra Log Private Limited
757.	160483	M/s. Ravjeet Developers & Infrastructure Private Limited
758.	160484	M/s. Skylink Developers & Infrastructure Private Limited
759.	161628	M/s. Timeus Builders & Developers Private Limited
760.	161629	M/s. Ilhana Builders & Developers Private Limited
761.	162171	M/s. Adhira Builders & Developers Private Limited
762.	162304	M/s. Kumbhari Builders & Developers Private Limited
763.	163069	M/s. Hanifah Builders & Developers Private Limited
764.	163167	M/s. CCR Pyramid India Private Limited
765.	163285	M/s. Yahavi Builders & Developers Private Limited
766.	164849	M/s. Beta Computech Private Limited

1	2	3
767.	164873	M/s. Sigma Infrabuild Private Limited
768.	164918	M/s. Zing Computech Private Limited
769.	165416	M/s. Bosley Builders & Developers Private Limited
770.	165448	M/s. Style Garments Private Limited
771.	165460	M/s. Symphony Automobiles Private Limited
772.	165461	M/s. Tempo Garments Private Limited
773.	165464	M/s. Vigorous Packaging Private Limited
774.	165468	M/s. Xion Engineering Private Limited
775.	165470	M/s. Hot Shot Garments Private Limited
776.	165471	M/s. Zeta Engineering Private Limited
777.	165476	M/s. Savor Food Private Limited
778.	037109	M/s. DLF Dwarka Convention Center Private Limited
779.	037128	M/s. DLF Rohini Hotels Private Limited
780.	037147	M/s. DLF Exotica Hotels Private Limited
781.	168456	M/s. Anjana Bhargav Designs Private Limited
782.	169141	M/s. DLF Minor Restaurants Private Limited
783.	169682	M/s. Titos Travels Private Limited
784.	171753	M/s. BS Broadcast and Communication Consultants Private Limited
785.	171949	M/s. DLF Limitless Real Estate Developers Private Limited
786.	175241	M/s. Budget Buildcon Hotels Private Limited
787.	175243	M/s. Budget Infracon Hotels Private Limited
788.	175299	M/s. Budget Nirman Hotels Private Limited
789.	038145	M/s. Contech Inforsystems Private Limited
790.	182379	M/s. HCL Technologies (Hyderabad) Limited
791.	182381	M/s. HCL Technologies (Bangalore) Limited
792.	182382	M/s. HCL Technologies (India) Limited
793.	182383	M/s. HCL Technologies (Kolkata) Limited
794.	182888	M/s. HCL Technologies (Nagpur) Limited
795.	162169	M/s. Kushadhara Builders & Developers Private Limited

1	2	3
796.	169405	M/s. Samaritan Secure Services Private Limited
797.	185425	M/s. HCL Technologies (Chennai) Limited
798.	075210	M/s. Raghu Travels Private Limited
799.	060344	M/s. Nircom Mattress and Cushion Limited
800.	188154	M/s. Sisis India Private Limited
801.	082738	M/s. Easy Stitch Private Limited
802.	022501	M/s. Jai Tech Private Limited
803.	066319	M/s. Jumbo Reinsurance Limited
804.	080246	M/s. Chetna Consultants Private Limited
805.	107975	M/s. A A Resource Development Support System Private Limited
806.	137282	M/s. A V Enrgytech Private Limited
807.	134715	M/s. Asha Built Co. Private Limited
808.	146745	M/s. Spine Netcom India Private Limited
809.	135878	M/s. Mav Information Technologies Private Limited
810.	142035	M/s. Aastha IT Solutions Private Limited
811.	115799	M/s. Vastras Global Private Limited
812.	059287	M/s. JSB Exports Private Limited
813.	142280	M/s. Apic Fashions Private Limited
814.	131404	M/s. Saroh Clean Engineers Private Limited
815.	118594	M/s. Manchanda Jewellers Private Limited
816.	046902	M/s. S. A. International Private Limited
817.	041093	M/s. Mrignaini Chits Private Limited
818.	112697	M/s. Outsource Methods (India) Private Limited
819.	128816	M/s. RNT Marketing Private Limited
820.	133799	M/s. Aaiyna Educational Institutions Private Limited
821.	124822	M/s. Perfect Human Resources Private Limited
822.	133160	M/s. Tripoint Software Systems Services (India) Private Limited
823.	122890	M/s. Arena Estates Private Limited
824.	020750	M/s. Timsi Chit Fund Private Limited

ATMA SAH
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. RTC (India) Private Limited

New Delhi-110 019, the 15th September 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00032—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. RTC (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

ASHOK KUMAR BEHL
Asstt. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Munich Information Technology Private Limited

New Delhi-110 019, the 27th September 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00182—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Munich Information Technology Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Technoplast Private Limited

New Delhi-110 019, the 4th October 2010

No. 560(3) 133397—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Technoplast Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

SANJAY SOOD
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Venus Exports Private Limited

New Delhi-110 019, the 4th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00212—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Venus Exports Private Limited unless cause is shown to the

contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VINAY KUMAR GUPTA
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hamar Pariwar Finance & Investment Private Limited

Patna, the 30th September 2010

No. ROC/PAT/560(3)/5029—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hamar Pariwar Finance & Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved.

O. P. SHARMA
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Patna, the 1st October 2010

No. ROC/PAT/560(3)EES-10—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	07526	M/s. Mayagiri Hotel Private Limited
2.	11414	M/s. Omad Consultants Private Limited
3.	01699	M/s. Govinda Finance & Construction Limited
4.	10504	M/s. Hut and Hill Constructions and Developers Private Limited
5.	07075	M/s. Leo Security Guard Agency Private Limited
6.	02410	M/s. S. M. Re-rolling Mills Private Limited
7.	09985	M/s. Manhattan Builders & Developers Private Limited
8.	10166	M/s. Plasma Marine Edu-Services Private Limited

1	2	3
9.	09176	M/s. Bihar Network Private Limited
10.	06619	M/s. Gharana Constructions Private Limited
11.	10495	M/s. Zen Construction Private Limited
12.	10906	M/s. Famica Builders and Developers Private Limited
13.	12896	M/s. Paradise Classes Private Limited
14.	07518	M/s. AK Nirman Private Limited
15.	06552	M/s. Rescon Financial Services Private Limited
16.	03328	M/s. Prans Chemicals Limited
17.	05976	M/s. Mahesh Projects Private Limited
18.	12509	M/s. Abert Laboratories Private Limited
19.	08227	M/s. Anis Drugs Private Limited
20.	02487	M/s. Nath Construction Private Limited
21.	02261	M/s. Manoj Engicons Private Limited
22.	02332	M/s. Sarvottam Synthetics Private Limited
23.	03094	M/s. Sri Tyre Retreads and Repairs Private Limited
24.	09435	M/s. Zeotec Health Care Private Limited
25.	12107	M/s. Samyug Construction & Developers Private Limited
26.	06396	M/s. Geetanjali Plantation (India) Limited
27.	02700	M/s. Harinarayan Automobiles Private Limited
28.	10795	M/s. Eshitwa Services Private Limited
29.	06659	M/s. Jamshedpur Steel Private Limited
30.	03087	M/s. Swarnarekha (Gold Line) Flour and Feed Mills Private Limited
31.	03738	M/s. Sharnam Engicons Private Limited
32.	11194	M/s. Unicare and Cure Pharma (India) Private Limited
33.	08109	M/s. Anubhav Steels Private Limited
34.	05901	M/s. Dakshayan Constructions Private Limited
35.	02857	M/s. Rukmini Vitrak Private Limited
36.	04240	M/s. Treadspin Retreaders Private Limited
37.	04646	M/s. Ashray Technocrats Private Limited

1	2	3	1	2	3
38.	07251	M/s. Parasmani Jyoti Finance Limited	65.	05473	M/s. Jeevanadhar Investments Company Limited
39.	07229	M/s. Sundarvan Agro Farms Private Limited	66.	11193	M/s. Doli Cultivation Private Limited
40.	11234	M/s. Samyak Medicare Private Limited	67.	06160	M/s. Polyactive Plantation & Developers Limited
41.	06968	M/s. Sukrit Investment (India) Limited	68.	05416	M/s. Polyactive Electrical & Electronics Private Limited
42.	05011	M/s. Softcorp Computers Private Limited	69.	12977	M/s. Laurel Dealers Private Limited
43.	10040	M/s. Anand Infovision Private Limited	70.	01962	M/s. Sharda Re-rolling Mill (Nalanda) Private Limited
44.	10509	M/s. Asthma Cure and Cure Pharmacy Private Limited	71.	05723	M/s. Sharven Enterprises Private Limited
45.	12659	M/s. V. K. Residency Private Limited	72.	06021	M/s. Yak Saving & Leasing India Limited
46.	06622	M/s. Arya Engicons Private Limited	73.	11289	M/s. Dinesh Narayan Audio and Marketing Private Limited
47.	06787	M/s. Shakambhari Securities Private Limited	74.	08145	M/s. Sunny Publication Private Limited
48.	09386	M/s. Vinaika Perfumery Private Limited	75.	07353	M/s. Laptun Diagnostic Private Limited
49.	03464	M/s. Anzac Pharmaceuticals Private Limited	76.	03354	M/s. Fusion Alloys Private Limited
50.	12763	M/s. Vasvi Securities Private Limited	77.	03513	M/s. Yashoda Coke Industries Private Limited
51.	06905	M/s. Parasmani Plantation & Cultivation Limited	78.	04328	M/s. Bihar Tannery Private Limited
52.	12762	M/s. Rajyavardhan Trading Private Limited	79.	05263	M/s. Giare India Finance Limited
53.	07220	M/s. Maruti Distributors Private Limited	80.	08098	M/s. Greenery Plantations (India) Limited
54.	12118	M/s. Ratnagarbha Minerals & Chemicals Private Limited	81.	09766	M/s. Foundation Insurance Consultancy Private Limited
55.	12117	M/s. Ratnapriya Minerals and Chemicals Private Limited	82.	09686	M/s. Abbsun Pharmaceuticals Private Limited
56.	13477	M/s. Hi-Tech Multicon Private Limited	83.	11258	M/s. Tutelage Technological India Private Limited
57.	12999	M/s. Agarani Investment Consultant Private Limited	84.	04287	M/s. Hajipur Construction Private Limited
58.	06474	M/s. Datasri Investment & Finance India Limited	85.	13468	M/s. Millow Software Private Limited
59.	02301	M/s. Shree Balaji (Salt Iodisation) Industries Private Limited	86.	09365	M/s. Prasad Consultants Private Limited
60.	11082	M/s. Arya Ingot Private Limited	87.	08110	M/s. Vinay Agro Forestry Private Limited
61.	00666	M/s. Progressive Motors Private Limited	88.	012145	M/s. Newjyoti Builders Comapny Private Limited
62.	11284	M/s. Millano Computer Services Private Limited	89.	09713	M/s. Jayanti Oral Cancer Research Institute Private Limited
63.	04255	M/s. Madhav Sharma Constructions Private Limited	90.	08653	M/s. Awas Griha Constructions Private Limited
64.	12602	M/s. West Circle Patna Cable Com Private Limited			

1	2	3	1	2	3
91.	10650	M/s. Jharkhand Rajrappa Marketing Private Limited	117.	06376	M/s. Jagat Plantation (India) Limited
92.	10003	M/s. Urwi Homes Private Limited	118.	05570	M/s. Darbari Investments Limited
93.	09778	M/s. Homoeopathic Concept Private Limited	119.	03652	M/s. Awaas Colonisers & Engineers Private Limited
94.	09828	M/s. Original Ayur Drugs Private Limited	120.	06795	M/s. Rituraj Homes Private Limited
95.	07083	M/s. Paramarth Agro Finance & Investment (India) Limited	121.	05155	M/s. Rituraj Plant Services Limited
96.	12061	M/s. Manvi Sales Private Limited	122.	10170	M/s. Anil Decorators & Caterers Private Limited
97.	04513	M/s. Green Park Estates Private Limited	123.	05957	M/s. Rituraj Savings & Finance Welfare Limited
98.	05883	M/s. Gambik Constructions Private Limited	124.	07129	M/s. Air-View Commercial Finance Private Limited
99.	11135	M/s. Aryan Agro Dairy Farming Private Limited	125.	04538	M/s. Janvest Finance Company Limited
100.	08509	M/s. Shackle Chain Industries Private Limited	126.	10351	M/s. Renu Agrico Cold Storage Private Limited
101.	09392	M/s. Vaidyanath Gaspoint Bottling Private Limited	127.	06477	M/s. Sudha Developers & Builders Private Limited
102.	02925	M/s. Surichi Roller Flour Mills Private Limited	128.	05373	M/s. Jhabar Impex Private Limited
103.	08165	M/s. Aadhar Aqua Agro Private Limited	129.	09579	M/s. Maa Shakambari Ispat Private Limited
104.	13181	M/s. Arsenal Consumer and Services Private Limited	130.	06286	M/s. The Great Bihar Finance Company Private Limited
105.	09694	M/s. Samind Biotech Private Limited	131.	10576	M/s. Barira Marketing Private Limited
106.	07854	M/s. Indus International India Company Limited	132.	08791	M/s. Gayatri Architech & Engineers Private Limited
107.	09556	M/s. Rhymes Distributor Private Limited	133.	10120	M/s. Bhuwaneshwari Homes Private Limited
108.	11225	M/s. Barun Kumar Singh Carrier Private Limited	134.	09539	M/s. Linnet Healthcare Private Limited
109.	02393	M/s. Ashiana Land Developments & Projects Private Limited	135.	12435	M/s. Santosh Kumar Chaubey Engineering Private Limited
110.	02563	M/s. Surchem Pharmaceuticals Private Limited	136.	09525	M/s. Compu Zone Technology Private Limited
111.	08381	M/s. Ashiana Grih Nirman Private Limited	137.	06733	M/s. Sunway India Finance Private Limited
112.	07107	M/s. Tata Nagar Cement Private Limited	138.	08692	M/s. Anurag Grain Products Private Limited
113.	01816	M/s. Quality Fasteners Private Limited	139.	05134	M/s. DJ Steel Processors & Traders Private Limited
114.	12133	M/s. Shankaram Health Care & Research (India) Private Limited	140.	10535	M/s. Kaveri Education Private Limited
115.	06234	M/s. Kejriwal Information & Computer Systems Private Limited	141.	07178	M/s. Cobra Intelligence Security Force Private Limited
116.	08072	M/s. Tohfa Farmings Limited	142.	06869	M/s. Larvi Komputronics Private Limited

1	2	3
143.	08888	M/s. Cito & Primo Chemical Industry Limited
144.	09598	M/s. Partech Education Private Limited
145.	08765	M/s. Maa Janki Films Private Limited
146.	01566	M/s. Pioneer Properties Private Limited
147.	01399	M/s. Ashiana Engineers Private Limited
148.	11329	M/s. Tripti Career Guidance Private Limited
149.	07221	M/s. Navyug Metals Private Limited
150.	08800	M/s. Shramik Enterprises India Private Limited
151.	05601	M/s. Poddar Technology Private Limited
152.	09981	M/s. ABN Instruments Private Limited
153.	12083	M/s. Dorabji Auto Private Limited
154.	05198	M/s. The Janvest Plantation Limited
155.	10247	M/s. Eureka Network Marketing Private Limited
156.	05327	M/s. Jyoti Retreads Private Limited
157.	01485	M/s. Goodgrip Tools Private Limited
158.	10394	M/s. Bharti and Sons Construction Private Limited
159.	07358	M/s. Virasat Films & Television Private Limited
160.	05947	M/s. Santushti Sales Private Limited
161.	10481	M/s. Gouri Motors and Services Private Limited
162.	10323	M/s. Reliable Spare Parts Marketing Private Limited
163.	10397	M/s. Om Shri Durga Auto Centre and Services Private Limited
164.	07689	M/s. Keshri Plastics Private Limited
165.	08937	M/s. Hemlata Agencies Private Limited
166.	03016	M/s. Utility Sales & Service Private Limited
167.	10324	M/s. Vertex Infrastructure Private Limited
168.	05535	M/s. Lomas Plantations Private Limited
169.	10348	M/s. Anpurna Sales Private Limited
170.	06758	M/s. Vibhra Impex Private Limited
171.	07011	M/s. Hattashati Finance Private Limited
172.	05203	M/s. Anon Leasing & Finance Services Limited

1	2	3
173.	10628	M/s. Tripti MacLife Marketing Private Limited
174.	10553	M/s. Gangotri Education Private Limited
175.	07122	M/s. Siddharth Leasing & Finance Company Private Limited
176.	10423	M/s. Aman Auto Centre and Services Private Limited
177.	10745	M/s. Madhu Gore Cold Storage Private Limited
178.	07703	M/s. Jatin Exim Private Limited

O. P. SHARMA
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Empire Recreations Private Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00050/14491—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Empire Recreations Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Barkha Software Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00051/14495—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Barkha Software Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vanashree Plantations Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00052/14497—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3)

of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vanashree Plantations Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Matashree Food and Agro Exports Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00057/14500—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Matashree Food and Agro Exports Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Matashree Finance and Capital Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00059/14503—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Matashree Finance and Capital Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Universal Pictures and Media Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00060/14506—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Universal Pictures and Media Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yogi Hospitals Treatment Centres Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00061/14509—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yogi Hospitals Treatment Centres Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhawan Pharmaceuticals Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00062/14512—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dhawan Pharmaceuticals Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ken Stock Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00063/14515—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ken Stock Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Indo-Israel Agrotech Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00065/14518—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Indo-Israel Agrotech Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Efcen Shares and Securities Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00066/14521—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Efcen Shares and Securities Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Global Technology and Investment Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00067/14524—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Global Technology and Investment Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pavapuri Stock Broking Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00069/14527—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pavapuri Stock Broking Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shreeji Caplease and Securities Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00076/14530—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shreeji Caplease and Securities Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gujarat Karamchari Housing Finance Corporation
Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00077/14533—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gujarat Karamchari Housing Finance Corporation Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Monarch Chemicals Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00087/14554—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Monarch Chemicals Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Monarch Healthcare Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00093/14557—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Monarch Healthcare Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Masura Threads Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00078/14536—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Masura Threads Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nakoda Investment Holdings Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00081/14539—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nakoda Investment Holdings Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jet Finlease Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00083/14542—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jet Finlease Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arrowac Finance Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00084/14545—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arrowac Finance Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Monarch Petro Chemicals Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00085/14548—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Monarch Petro Chemicals Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Monarch Polymers Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00091/14551—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Monarch Polymers Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Monarch Cement Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00095/14560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Monarch Cement Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lunia Finlease Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00100/14563—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lunia Finlease Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Noble Fincap Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00102/14566—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Noble Fincap Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pebble Securities Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00109/14569—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pebble Securities Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kanan Dalal Securities Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00111/14572—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kanan Dalal Securities Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhagwati Transport (Ahmedabad) Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00114/14575—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhagwati Transport (Ahmedabad) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Elpro Pharmaceuticals Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00115/14578—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Elpro Pharmaceuticals Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pramukh Financial Services and Securities Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00116/14581—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pramukh Financial Services and Securities Limited

unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Paras Stocken Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00117/
14584—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Paras Stocken Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gujarat Atheletic Racing Club Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00118/
14587—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Gujarat Atheletic Racing Club Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kailash Kalyan Creators Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00119/
14590—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Kailash Kalyan Creators Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Grip Securities Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00120/
14593—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Grip Securities Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kurnal Invalease Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00121/
14596—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Kurnal Invalease Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Forum Floriculture Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00122/
14599—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Forum Floriculture Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nova Life Sciences Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00123/
14602—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nova Life Sciences Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jamsataji Lamipak Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00124/14605—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jamsataji Lamipak Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mehta Chavana and Sweets Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00125/14608—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mehta Chavana and Sweets Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ramnk Fibe Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00127/14611—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ramnk Fibe Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Harrykem Technofin Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00129/14614—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Harrykem Technofin Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vraj Finance Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00130/14617—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vraj Finance Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. S. Charter Capital Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00131/14620—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S. S. Charter Capital Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. S. Industrial Finance Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00132/14623—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. S. S. Industrial Finance Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Skytel Systems Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00133/14626—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Skytel Systems Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Richmor Finstock Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00135/14629—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Richmor Finstock Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sparsh Polymers Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00137/14632—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sparsh Polymers Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nisarg Securities Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00138/14635—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nisarg Securities Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Samir Wind Power Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00140/14638—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Samir Wind Power Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pure Spices Limited

Ahmedabad-380013, the 11th October 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00141/14641—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pure Spices Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganesha Vinayaka Impex Private Limited

Ahmedabad-380013, the 14th October 2010

No. ROC/560/14899—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ganesha Vinayaka Impex Private

Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

RAJESH KUMAR DALMIA
Dy. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and
of the following Companies

Kolkata, the 13th October 2010

No. ROC/WB/IPC/560 S/M/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Registrar and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	024723	M/s. Shree Balkrishna Vithalnath Properties Private Limited
2.	051140	M/s. Nightangle Fiscal Private Limited
3.	039361	M/s. Siloni Engineers Private
4.	019388	M/s. Leonard Card Board Box Factory Private Limited
5.	084444	M/s. Punit Exports Private Limited
6.	017574	M/s. Great Eastern Mechanical Works Private Limited
7.	25843	M/s. Jiwnani Engineering Works Private Limited
8.	121075	M/s. First Steps Insurance Adivsory & Broking Private Limited
9.	095097	M/s. C. C.A. Commercial Services Private Limited
10.	063588	M/s. Ganga Kiran Agencies (Bombay) Private Limited
11.	104017	M/s. Eminent Solutions Private Limited
12.	071094	M/s. Track & Tractor Services Private Limited
13.	114867	M/s. Facile Advisory Services Private Limited
14.	072485	M/s. Core Dealcomm Private Limited
15.	050140	M/s. Shyam Finvest Private Limited
16.	100200	M/s. Balaji Potato Flakes Private Limited
17.	106181	M/s. Sohom Containers Private Limited
18.	039541	M/s. Mercantile Trading Co. Private Limited

1	2	3
19.	057193	M/s. Moshal Development Co. Limited
20.	070892	M/s. Rockland Vinimay Private Limited
21.	088201	M/s. Mercury Gravieure Printers Private Limited
22.	103453	M/s. P. S. Hi-Rise Private Limited
23.	108372	M/s. Esquire Leather Accessories Private Limited
24.	062930	M/s. H. Kailash Overseas Private Limited
25.	038710	M/s. Transmission (India) Private Limited
26.	109812	M/s. Nu Decor Advisory Co. Private Limited
27.	018003	M/s. Universal India Trading Co. Private Limited
28.	031734	M/s. Superior Ink & Varnish Co. Private Limited
29.	031734	M/s. Net Care Insurance Agency Private Limited
30.	019495	M/s. B. N. Pachal & Sons Private Limited
31.	0108008	M/s. Lifestyle Housing Projects Private Limited
32.	0108511	M/s. Blue Chip Housing Private Limited
33.	077630	M/s. Gee Pee Plastivision India Private Limited
34.	104770	M/s. FMC Healthcare Services Private Limited
35.	092742	M/s. Mega Heart Enterprises Private Limited
36.	115118	M/s. Subham IT Services Private Limited
37.	094222	M/s. Success Point Education Private Limited
38.	112026	M/s. SSR Consultancy Private Limited
39.	102727	M/s. Neostiva Care Private Limited
40.	223200	M/s. Mohanlal Gautam Private Limited
41.	110766	M/s. Pekon Skypower Private Limited
42.	046307	M/s. Bhalotia & Sons Private Limited
43.	058558	M/s. Bhalotia Exports Private Limited
44.	059263	M/s. Namaste Holdings Private Limited
45.	027325	M/s. Unique Metal Industries Private Limited
46.	107157	M/s. Quanta Laboratories Private Limited

1	2	3
47.	088362	M/s. B. P. N. Lokenath Distributors Private Limited
48.	091839	M/s. S. D. Deb Enterprises Private Limited
49.	090349	M/s. Oberon Technologies Private Limited

HARIHARA SAHOO
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and
of the following Companies :

Cuttack-753001, the 13th October 2010

No. ROC/Sec.560(5)/EES-2010/4106—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Registrar and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	1084	M/s. Badrinath Processor Private Limited
2.	5977	M/s. Pratikhya Security Services Private Limited
3.	930	M/s. Koh-Inoor Resorts Private Limited
4.	6164	M/s. Oriole Estates Private Limited
5.	7956	M/s. Mousumi Enterprises Private Limited
6.	6157	M/s. E-Com Network Services Private Limited
7.	394	M/s. Orissa Board Mills Limited
8.	1915	M/s. Rockwells Transport Service Private Limited
9.	1635	M/s. Khurana Agro Industries Private Limited
10.	5903	M/s. Vedica Builders Private Limited
11.	3914	M/s. Polaki Agrotech Private Limited
12.	6922	M/s. Asperal Biotech Private Limited
13.	396	M/s. Modern Electronics Limited

1	2	3
14.	5986	M/s. Mayfair Services Private Limited
15.	8974	M/s. Radhika Mines Private Limited
16.	2295	M/s. Gourishankar Rice Mill Private Limited
17.	5914	M/s. Vijay Realcon Private Limited
18.	6195	M/s. Aaren I-Tech Private Limited
19.	6848	M/s. Trans Ocean Engineering Private Limited
20.	8915	M/s. Aadya Organic Limited
21.	8778	M/s. Bonai Minerals Private Limited
22.	9699	M/s. CIMM (India) Engineering Project Private Limited
23.	8305	M/s. Hotel Steel Resort Private Limited
24.	8764	M/s. Caddes Software Private Limited
25.	7316	M/s. Kalinga Signals Private Limited
26.	8587	M/s. Shree Air Producta Private Limited
27.	1032	M/s. S. N. Corporation Limited
28.	5228	M/s. Payal Garments Private Limited
29.	787	M/s. Basanti Hotels Private Limited
30.	8600	M/s. Narayani Poultry Private Limited
31.	4100	M/s. Maa Durga Agro Foods Private Limited
32.	5009	M/s. Jemps Techno Private Limited
33.	9752	M/s. Om Sai Resources Private Limited
34.	7684	M/s. Bramhani Consultants Private Limited
35.	8382	M/s. Sundareswar Poultry Private Limited
36.	8057	M/s. Herbage (India) Marketing Private Limited
37.	791	M/s. Belarani Private Limited

1	2	3	1	2	3
38.	6171	M/s. Elite Academy of Professional Study and Research Private Limited	54.	3111	M/s. Sidha Bhairavi Wires and Private Limited
39.	6945	M/s. Earthgrains Private Limited	55.	9036	M/s. D. M. Tutorials Private Limited
40.	9189	M/s. Aver Services Private Limited	56.	5362	M/s. Paatidar Alloy Wires Private Limited
41.	5618	M/s. Satyanarayan Iron Works Private Limited	57.	4595	M/s. Valley Granites Private Limited
42.	8068	M/s. Rani Sarda Food Processing Private Limited	58.	7129	M/s. M. L. Marketing India Private Limited
43.	8617	M/s. Internet N-Software Application Technology Private Limited	59.	3293	M/s. Idcol Piping and Engineering Works Limited
44.	8616	M/s. Kalinga Infrastructure Development Private Limited	60.	3975	M/s. Saviour Health Care Private Limited
45.	3378	M/s. Kalinga Seva Prakaalpa Investment Limited	61.	9147	M/s. Omm Marine Exports Private Limited
46.	7284	M/s. Abhyudaya Services Private Limited	62.	8743	M/s. Ashirbad Resources Private Limited
47.	3921	M/s. Brain-Wise Marketing Private Limited	63.	6434	M/s. Sneharshree Properties Private Limited
48.	2815	M/s. Gajapati Security Services Private Limited	64.	8744	M/s. Powersol Technology Private Limited
49.	6268	M/s. Shree Vasudev Securities Private Limited	65.	7833	M/s. Shanti Assurance Marketing Private Limited
50.	6782	M/s. Navanirman Projects Private Limited	66.	972	M/s. M. P. S. Enterprises Private Limited
51.	9393	M/s. Integrated Institute of Network Technology Private Limited	67.	1193	M/s. Shree Bajrang Engineering and Foundary Works Private Limited
52.	9537	M/s. Purbi Bharat Rare Earth Limited			
53.	9163	M/s. New Ergo Concept Marketing Private Limited			

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa